

**THE BOOK WAS
DRENCHED**

UNIVERSAL
LIBRARY

OU_176012

UNIVERSAL
LIBRARY

जीवनका काव्य

[हमारे त्योहारोंका परिमल]

लेखक

दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर



नवजीवन प्रकाशन मन्दिर
अहमदाबाद

OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY

Call No. H294.536 Accession No. H860

Author K14J
कालेलकर, दत्तात्रेय बालकृष्ण

Title जीवन का काव्य. 1947.

This book should be returned on or before the date last marked below.

जीवनका काव्य

[हमारे त्योहारोंका परिमल]

लेखक

दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर

अनुवादक

श्रीपाद जोशी

शुक्लप्रियाः खलु मनुष्याः ।



नवजीवन प्रकाशन मन्दिर

अहमदाबाद

मुद्रक और प्रकाशक
जीवणजी डाह्याभाई देसाई
नवजीवन मुद्रणालय, कालुपुर, अहमदाबाद

पहली बार, २.०००

दो रुपये

फरवरी, १९४७

निवेदन

सत्याग्रह आश्रमकी पाठशालाका अेक नियम यह था कि जब वहाँका विद्यार्थी-मण्डल किसी अुत्सवके लिये अपना कोअी अच्छासा कार्यक्रम तैयार करके शिक्षकोंके पास पहुँचे, तभी अुस दिनका अुत्सव मनानेकी अिजाज़त दी जाय । माना यह जाता था कि बिना किसी कार्यक्रमके सुस्ती और बेकारीमें दिन बितानेको ही उत्सव कहा जाता हो, तो शिक्षकोंकी दृष्टिये बेहतर यह है कि वैसा अुत्सव मनाया ही न जाय ।

अुत्सव-प्रिय विद्यार्थी कुछ कार्यक्रम तो तैयार करते ही थे । अगर कार्यक्रम तैयार करनेके आलस्यके कारण अुन्हें अुत्सव खोना पड़े, तो वह अुनकी युवक शोधक बुद्धिके लिये लांछनरूप ही न हो ! लेकिन अगर मनचाहे अुत्सव मनाने हों, तो कार्यक्रमोंमें नवीनता और विविधता भी होनी चाहिये । अिसलिये अिसपर अपनी बुद्धि खर्चकर चुकनेके बाद विद्यार्थी शिक्षकोंसे सुझाव माँग-माँगकर अुन्हें परेशान किया करते । शिक्षक भी अुत्सव द्वारा अपना शिक्षण-कलाका विकास करनेके लिये अुत्सुक थे ही; फिर, धार्मिक और सामाजिक शिक्षाके लिये अुत्सवसे बढ़कर सुलभ और सरस साधन दूसरा क्या हो सकता था ?

दोनों तरफकी अिस भूखका विचार करके शिक्षक-मण्डलने यह निश्चय किया कि अुत्सवके समारोह, अुसके कार्यक्रमकी दिशा, अुसपर खर्च किया जानेवाला समय, अुसका सामाजिक और धार्मिक महत्त्व, वगैरा कअी तरहके प्रश्नों पर विचार करके अेक छोटा मार्गदर्शक सूचनापत्र तैयार किया जाय । और, शिक्षक-

मण्डलने यह काम श्री काकासाहब कालेलकरको सौंपा । 'जीवनके काव्य'का यह निवेदन अुसीका परिणाम है ।

गुजरातीमें अिस पुस्तकके पहले दो संस्करणोंका आशासे अधिक स्वागत हुआ । अिससे पता चलता है कि हमारे धार्मिक जीवनकी जड़ें जितनी हम मानते हैं, अुससे ज़्यादा गहरी हैं । यदि आजकलकी चिकित्सक दृष्टिके साथ समाजमें पुराना धार्मिक वाचन अेक सामाजिक रिवाज या संस्थाके रूपमें रूढ़ होता, तो अुससे समाजको क्रीमती लोक-शिक्षण मिला होता । जबतक दूसरी तरहसे अिस कमीकी पूर्ति न हो, तबतक अिन त्योहारोंके बारेमें अलग-अलग अवसरों पर श्री काकासाहबने जो लेख या टिप्पणियाँ लिखी हैं, अुनका संग्रह कर देनेसे समाजको अपने सामाजिक और धार्मिक जीवनको फिरसे सजीवन करनेमें थोड़ा मार्गदर्शन अवश्य प्राप्त होगा, अिस विचारसे अैसे लेखोंका अेक संग्रह अिस पुस्तकके दूसरे खण्डमें दिया गया है ।

आजके ज़मानेमें निरी श्रद्धासे काम नहीं चलता, और न कोरी तार्किक अश्रद्धासे ही समाजकी आत्माको सन्तोष होता है । लोक-हृदयको पौष्टिक आहार तो अैसेही लेखोंसे प्राप्त हो सकता है, जिनमें अिन दोनोंका समन्वय किया गया हो ।

यहाँ अिस बातकी कोअी कल्पना नहीं की गयी कि पिछले सौ-दोसौ वर्षोंमें जिस मुग्ध रीतिसे हमारा धार्मिक जीवन निभता आया है, अुसका वही ढंग हमेशा बना रहे । हमें अपने युगको अपनी व्यापक आवश्यकताओंके अनुसार नअी-नअी कृतियोंसे सजाना होगा । आशा है, अिसके लिये आवश्यक दृष्टिका निर्माण करनेमें ये लेख सहायक होंगे और धार्मिकताका वातावरण अुत्पन्न करेंगे ।

विषय-सूचि

निवेदन

१. जीवित त्योहार	३
२. अत्सवके उपवास	८
३. जयन्ती	११
४. त्योहारोंकी सूची	१४
५. ध्वजारोपण	१७
ध्वजारोपण	२१
६. रामनवमी	२२
रामनवमी	२६
७. महावीर-जयन्ती	२८
१. महावीर स्वामी	२८
२. विश्वधर्म	३३
महावीर-जयन्ती	३७
८. लोर्गोका हनुमान	३८
हनुमान-जयन्ती	४२
९. परशुराम और बुद्ध	४३
१०. अक्षय तृतीया	४६
११. धर्ममणि श्री शंकराचार्य	४७
शंकर-जयन्ती	५१
१२. बोधि-जयन्ती	५२
१. बोधिप्राप्ति	५२
२. भगवान् बुद्ध	५३
३. ओशियाका धर्म-सम्राट्	६२
४. बुद्ध-अवतार	६८
बोधि-जयन्ती	७०

१३. मृत्यु विरुद्ध प्रेम	७१
वट-सावित्री	८९
१४. आषाढी महाअेकादशी	८९
१५. आचार्यदेवो भव	९०
१६. गुरुपूर्णिमा	९१
१७. नागपञ्चमी	९१
नागपञ्चमी	९४
१८. श्रावण-सोमवार	९४
१९. श्रावण-पूर्णिमा	९४
२०-१. लोकनायक श्रीकृष्ण	९६
२०-२. जन्माष्टमीका उत्सव	९८
२०-३. प्रतीक्षा	१०६
२०-४. दिव्य जन्मकर्म	१०८
२०-५. जन्माष्टमी	११५
जन्माष्टमीका कार्यक्रम	१२०
२१. गणपति-अुपासना	१२०
गणेश-चतुर्थी	१२७
२२ १. चरखा-द्वादशी	१२७
२२-२. गांधी-सप्ताह	१३१
चरखा-द्वादशी	१३५
२३. नवरात्रि	१३६
२४. सरस्वती-पूजा	१३८
२५. शारदाका अुद्बोधन	१३८
२६. विजयादशमी	१४१
१. सीमोल्लंघन पर्व	१४१
२. क्या यही दशहरा है ?	१४९
दशहरा	१५०

२७. सार्वभौम धर्म	१५१
२८. शरद पूर्णिमा	१५१
२९. धन-तेरस	१५३
३०. दीवाली	१५४
१. बलिका राज	१५४
२. दीवाली	१५६
३. मृत्युका अुत्सव	१५९
४. छोटे भाओके बिना दीवाली ?	१६१
५. नरक चतुर्दशी	१६२
दीवाली	१६२
३१. नया वर्ष	१६३
३२. कहाँ है भैयादूज ?	१६३
भैयादूज	१६७
३३. महाअेकादशी	१६८
३४. युद्ध-गीताकी जयन्ती	१६९
गीता-जयन्ती	१७२
३५. दत्त-जयन्ती	१७३
३६. संक्रान्ति	१७४
३७. मकर संक्रान्ति	१७७
३८. वसन्त	१७८
३९. मंगलमूर्ति भीष्म	१८१
भीष्माष्टमी	१८५
४०. महाशिवरात्रि	१८६
१. अेक पत्र	१८६
२. हरिणोंका स्मरण	१८८
महाशिवरात्रि	१९२
४१. गुलामोंका त्योहार	१९२
होली	१९६

४२.	धर्म-रक्षक शिवाजी	१९८
	शिवाजी-जयन्ती	२०२
४३.	प्रेमवीर ब्रह्मचारी	२०३
	बड़ा दिन	२०५
४४.	मुहूर्तम	२०५
	मुहूर्तम	२०६
४५.	अेकताका त्योहार	२०७
	बक-अीद	२१०
४६.	स्वर्गीय लोकमान्य तिलक	२११
	तिलक-पुण्यतिथि	२२५
४७.	त्यागी देशबन्धु	२२६
	देशबन्धु-पुण्यतिथि	२२८
४८.	स्वराज्य-महाव्रत	२२८
	राष्ट्रीय-सप्ताह	२३०

छोटे त्योहार

४९.	दादाभाअी नौरोजी	२३१
५०.	गोखलेजीको श्रद्धांजलि	२३१
	गोपाल कृष्ण गोखले	२४३
५१.	चोखामेळा	२४४
५२.	जनाबाअी	२४६
५३.	नरसिंह मेहता	२४७
५४.	मीरा	२४७
	सूचना	२४८
५५.	जीवित अितिहास	२४८
५६.	आवश्यक वाचन	२५०

जीवनका काव्य

(हमारे त्यौहारोंका परिमल)

जीवित त्यौहार

भेड़ियेके समान खाना, बिल्लीके समान जँभाना, और अजगरके समान पड़े रहना यही त्यौहारका प्रमुख लक्षण कहीं कहीं हो गया है । अेक त्यौहारके मानी हैं कमसे कम तीन दिनकी खराबी । अस हालतमेंसे त्यौहारोंको बचाना हमारा प्रधान कर्तव्य है ।

हमने अस दृष्टिसे भी विचार किया कि 'त्यौहारोंको निकाल ही दिया जाय तो क्या हो ?' हररोज़ की आवश्यक और स्फूर्तिदायक प्रवृत्तिको शिथिल करना, अैसे कपड़े पहनना जो अपनी हैसियतसे बाहरके हों, तरह-तरहके मिष्ठान्न खाकर अिन्द्रियोंको लालचकी लत लगाना, और ताश, शतरंज, चौसर, आदि फ़िज़ूलके बैठे-खेलोंमें वक़्तको बरबाद करनेमें अेक दूसरेको अुत्तेजन देना — अितना ही अगर त्यौहारोंका अर्थ होता हो, तो अुन्हें निकाल देना ही ठीक है ।

लेकिन हमारी कल्पनाके अनुसार त्यौहारों और अुत्सवोंका जीवनमें अेक विशिष्ट और महत्त्वका स्थान है । त्यौहारोंके ज़रिये ही हम संस्कृतिके कअी अंगोंकी अच्छी तरह रक्षा और विकास कर सकते हैं । विशिष्ट प्रसंगों और अुनके महत्त्वोंको याद रख सकते हैं । अृतुओंके परिवर्तनके अनुसार जीवनमें विशिष्ट परिवर्तन यथा-समय संकल्पपूर्वक शुरू कर सकते हैं । और सामाजिक जीवनमें परस्पर सहकारके साथ ही अैक्यको भी ला सकते हैं ।

कितनी ही वृत्तियाँ मनुष्य-हृदयके लिये अितनी स्वाभाविक हैं कि अगर अुनका नियमन न किया जाय, तो वे अमर्याद बढ़कर सारी ज़िन्दगीको बरबाद करती हैं । अुनका सीधा विरोध या बाह्य

निरोध करना संभव अथवा सुरक्षित नहीं होता। दबावकी वजहसे वे विकृत बनती हैं और चोरीसे या अस्वाभाविक रीतिसे वे अपनी तृप्तिकी तलाशमें रहती हैं। अिनमेंसे कभी वृत्तियाँ मर्यादित स्वरूपमें क्षम्य ही नहीं, बल्कि हितकारक भी होती हैं। अुनका नाश करनेके बजाय अगर अुन्हें विशुद्ध बनाकर अुन्नतिके रास्तेकी ओर मोड़ दिया जाय तो सम्पूर्ण शिक्षामें अुससे काफ़ी मदद पहुँचती है। यह कार्य कभी-कभी सामाजिक रीतिसे ही भली-भाँति सधता है। अिसमें अिन त्यौहारोंसे ख़ासी मदद मिल सकती है।

त्यौहारोंके बारेमें हमने यह दृष्टिबिंदु रक्खा है कि त्यौहारका दिन चाहे जिस तरह समय अुड़ाने या आराम करनेका छुट्टीका दिन नहीं है। त्यौहार और अुत्सव दोनों शिक्षाके नैमित्तिक और क्रीमती अंग हैं। और अिसीलिये जहाँ तक हो सके, पुरानी प्रथाको ध्यानमें रखकर त्यौहारोंके कार्यक्रम अिस तरहके सुझाये गये हैं कि अुस दिनका वैशिष्ट्य तो भली-भाँति समझमें आ ही जाय और फिर भी प्रत्येक कार्यक्रम अितना हलका रहे कि त्यौहारकी थकानको दूर करनेके लिये अुसके बादका दिन ख़राब न करना पड़े। अैसी अनिष्ट स्थिति नहीं आनी चाहिये कि रात तो जागरणमें बिता दी और अगला दिन दिवानिद्रामें।

कुछ त्यौहार ही अैसे हैं कि जो महत्त्वके होते हुअे भी अुनके पीछे कोअी ख़ास कार्यक्रम नहीं हो सकता। हमने अुन्हें आधे दिनके त्यौहार माना है।

अिससे भी आगे जाकर हमने कभी प्रसंग अैसे माने हैं कि जो आज अुत्सवों या त्यौहारोंमें नहीं गिने जाते; फिर भी जिनका महत्त्व विद्यार्थियोंके सामने वर्षानुवर्ष रखना ही चाहिये। अैसे प्रसंगोंके लिये दिनमेंसे अगर अेकाध घंटा दे दिया जाय तो काफ़ी

है। हमारी सिफारिश है कि चालीस मिनट, पौन घंटा या अेक घंटा जिस प्रकारका समय विभाग होगा, वैसा अेक विभाग अैसे प्रसंगोंके लिये दिया जाय।

अुत्साही संस्थायें हरसाल नये नये त्यौहार खोज निकाल सकेंगी और अुससे त्यौहारोंकी बड़ी संख्यामें और भी वृद्धि कर सकेंगी। लेकिन अुसमें अगर अुचित संयम न हो, तो अल्पजीवी कषुद्र त्यौहारोंके बढ़ जानेकी आशंका बहुत है। कअी त्यौहार अैसे हैं जिन्हें चाहिये कि वे जीवनधर्मका अनुसरण करके विस्मृतिके पेटमें लुप्त हो जायँ और नये त्यौहारोंके लिये जगह खाली कर दें। त्यौहार तो मानवजीवनके लिये हैं। असिलिये मानवजीवनके साथ अुनमें परिवर्तन होना ही चाहिये।

कुछ त्यौहार महावृषकी तरह सैकड़ों या हज़ारों बरस जीवित रहते हैं। कुछ सामान्य वनस्पतिकी तरह थोड़े समयके लिये जीवित रहकर अपना कार्य समाप्त करते हैं। पुराणप्रिय सनातन धर्ममें जो कअी दीर्घजीवी त्यौहार हैं अुनकी क्रूर हमारी योजनामें की हुअी दिखाअी देगी। अुनमें कअी नये त्यौहार मिलाये गये हैं और वह भी संयमपूर्वक। हमारी यह न अपेक्षा है न अिच्छा ही कि अस नयी वृद्धिके सभी त्यौहार दीर्घजीवी हो जायँ! आज अुनका महत्त्व है। जब तक अुनका यह महत्त्व क्रायम रहेगा तब तक वे जीवित रहें तो काफ़ी है।

श्रीविष्णुकी आज्ञासे प्रवर्तित अितिहासक्रमके कारण हिन्दुस्तानमें दुनियाके क़रीब-क़रीब सभी धर्म अिकट्टा हो गये हैं। हिन्दमाताकी अमृतदृष्टिके कारण ये सब धर्म अेक ही कुटुम्बके बालकोंकी तरह यहाँ रहेंगे। अस कुटुम्बधर्मका स्वीकार करके हरेक धर्म दूसरे

धर्मोंके त्यौहारोंको अपनी-अपनी मान्यताके अनुसार अपने जीवनमें स्थान दे यह अुचित है। इस तत्त्वको ध्यानमें रखकर हमने अपनी योजनामें कभी त्यौहार बढ़ा दिये हैं। इस तत्त्वका स्वीकार करने पर भी हमने उसका नियम नहीं बनाया है। यही अुचित क्रम होगा कि अपने जीवनमें जो-जो चीज़ स्वाभाविक रूपसे दाखिल हो जायेगी उसका विचारपूर्वक स्वागत किया जाय। हमारी इस योजनामें पारसी त्यौहारोंको स्थान नहीं दिया गया है। इसका कारण यह नहीं है कि हम इस धर्मका कम महत्त्व समझते हैं, बल्कि यह है कि हमारी संस्थामें (आश्रममें) अभीतक यह सहकार नहीं बढ़ पाया है।

हम दृढ़ताके साथ यह मानते हैं कि हिन्दुस्तानमें बसे हुअे सभी धर्मोंके पीछे हिन्दमैयाका अेक सर्वसंग्राहक विश्वप्रेमी प्रेमधर्म है। इस अुदार और सर्वसहिष्णु धर्मका प्रभाव जैसे-जैसे हरेक धर्मके अूपर पड़ता जायगा, वैसे-वैसे सब धर्मोंमें कौटुम्बिक भाव बढ़ता जायगा। हमारी योजनामें इस बातको स्वीकार किया गया है। फिर भी हमने अैसी कोशिश नहीं की है कि जानबूझकर भविष्यके प्रवाहको किसी विशिष्ट मार्गमें ही मोड़ दिया जाय। पुरानी चीज़ोंमेंसे जो चीज़ें सार्वभौम धर्मतत्त्वकी विरोधी और देशकालके लिये अुचित मालूम हुअीं अुन्हें छोड़ दिया है। जो निर्दोष होते हुअे भी क्षीणसत्त्व और कालग्रस्त हुअी हैं अुन्हें कृत्रिम रीतिसे टिकानेका प्रयत्न हमने नहीं किया है। हमारी योजनामें भविष्यकालकी तैयारीकी दृष्टि है। फिर भी उसका ज़्यादा असर योजना पर नहीं पड़ने दिया है। क्योंकि भविष्यकालकी दिशाका निश्चित दर्शन होनेमें अभी कुछ देर है। वर्तमानकालकी आकांक्षाओं और भूतकालके पाससे मिली हुअी नक्रद विरासतका ही हमने विशेष विचार किया है।

निरुत्साही और निजीव शिक्षविभागकी शिक्षणप्रथा सब जगह फैली हुई है । असलिये स्कूलोंकी तरफसे त्यौहार मनानेका कार्य मुश्किल है, यह समझकर और निरुद्यमी समाजके अुद्यमी होनेके प्रयत्नमें त्यौहार बाधारूप न हो जायँ, असलिये हरेक त्यौहारका कार्यक्रम बहुत ही हलका रक्खा है । फिर भी अुनमें सृजनात्मक अथवा विधायक शिक्षाके विकासका स्पष्ट बीजारोपण है । शालीन (शालेय) जीवन जैसे-जैसे समृद्ध होता जायगा वैसे-वैसे अस बीज का विकास आप ही आप होता जायगा । लेकिन यह सब शिक्षकोंकी प्रतिभा और विद्यार्थियोंके अुत्साह पर निर्भर है ।

कुछ नहीं तो हमारे शिक्षक, विद्यार्थी और माँबाप, सबको प्रसन्न परिस्थितिमें अेकसाथ ले आनेके प्रसंगोंके रूपमें तो ये त्यौहार महत्त्वके हैं ही । समाजसुस्थितिका चिन्तन करनेवाले चतुर शिक्षक अैसे अुत्सवोंसे लाभ उठाकर अनायास सामाजिक प्रश्नोंके बारेमें लोकमानसको जागृत करेंगे और अस तरह लोकशिक्षणका छोटा-सा प्रारंभ करेंगे । दूसरे, हमारे बढ़ते हुअे सामाजिक जीवनमें अेक ही दिशामें लेकिन अलग-अलग मार्गोंसे जानेवाली संस्थाओंका परस्पर परिचय बढ़ानेमें भी हमारे अुत्सव काफ़ी हिस्सा ले सकते हैं । स्नेहसम्मेलनोंकी अपेक्षा समाजमान्य अुत्सवोंके प्रसंग ही अस प्रकारका परिचय नम्रताके वायुमंडलमें अधिक स्वाभाविक रीतिसे करा सकते हैं । सारांश, विद्यार्थियोंका सर्वांगीण विकास हो, हृदयके अुच्च भाव विशिष्ट रीतिसे विकसित हों, और अुनके द्वारा मुख्यतः धार्मिक और सामान्यतया सामाजिक शिक्षाका आह्लाददायक साधन मिले, यही अुद्देश हमने अपने सामने रक्खा है ।

अुत्सवके अुपवास

अेक मित्र पूछते हैं, 'जन्माष्टमी या रामनवमी जैसे दिनोंको तो असलमें अुत्सव और आनन्दके दिन मानना चाहिये, अुस दिन मिष्टान्न भोजन करनेके बदले अुपवास करनेकी प्रथा क्यों पड़ गयी होगी ?'

प्रश्न पूछनेवाले तो मानों अैसा ही मानते हुअे मालूम होते हैं कि अुपवास तो दुःख या शोकके अवसर पर ही किया जाय । अुनसे हम पूछते हैं कि अगर अैसा ही होता तो हृद्दिचुस्त लोग अितने बड़े-बड़े मृतभोज क्यों करते होंगे ? अुपवास तो हमने दुःख या संकटका चिह्न नहीं बनाया है । बात सही है कि जब चित्तमें ग्लानि हो, दुःखसे दबे हुअे हों, तो अैसे अवसर पर आरोग्यके नियमके अनुसार न खाना ही अुचित है । हृदयकी स्वाभाविक प्रेरणा भी यही सुझाती है । आरोग्यके नियमकी दृष्टिसे देखा जाय, तो जिस वक्रत दिलको बहुत खुशी हुअी हो अुस वक्रत भी हमें कुछ नहीं खाना चाहिये । मिष्टान्न भोजन या अतिआहार तो करना ही नहीं चाहिये । दुःखमें जिस तरह पाचनशक्ति क्षीण हुअी होती है, अुसी तरह आनन्दकी अुत्तेजनामें और क्षोभमें भी अैसी ही हालत होती है । अिसलिये किसी भी कारणवश चित्तका स्वास्थ्य नष्ट हो गया हो तो अुस समय अनशन या अल्पाहार ही विहित है ।

जन्माष्टमी जैसे अुत्सवके अवसर पर हम जो अुपवास करते हैं अुसका अुद्देश्य अिससे भी विशेष है । जन्माष्टमी कृष्णजन्मका

समारोह नहीं, बल्कि कृष्णजन्मकी साधना है। द्वापर या त्रेता युगमें कृष्णजन्म हुआ अुससे हमें क्या मतलब? जब हमारे हृदयमें कृष्णजन्म होगा अुसी समय हम पुनीत हो जायेंगे।

हमारे बचपनमें अिस प्रकारके अुपवास करनेका हमें अधिकार न था। अुपवास तो घरके बड़े-बूढ़े लोग ही करते थे। हम तो लड़के थे। दोनों शाम डटकर भोजन करके पूजामें मदद करना ही हमारा धर्म था। हालत यह थी कि घरके बड़े लोगों को अुपवास करते देख हम भी अुपवास करनेका हठ करते और रो-धोकर और कभी मार खाकर भी न खानेका अधिकार प्राप्त करते।

सच देखा जाय तो अुपवास अेक साधना है। जिस तरह नहानेसे पवित्रताका अनुभव होता है, और मौन धारण करनेसे आध्यात्मिक वातावरण प्राप्त किया जाता है, अुसी तरह अुपवाससे हम अन्तर्मुख होते हैं; और सात्त्विक वृत्तिको भी विकसित कर सकते हैं। हरेक भोजनके साथ शरीरमें अेक प्रकारकी जड़ता तो आ ही जाती है। अुसे टालकर शरीरका बोझ हलका करनेसे ध्यान या अुपासनाके लिये अनुकूल परिस्थिति पैदा होती है। अुपनयन, अुपनिषद्, अुपवास और अुपासना ये चारों शब्द अेक-से हैं। जिस तरह ब्रह्मचर्यका मूल अर्थ वीर्यरक्षा नहीं है, अुसी तरह अुपवासका मूल अर्थ भी अनशन नहीं है। ब्रह्मचर्यके मानी हैं, अीश्वरप्राप्तिके लिये वेदशास्त्रके अध्ययनमें तन्मय हो जाना। चूँकि यह कार्य वीर्यरक्षासे ही संभव है, अिसलिये वीर्यरक्षाको ही खास करके ब्रह्मचर्य नाम दिया गया। अुपवासमें भी यही भाव है। अुपवास यानी परमात्माके पास रहना, अुसके सान्निध्यका अनुभव करना। जो व्यक्ति अिन्द्रियोंकी तृप्ति करनेमें लगा रहता है, वह अीश्वरका नाम लेता हुआ भी

अश्वरके सान्निध्यका अनुभव नहीं कर सकता । आहार-मात्रका त्याग करके अथवा शरीर प्रकृतिके साम्यकी रक्षा करनेके लिये अल्प मात्रामें सात्त्विक आहार करके परमात्माका स्मरण करना, उसकी भक्ति करना, उसकी निकटताका अनुभव करना — इसका नाम है उपवास । यही उपासना है । यह देखकर कि उपासकके लिये आहार कम करनेके अलावा दूसरा मार्ग ही नहीं है, धार्मिक साधनाके लिये किये हुअे अन्नत्यागको ही उपवास कहने लगे । कृष्णजन्म या रामजन्मके दिन यह आध्यात्मिकता, यह साधकवृत्ति, लानेके लिये उपवास रक्खा गया है ।

जयन्ती

अश्वरकी सृष्टिमें असंख्य मनुष्य पैदा होते हैं । उन सबकी जयन्ती हम नहीं मनाते । जिनके जीवन-रहस्यका अपने हृदयमें पुण्यपावन अुदय हुआ हो अुन्हींकी जयन्ती हम मनाते हैं । करोड़ों लोगोंका जीवन तो आये दिनको किसी तरह काटनेमें ही बीत जाता है । मनुष्यको परेशान करनेवाले, अुसे पामर बनानेवाले, कअी शत्रु हैं, अुनके विरुद्ध लड़नेवालोंकी संख्या अत्यंत अल्प होती है । शत्रुको किसी तरह टाल देना अथवा कायरताके साथ अुससे समझौता करना और युद्धकी तकलीफसे जान बचाना ---- यही सामान्य लोगोंका जीवनक्रम होता है । लेकिन अिस तरीकेसे शत्रु नहीं टलता । वह तो बार-बार सामने खड़ा रहता ही है, और हरेक बार समझौतेकी अधिकाधिक क्रीमत मांगता जाता है । यह क्रीमत केवल पैसेसे नहीं चुकायी जा सकती । वह तो प्राण, तेजस्विता, और स्वतंत्रतासे चुकानी पड़ती है । हरेक मनुष्यके दिलमें अिन तीनों चीजोंकी चाह तो हुआ ही करती है, लेकिन सिरके बदलेमें तेजस्विता और स्वतंत्रताको सम्हालने या प्राप्त करनेका प्राण (जीवट) जिसके अन्दर हो, अुसीको वीरपुरुष कहा जाता है, अुसीको विजयी कहते हैं । मनुष्यजातिके शत्रु पर जिसने विजय पायी है, अुसीकी जयन्ती हम मनाते हैं । जयन्तीका अर्थ ही यह है ।

लेकिन हम जयन्ती मनाते ही किसलिये हैं ?

दो क्रिस्मके लोग जयन्तियाँ मनाते हैं: एक वे हैं, जो वीरपुरुषोंसे प्रेरणा पानेकी अच्छा रखते हैं, और दूसरे वे, जो अनुसे रक्षा चाहते हैं। एक वर्ग वीरोंका उपासक होता है और दूसरा अनुका आश्रित। पहले वर्गको वीरोंके वीरकर्मोंसे प्रेरणा, अत्साह, और प्राण मिलते हैं। वीरोंकी उपासना करके वे स्वयं वीर बन जाते हैं। दूसरा वर्ग पामर होता है। ये लोग हमेशा भयभीत दशामें रहते हैं; त्यागसे डरते हैं। कहते हैं, 'अिस भयभीत दशासे जो हमें मुक्त करेगा, हमें आश्वासन देगा, वही हमारा स्वामी है। अुसीका हम जयजयकार करेंगे, अुसकी प्रसन्नता प्राप्त करेंगे, और अुसके वीरकर्मके आश्रयमें हम सुखी रहेंगे। वह अगर चला जाय, तो अीश्वरसे हम प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभो! हमारे लिये दूसरा कोअी नाथ भेज दे! हमें सनाथ कर।'

अनाथ लोग जब वीरपूजा करते हैं, तो अुस पूजाके पीछे अिसी प्रकारकी अनाथोंकी याचनावृत्ति रहती है।

बिल्लीका बच्चा कहता है, 'अय मेरी माँ, आ और मुझे अुठाकर किसी सुरक्षित स्थानमें रख!' पक्षियोंके बच्चे कहते हैं, 'हमारी माँ अपने पंखों को फड़फड़ाकर बताये तो हम भी वैसा ही करेंगे।' अिस प्रकार जयन्तियाँ दो तरहसे मनायी जाती हैं।

हिन्दुस्तानमें जबतक अनाथवृत्तिसे जयन्तियाँ चलेंगी तब तक देशमें पुरुषार्थ नहीं आनेका! जैसी श्रद्धा वैसा फल! 'विश्वंभर प्रभुके मनमें जब दया स्फुरेगी, तब वह हमें अलौकिक पुरुष दे देगा, और हम अुसे निचोड़कर — बाज़ारमें बेचकर — सुखी हो जायेंगे।' अिस प्रकारकी वृत्तिमें जितनी सलामती है, अुतना ही

अधःपतन भी है । पुण्यपुरुषोंके बलिदानसे इस लोकका वैभव प्राप्त करनेमें पुण्यक्षय है; प्राणक्षय है । पुण्यपुरुषके बलिदानसे जब हममें भी बलिदानकी वृत्ति जागृत होगी, तभी यह समझा जायगा कि हमने उसकी सच्ची अुपासना की है ।
हमारा सच्चा अुत्कर्ष होगा ।

आज हमें अीश्वरसे अैसी प्रार्थना नहीं करनी चाहिये कि 'हम तो पामर ही रहेंगे । तुम अवतार धारण करके हमारा दुःख निवारण करो ।' हमें परमात्मासे तो यह कहना चाहिये कि, 'हे जनार्दन ! हमारे हृदय ही में तुम्हारा अवतार हो जाय । वानरोंको भी वीर पुरुष बनानेवाले अवतार हमें चाहियें । जो हमें स्वावलंबनकी शिक्षा देंगे, वैसे अवतार हमें चाहियें । क्योकि स्वावलंबनमें हमारा सदैवका अुद्धार है । परावलंबनमें हमारी अवनति है, हमारा अपमान है ।'

स्वावलंबनकी वीरवृत्तिके साथ महात्माओंकी जयन्ती . मनानेमें हम अुनके माहात्म्यके अधिकारी बन जाते हैं । परावलंबी पामरवृत्तिसे जयन्ती मनानेमें हम महात्माओंकी दयाके पात्र हो जाते हैं ।

और दयाके मानी हैं, तिरस्कारका सज्जन स्वरूप ।

त्यौहारोंकी सूचि

वैत

सुदी	१	ध्वजारोपण	एक समय
„	९	रामनवमी	१ दिन
„	१३	महावीर जयन्ती	„ „
„	१५	हनुमान जयन्ती	„ „

बैसाख

सुदी	३	अवष्य तृतीया	$\frac{१}{२}$ „
„	१०	शंकर जयन्ती	„ „
„	१५	बोधि जयन्ती	„ „

जेठ

सुदी	१५	वट सावित्री	१ „
------	----	-------------	-----

असाढ़

सुदी	११	महा ऐकादशी	$\frac{१}{३}$ „
„	१५	गुरु पूर्णिमा	१ समय

सावन

सुदी	५	नागपंचमी	१ दिन
सर्वसोमवार		श्रावण सोमवार	$\frac{१}{३}$ „
सुदी	१५	रक्षा बंधन	एक दिन
बदी	८	जन्माष्टमी	„ „

त्यौहारोंकी सूचि

१५

भादों

सुदी	४	गणेशचतुर्थी	१	दिन
„	५	अृषिपंचमी और पर्युषण	„	„
बदी	१२	चरखा द्वादशी	„	„

कुआर

सुदी	८-९	सरस्वती पूजन	२	„
„	१०	दशहरा	१	„
„	१५	शरत् पूर्णिमा	१	„
बदी	१३	धनतेरस	१	„
„	१४	नरकचतुर्दशी	१	„
„	३०	दिवाली	१	„

कार्तिक

सुदी	१	विक्रमवर्षारंभ	१	„
„	२	भैया दूज	„	„
„	११	महा अेकादशी	$\frac{१}{२}$	„

अगहन

सुदी	११	गीताजयन्ती	$\frac{१}{३}$	„
„	१५	दत्तजयन्ती	१	„

पूस

		मकरसंक्रान्ति	१	„
--	--	---------------	---	---

माघ

सुदी	५	वसंतपंचमी	१	„
„	८	भीष्माष्टमी	१	समय
बदी	१४	महाशिवरात्रि	$\frac{१}{३}$	दिन

फागुन

सुदी	१५	होली	१ दिन
बदी	३	शिवाजी जयन्ती	१ ,,

अन्यधर्मीय त्यौहार :

दिसं.	२५	बड़ा दिन	१ ,,
		मुहर्रम	१ ,,
		बकरीद	१ ,,

राष्ट्रीय त्यौहार :

अप्रैल	६-१३	राष्ट्रीय सप्ताह	८ दिन
फरवरी	१९	गोखले पुण्यतिथि	अेक समय
जून	१६	देशबन्धु ,,	,,
जून	३०	दादाभायी नौरोजी ,,	,,
अगस्त	१	तिलक ,,	१ दिन

संत जयन्ती :

चोखामेळा	अेक समय
जनाबायी	,,
नरसिंह महेता	,,
मीरा	,,
अखो	,,

ध्वजारोपण

[अेक पत्र]

(चैत सुदी १)

‘ आज हमारल वषररंभ है । श्री रामचंद्रके जमानेमें वानरराज बालिके जुल्मसे दक्षिणकी भूमिकी मुक्तिके आनन्दमें घर-घर अुत्सव मनाकर लोगोंने ध्वजायें खड़ी की थीं । यह रिवाज आज तक दक्षिण में चला आ रहा है । अस वषररंभको महाराष्ट्रमें ‘ गुड़ी पाड़वा ’ (गुड़ी=ध्वज पाड़वा=पड़वा) कहते हैं ।

वषके प्रारंभका दिन नये संकल्पका दिन है । क्योंकि वषररंभका दिन अेक तरहका वार्षिक सुप्रभात है । सवेरे जिस तरह थकान दूर होकर नयी स्फूर्ति आ जाती है, अुसी तरह वषररंभके दिन जीवनका नया पन्ना खोलना होता है । ‘ अबतक जो हुआ सो हुआ, आजसे नया प्रारंभ ’—अिस तरह अपनेको समझाकर मनुष्य नया संकल्प करता है । नया संकल्प करनेसे पहले सिंहावलोकन करना भी मनुष्यका स्वभाव है । सिंहावलोकन यानी सिंहकी तरह पीछे मुड़कर देखना । कहते हैं कि फलांग भरता हुआ सिंह बीच-बीचमें रुक कर निरीक्षण करता है कि मैं कहाँ तक आया हूँ, कितना रास्ता तय कर चुका हूँ । प्रगतिशील मनुष्यके लिये भी यह आदत कामकी है । अबतक हमने कौन-कौनसे संकल्प किये, अुनमेंसे कितने पूरे किये, कितनोंमें सुधार करने पड़े, और कितनोंको छोड़ देना पड़ा,—अिस सबका निष्कर्ष निकालनेके बाद ही नया संकल्प किया जा सकता है । पहले-पहले अुत्साह या जोशमें आकर मनुष्य अपना संकल्प कह डालता है । मानों कथनी

ही करनी है । लेकिन यह भी है कि बोल देनेसे बुद्धि दृढ़ होती है । मित्रमंडलीकी सहानुभूतिके कारण संकल्प पूरा करनेमें अनुकूलता उत्पन्न होती है । कहते-कहते विचार स्पष्ट हो जाते हैं । कार्यमें अेकाग्रता आ जाती है । और अपने लिये अपनी ही वाणीका बंधन तैयार हो जाता है । यह सब होते हुअे भी बोलनेमें संयम होना चाहिये, नहीं तो जैसा कि पुराने लोग कहते हैं, बोलनेसे भाप निकल जाती है; ध्यान ढीला पड़ जाता है, और संकल्प की आयु वाणी तक ही सीमित रह जाती है । इसी विचारसे निम्नलिखित श्लोक बनाया गया है ।

मनसा चिन्तितं कार्यं वचसा न प्रकाशयेत् ।

अन्यलक्षितकार्यस्य यतः सिद्धिर्न जायते ॥

[जिस कार्यका हम मनमें चिन्तन करते हैं, उसे वाणीसे दूसरों पर प्रगट नहीं करना चाहिये; क्योंकि दूसरोंका ध्यान खींचनेवाला कार्य सिद्ध नहीं होता]

अिस श्लोकका रचयिता कोअी व्यवहारी मनुष्य होना चाहिये । उसकी दलील हमारे गले भले ही न अुतरे, लेकिन उसकी दृष्टि सोचने लायक है ज़रूर ।

वर्षारंभके दिन संकल्प-सिद्धिके लिये कोअी व्रत लिया जाता है । सबसे अुत्तम व्रत है चित्त-रक्षा-व्रत ।

चित्तरक्षाव्रतं मुक्त्वा बहुभिः किं मम व्रतैः ?

[अेक चित्तरक्षाव्रतको छोड़ और बहुतेरे व्रतोंसे मुझे क्या मतलब ?]

फिर भी अिस महाव्रतकी मददके लिये अेकाद छोटा-सा व्रत हम सब ले सकते हैं । उसके लिये नये वर्षके दिनकी या किसी दूसरे मुहूर्तकी आवश्यकता नहीं है । अैसे ही अेक व्रतकी यहां कुछ चर्चा करना चाहता हूं ।

अगर अपने अनुभवका हम निरीक्षण करें, तो हमें यह दिखायी देगा कि बहुत बार वस्तुस्थितिको अुलटा समझकर हमने औरोंके साथ अन्याय किया है । जितनी बार अपने किये हुअे अन्यायका हमें ध्यान आ जाय, अुतनी बार अगर दूसरे आदमियोंसे क्षमा माँगने जायें, तो हमें मालूम हो जायगा कि गलतफ्रहमी कर लेनेकी कितनी शक्ति हममें है । पद-पद पर माफ़ी माँगनेके अितने मौक़े आ जायेंगे कि हम खुद शरमायेंगे । अिस बातको छोड़ दिया जाय, तो भी दूसरा आदमी हमारी चंचलवृत्तिको देखकर अूब जायेगा । बारबार माफ़ी माँगनेसे अपनी क्रीमत कम होनेकी जो आशंका रहती है, अुसे दूर करें, तो भी माफ़ीकी क्रीमत घट जायेगी यह डर तो रह ही जाता है । अब सवाल यह है कि माफ़ीकी क्रीमतका घट जाना ठीक होगा या आपसी गलतफ्रहमीको चलने देना ठीक होगा ? व्यवहारकुशल समाज माफ़ीकी विशुद्धताकी अपेक्षा प्रतिष्ठाकी स्थिरताको ही अधिक चाहता है । लेकिन अैसा करके समाजने क्या हासिल किया है ?

जितनी गलतफ्रहमियाँ हमारे ध्यानमें आयीं अुनकी यह बात हो गयी । लेकिन जहाँ हमें अपने मनमें लगता है कि फलानी बात निश्चित है, अिसमें गलतफ्रहमीको अवसर ही नहीं, वहाँ भी कभी-कभी घोर गलतफ्रहमी हो जाती है । अिसका क्या किया जाय ?

अिसके लिये अेक ही अुपाय है कि किसीके बारेमें राय क्रायम करनेकी अुतावली नहीं करनी चाहिये । दो हेतुओंके विकल्पकी जहाँ संभावना हो, वहाँ अच्छे हेतुकी ही कल्पना करनी चाहिये । मनुष्यसे अच्छा परिचय होते हुअे भी अुसका सिर्फ़ बाह्य स्वरूप ही अपने सामने खुला हुआ रहता है । अंतरका परिचय पाना बहुत मुश्किल है । कभी लोग अपना अभ्यंतर खोल ही नहीं

सकते । विचार या कल्पना व्यक्त करनेकी भाषा तो मनुष्यने थोड़ी कुछ विकसित की है; लेकिन हृदयको व्यक्त करनेकी भाषा तो अभी तक विकसित ही नहीं हुयी है । असलिये मनुष्य कहता है 'अज्ञ' और सुननेवाला समझता है कुछ और ही । सभी जगह यही चला आ रहा है । अतना ध्यान रहे तो भी बहुत है । जो लोग बहुत बोलते रहते हैं, बहुत बकवास करते हैं, जो बातूनी या विनोदप्रियकी हैसियतसे पहचाने जाते हैं, वे अन्दरसे कितने दुःखी होते हैं यह कोअी जानता ही नहीं । बहुभाषी मनुष्य बहुत बार अन्तःकरणसे अकेकी होता है, असे अगर हम समझ जायँ तो भी बहुत है । न्याय करनेवाले हम होते कौन हैं ?

अतना विचार करने पर भी दूसरे लोगोंके बारेमें कुछ तीखी राय हमारे मनमें रहेगी ही । अुस वक़्त अगर हम यह देख सकें कि वही दोष हममें भी कितना है, तो क्या ही अच्छा हो ! अगर हम अपने अनेकानेक दोषोंके लिये अपनेको क्षमा कर सकते हैं, तो औरोंके अपने संबंधके अेकाध दोषको क्या हम दरगुज़र न करें ?

अतना करने पर भी अगर किसी मनुष्यके प्रति हमारे मनमें सद्भाव पैदा न हो, तो मनमुटावके प्रसंग अुत्पन्न करनेकी अपेक्षा अुसके साथके सम्बन्धोंको ही संकुचित करना अुचित है । जहाँ सद्भाव नहीं है, वहाँ सहयोग करनेका हमें कोअी अधिकार ही नहीं । दुनियामें श्रमविभागके नाम पर जो जगद्व्यापी सहयोग चल रहा है, अुससे श्रेय ही हुआ हो सो नहीं । यह अुचित है कि अपने हृदयका जितना विकास हुआ हो, अुतना ही विस्तार हम करें । अृषिगण कहते हैं कि हृदयसे ही सत्यका ज्ञान होता है ।

मिलकर काम करनेके लिये 'महामनाःस्यात्' वाला व्रत आवश्यक है.

ध्वजारोपण

चैत सुदी १

१ समय

ज्योतिषशास्त्रका साल चैतसे शुरू होता है । शालिवाहन संवत्का प्रारंभ भी चैतके पड़वेसे होता है । लोग समझते हैं कि इसी दिन श्रीरामचन्द्रजीने दक्षिण प्रदेशको बालिके जुल्मसे मुक्त किया था । इसलिये इस दिनको स्वतंत्रताका दिन मानकर ध्वजा खड़ी की जाती है । इस त्यौहारके वारेमें पौराणिक कहानियाँ सुनाने और ध्वजा किसलिये खड़ी की जाती है, सो सब विद्यार्थियोंको अच्छी तरह समझानेके अलावा इस दिन और कुछ करने लायक नहीं है ।

अस अृतुमें नीमकी पत्ती खानेका रिवाज वैद्यककी दृष्टिसे अच्छा है । सवेरे अुठकर हींग, नमक, जीरा, आदिके साथ नीमके कोपल खाना इस दिनकी खास विधि है । हम तो सिर्फ कोपल और नमक ही खायें ।

अस दिन अगर हम पुष्परचना कर सकें तो वसन्तका सच्चा अुत्सव होगा । शालामें ऐसी पुष्परचना करना संभव हो तो यह आधे दिनका त्यौहार समझा जाय ।

तिरंगे राष्ट्रीय झंडेका वन्दन तो अस दिन रक्खा ही जाय । उसके साथ झंडागीत और राष्ट्रगीत दोनों गाये जायें ।

रामनवमी

चैत सु० ९

रामजन्मका आनन्द अर्धव है । आदिकवि वाल्मीकिने रामजन्मसे पहलेकी स्थितिका अच्छा वर्णन किया है । विश्वामित्र जब राजा दशरथसे धर्मरक्षाके लिये दो विद्यार्थियोंकी याचना करते हैं, तब प्रथम तो मोहवश पिता अिन्कार करते हैं; लेकिन तुरन्त ही कर्तव्यका ज्ञान होने पर अपने प्राणप्रिय पुत्रोंको अृषिके हाथ सौंप देते हैं ।

अब राम-लक्ष्मणकी हररोजकी मामूली शिक्षा बन्द हो जाती है । राजपुत्रोंकी शिक्षा बहुविध होती है । अुन्हें बहुतसे विषय सीखने पड़ते हैं । अुनकी सभी अिन्द्रियोंके विकासके हेतु कुलपति वसिष्ठने अुन्हें सर्वांगीण शिक्षा देनेका विचार किया था, लेकिन विश्वामित्रने अुस सबको अुलटपुलट कर दिया । वे राजपुत्रोंको प्रवासके लिये ले गये । वहाँ अुन्होंने प्रकृतिके साथ अुनका परिचय करा दिया । देशकी स्थिति अपनी आंखों देखकर रामचन्द्रजी पूछते हैं : “अिस प्रदेशमें अिननी नदियां बहती हैं, अितनी प्राकृतिक समृद्धि है, फिर भी यहां आवादी क्यों नहीं है? और जो थोड़ीसी है, वह भी अिस तरह भयभीत दशामें क्यों है ?”

तब विश्वामित्र अुन्हें अुस प्रदेशका अितिहास समझाने लगते हैं : “अेक समय था, जब यह प्रदेश सुखी था, समृद्ध था, लेकिन बादमें प्रजाभक्षक असुरोंका राज्य यहां हो गया; अिसीलिये लोगोंकी यह हालत हो गयी है” । अपनी तेजस्वी आंखोंसे राम-

लक्ष्मणको निहारकर वह राजर्षि आगे कहते हैं : “ नवयुवको, अिस सब आतंकको दूर करनेका भार तुम लोगों पर है । ”

शाम होने पर विश्वामित्र अिन राजपुत्रोंको रघुकुलकी अुज्ज्वल कीर्ति सुनाते हैं । राजा दिलीपकी दिग्विजय, भगीरथका महातप सब कुछ कहते हैं । सवेरे नहा-धोकर जब राम-लक्ष्मण वन्दन करनेके लिये आते, तब देशमें फैले हुअे जुन्मको दूर करनेके अुपाय, मंत्र, अस्त्र और अुनकी खूबियाँ आदिकी शिक्षा वे अुन्हें देते थे.

अिसी यथार्थ स्थितिका काव्यमय भाषामें अेक दूसरी जगह वाल्मीकिने वर्णन किया है । यह प्रसंग रामजन्मके पूर्वका है । असुर अुन्मत्त हो गये हैं । शूर्पणखा अपने सूपके जैसे बड़े और तीक्ष्ण नखोंसे सारे देशको खरोच रही है । खर और दूषण देश-भरमें अनीति फैला रहे है । प्रजाके बड़े-बड़े वर्गोंको कुंभकर्ण सारे के सारे निगल रहा है । सात्त्विक बुद्धिवाला विभीषण रावणके दरबारमें धर्मके नामसे अरण्यरुदन कर रहा है । साम्राज्य-मदसे अुन्मत्त हुअे राक्षस अुसकी नेक सलाहकी हैंसी अुड़ा रहे हैं । बचारा विभीषण अिस बातका निर्णय नहीं कर सकता कि अपने भाअीके साथ सहकार किया जाय या असहकार; अिधर रावण अपने राज्यके दशविध विभागोंके द्वारा अेकमुखी सत्ता चला रहा है । बेचारी नैसर्गिक शक्तियोंकी तो बात ही क्या, नवग्रह भी अुसके घर कहारका काम करते हैं । लोगोंके दिलोंमें शक पैदा होता है कि दुनियाका मालिक अीश्वर है या रावण ! अपने द्वीपमें बैठा-बैठा वह सारे देशके कोने-कोनेको देख सकता है । रावणसे छिपा तो कुछ भी नहीं रह सकता !

रावणके घमंडकी कोअी हद नहीं रही है । वह अपने मनमें और अपने दरबारमें ज्ञाहिरा तौरपर भी कहता है : “ अिस अेक

शत्रुको मैंने मार डाला ! इसी तरह औरोंका भी खात्मा करूँगा । मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ । मैं ही सुखोपभोग करनेवाला हूँ । सारी सिद्धियाँ मेरी दासियाँ हैं । मेरी शक्ति सबसे ज्यादा है । मेरी जाति भी सबसे बड़ी है । मेरी ही संस्कृति सबसे ऊँची है । दुनियाँका भलाभी करनेका भार भी मेरे ही सिर है । मैं ही दानी हूँ । सब प्रकारके सुख मेरे लिये ही हैं ।” अपनी इस गर्वोक्तिसे रावणको सन्तोष नहीं होता, बल्कि सभीके मुँहसे अपना यही गुणगान वह करवाता है । सभी अुसके बंदीजन हो गये हैं । अुसकी अिच्छाके अनुसार पंडित शास्त्रार्थ चलाते हैं । पुरातत्त्वविद् अुसीका यश अितिहास, भूगर्भ आदिमेंसे खोज निकालते हैं । हरअेक गुणी मनुष्य अितना पामर हो गया है कि वह अपनी सारी शक्ति अिस मदान्धके चरणों पर अर्पण करनेमें ही अपनेको धन्य मानता है ।

अैसी हालतमें दीन-हीन हुअी पृथ्वी सिरजनहारके पास जाकर कहती है : “ प्रभो ! अब यह बोझ असह्य हो गया है । मंगलता परसे मानवकी श्रद्धा अब अुठ गयी है । तपस्या छोड़कर लोग सुरापान कर रहे हैं । लंकाकी साम्राज्यदेवी हररोज्ज असंख्य प्राणियोंकी बलि ले रही है । शराबकी कितनी ही कोठियाँ हररोज्ज खाली हो रही हैं । देवोंके सब व्यवहार बंद पड़ गये हैं । यह हालत कब तक चलनेवाली है ?” सिरजनहार कहता है : “ हे पृथ्वी ! तू श्रद्धा मत खो ! अुस अीश्वर-तत्त्वकी शरणमें जानेसे सब दुःखोंका निवारण होता है, जो चराचरको व्यापे हुअे है । राक्षस और मनुष्य जिन्हें जंगली बन्दर कहते हैं, अनाड़ी कहते हैं, राक्षसी संस्कृतिका जिन्हें स्पर्श तक नहीं हुअा है, जिनके मनुष्य होनेके सन्देहसे जिन्हें ‘वा-नर’ कहा जाता है — अैसे भोले लोगोंमें यह अीश्वरी शक्ति प्रकट होगी । अुन्हींके हाथों रावणकी पराजय

होगी । आर्यावर्तकी माताओं पहाड़ पर बैठकर जो तपस्या कर रही हैं, वह ज़रूर सफल होगी और वज्रकौपीन, वज्रकाय बालक देशमें पैदा होंगे । धर्ममें फिरसे जागृति होगी और परमात्मा स्वयं अवतार लेंगे ।” पृथ्वीके मनमें यह शंका अुठने पर कि यह कैसे मालूम होगा कि परमात्माका अवतार हो गया है, सिरजनहार कहते हैं : “ जब देशमें ब्रह्मचारी अुत्पन्न होंगे, गृहस्थ अेकपत्नी-व्रतका पालन करेंगे, विद्यार्थी धर्म-रक्षक गुरुओंके वशमें रहेंगे, माँ-बाप जब मोहका त्याग करके अपने लड़कोंको मख (यज्ञ)की रक्षाके लिये अर्पण करेंगे, भाभी-भाभी अपूर्व प्रेमसे अेक-दूसरेके साथ सम्बद्ध होंगे, अुच्च कुलके चारित्रसंपन्न लोग पतित स्त्रियोंका अुद्धार करेंगे, राजपुत्र भीलों और गृहकोंके साथ समानभावसे मैत्री करेंगे, ब्राह्मण अपने अभिमानकी अँठ छोड़ देंगे, ब्रह्मचर्यका तज सत्य और धर्मकी सेवाका स्वीकार करेगा, प्रजामें श्रद्धाका अुदय होगा, और जब अँचे खान्दानके नौजवान शहरी जीवनके विलासोंका त्याग करके गाँव-गाँव और बन-बन घूमने लगेंगे — तभी समझना चाहिये कि अब अीश्वरका अवतार हो गया है ।” पृथ्वीको सन्तोष हो गया, दिलासा मिल गया, और वह शान्त होकर अपने स्थान पर चली आयी ।

दशरथने तपस्याका प्रारम्भ करके धर्मके अग्निको चैताया । यज्ञपुरुषने पायसरूपी चैतन्य दे दिया । दुनिया राह देखने लगी । सारे संयोग भी अनुकूल होने लगे । ग्रह और अुपग्रह परस्पर अनुकूल बन गये । पापकी घटिका भर गयी और पुण्यका उदय हुआ । रामजन्म हुआ ।

अुसी दिन लोगोंने आनन्द मनाया ।

हालां कि अभी तक रावण-राज्य नष्ट नहीं हुआ था; अभी ताड़काका वध नहीं हुआ था; अभी कांचनमृग मारीचकी माया

प्रकट नहीं हुयी थी। फिर भी प्रजाने अुत्सव मनाया; क्योंकि रामजन्म हो चुका था। जिस तरह कोयी देहाती किसान आकाशके मेघोंमें ही सोलह आना फ़सल देख लेता है, उसी तरह प्रजाने मेघश्याम रामचन्द्रमें स्वातंत्र्य देखा, धर्मराज्य देखा और मुक्ति देखी। अुस दिनसे आज तक लोगोंने चैत सुदी नवमीको अुत्सव मनाया है। क्योंकि अुस दिन मनुष्यके दिलमें मुक्ति साधनारूप सत्य, ब्रह्मचर्य और धर्म-सम्बन्धी श्रद्धा जाग्रत हुयी।

रामनवमी

चैत्र सुदी ९

१ दिन

रामनवमी और कृष्णाष्टमी दोनों भक्तिके ही त्यौहार हैं। रामकृष्णकी अुपासनासे हिन्दूधर्म जितना रंगा हुआ है, अुतना किसी भी दूसरी चीज़से नहीं रंगा है। अिसलिये रामनवमीका अधिकसे अधिक अुपयोग करनेमें हमें समर्थ होना चाहिये। रामनवमीके दिन अुपवास करनेका रिवाज अच्छा है। हो सके तो छोटे-छोटे लड़के भी बारह बजे तक कुछ भी न खायें।

हृदयमें और समाजमें किस-किस प्रकारके राक्षस अुन्मत्त हो गये हैं, यह खाजनेमें अगर हम सवेरेका समय लगा सकें, तो अच्छा। दस बजे मुक्तिकोपनिषदमेंसे अच्छे-अच्छे अुद्धरण लेकर विद्यार्थियोंको सुनाये जायँ। सब लोग अिकट्टे होकर रामजन्मकी कथा अिस तरह सुनें कि वह ठीक बारह बजे ख़त्म हो जाय। अुसके बाद भजन और कीर्तन। दोपहरको गानेका कार्यक्रम रखकर अुसके बाद रामचरित्रके अलग-अलग प्रसंगोंका विवेचन किया जाय। रामराज्यके बारेमें अपनी-अपनी कल्पनाको विविध प्रकारसे विस्तृत करके

अुसका विवेचन किया जाय । मनुष्यजातिके लिये आदर्श राजा कैसा होना चाहिये, असका जो अुदाहरण श्रीरामचन्द्रजीने प्रस्थापित किया अुसका रहस्य समझाया जाय । रामनवमीके त्यौहारके साथ असकी भी कोशिश की जाय कि हमारे राष्ट्रीय ग्रन्थ रामायणका अध्ययन नये-नये ढंगसे हो । प्रजातंत्रकी कल्पनाको अस दिन गाँव-गाँवमें स्पष्ट किया जाय ।

रामनवमीके दिन सब मिलकर सवेरे स्नानके लिये चले जायँ, भाँति-भाँतिके पुष्प चुनं, रामचंद्रजीकी पूजा करें, पूजाके कमरेमें चौक (रांगोली)की कलाकारी की जाय, अगरबत्ती, धूप, चन्दन आदिकी सुगंधसे पूजाका कमरा पवित्र करें । और छोटे-बड़े सबको खुश रखकर यह दिन प्रसन्नताके साथ बिता दें । अस दिन सीतासतीके चरित्र पर काव्य रचे जायें । और स्वराज्यके लिये जीवन अर्पण करनेकी प्रतिज्ञा भी की जाय ।

महावीर जयन्ती

चैत सुदी १३

१ महावीर स्वामी

जब हिंदूधर्म और उसकी मान्यतायें अितनी पुरानी हो गयीं कि अुनमें संस्कार किये बिना लोगोंको अुनमेंसे आश्वासन मिलने योग्य कोअी बात नहीं रही तब अस प्रकारका संस्कार करनेवाले अेक महापुरुष गौतमबुद्ध हो गये । लेकिन संस्कार करनेवाले वे अकेले नहीं थे । अुनके समयके अस तरहके संस्कारकोके पांच छः नाम मिल आते हैं । अुनमें वर्धमान महावीर ही अेक अैसे सत्पुरुष थे, जिन्हें गौतमबुद्धके जितनी ही प्रसिद्धि प्राप्त हो गयी । वर्धमान महावीर जैनधर्मके संस्थापक कहे जाते हैं ।

यों तो जैनधर्म बहुत ही प्राचीन है । भगवान् अृषभदेवसे लेकर अुस धर्मके चौबीस तीर्थंकर हो गये । वर्धमान महावीर अखिरी तीर्थंकर हैं । गौतमबुद्धकी तरह महावीरने भी बिहार प्रान्तमें जन्म लिया था । वैशाली नगरके पास अेक छोटेसे गाँवमें ज्ञातृ नामके कुलमें वर्धमानका जन्म हुआ था । अुनकी मां लिच्छवी राजा कटककी बहन थी । बचपनसे ही अुनके मनमें वैराग्य पैदा हो गया । लेकिन वह अेकनिष्ठ मातृपितृभक्त थे, असलिये वृद्धोंको राज्ी रखनेके लिये यशोदा नामकी अेक राजकन्याके साथ ब्याह करके वह घर-गृहस्थी चलाने लगे । अुनके प्रियदर्शना नामकी अेक कन्या भी हो गयी थी । जब वे तीस वरसके हो गये, तब अुनके माता-पिताकी मृत्यु हो गयी,

और वे घर-गृहस्थीसे मुक्त हो गये। अन्होंने घोर तप शुरू किया और भगवान् पार्श्वनाथके पंथमें शामिल हाकर शान्ति प्राप्त की।

अहिंसा धर्मका असाधारण अुत्कर्ष हमें महावीरमें दिखायी देता है। लगभग चालीस सालकी अुम्रसे अुन्होंने अुपदेश देना शुरू किया और बत्तीस साल तक यह काम करते रहे। बुद्ध भगवान् मध्यम मार्गका अुपदेश करते थे, अधर महावीर विषयसुखके आत्यन्तिक त्यागको पसन्द करनेवाले थे। तपश्चर्याका सेवन करके अिन्द्रिय-निग्रह करनेकी पुरानी परंपराको महावीरने चलाया और देहदंडनका महत्त्व बड़ा दिया। हिन्दुस्तानमें अेक समय अैसा था, जब बौद्ध धर्म खूब फैला हुआ था। लेकिन आज वह नष्टप्राय हो गया है। जैन धर्म भी बौद्ध धर्मकी तरह फैला हुआ मालूम होता है, लेकिन बौद्ध धर्मकी तरह अुसका लोप नहीं हुआ। आज बंगालकी तरफ, गुजरातमें तथा और-और स्थानोंमें जैन लोग काफ़ी तादादमें हैं।

बौद्ध धर्मकी तरह जैन धर्मका प्रचार करनेके लियं किसी समर्थ राजाकी तरफसे (गुजरातके राजा कुमारपालको छोड़कर) या किसी दूसरे ढंगसे प्रचार नहीं हुआ है।

अहिंसाधर्मका विचार करते-करते जैन लोगोंने सूक्ष्म जीव कहां-कहां होते हैं, अिसकी भलीभांति खोज की है। वनस्पतिमें कितने प्राण होते हैं, हवा और पानीमें जीव किस तरह रहता है, आदि बातोंका अुन्होंने अेक बड़ा शास्त्र तैयार किया है। जैन पंडितोंने साहित्यकी बहुत सेवा की है। जैन लेखकों द्वारा अनेक शास्त्रों पर लिखे हुअे ग्रंथ संस्कृतमें हैं। जैन लोग भी मूर्तिपूजक हैं। अिसलिये अुन्होंने स्थापत्य और शिल्प कलाओंमें सविशेष अुन्नति की है। जैन लोगोंके बनाये हुअे गुजरातके कअी मंदिर सारे

हिन्दुस्तानमें असाधारण समझे जाते हैं । आबू-देलवाड़के जैन मंदिरोंकी कारीगरी देखकर सारी दुनियाके मुसाफिर आश्चर्यान्वित हो जाते हैं । अिन जैनमंदिरोंसे यह स्पष्ट हो जाता है कि कठिन पत्थरोंमें मोमकी या फूलोंकी कोमलता लानेकी कितनी ज़बर्दस्त शक्ति हिन्दुस्तानके कारीगरोंमें है ।

जैनोंमें श्वेताम्बर और दिगंबर नामक दो भेद पड़ गये हैं । महावीरने कैवल्यप्राप्तिके बाद वस्त्रका भी त्याग किया था, अिसलिये अुनकी पूजा वस्त्रके साथ की जाय या बिना वस्त्रके, यह मतभेदकी बात थी । अिसीको लेकर दो पंथ पैदा हो गये । और अब तो अुनमें पूजाविधि और कलाके आदर्शके विषयमें भी फ़र्क आ गया है ।

जैन धर्मके पहले तीर्थंकर अृषभदेवका अुल्लेख श्रीमद्भागवतमें आया है । वहाँ अुनके त्याग और वैराग्यका आदरपूर्वक वर्णन किया गया है । अैसा दिखायी देता है कि हिन्दूसमाजको संस्कारी और सभ्य बनानेमें अृषभदेवका बड़ा भारी हिस्सा था । कहा जाता है कि विवाह-व्यवस्था, पाकशास्त्र, गणित, लेखन, आदि संस्कृतिके मूल बीज अृषभदेवने ही समाजमें बोये । अगर यों कहें तो भी चलेगा कि यह सब करके, और अन्तमें अुसका त्याग करके, अृषभदेवने प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनो मार्गोंका आचरण करके दिखाया ।

अृषभदेवके बाद और महावीरसे पहले दूसरे बाअीस तीर्थंकर हो गये । अुनमेंसे आखिरी पार्श्वनाथ थे । अुनके पंथका महावीर पर बहुत असर हुआ । अपने अनुभवसे महावीरने पार्श्वनाथके अपदेशमें वृद्धि की । और संयम-धर्मको अधिक स्पष्ट और संपूर्ण किया । सत्य, ब्रह्मचर्य, अहिंसा और अस्तेय रूपी 'यम'को सम्पूर्ण बनानेके लिये अुनमें अपरिग्रहके व्रतको बढ़ा दिया । पार्श्वनाथके

मतके अनुसार पापका स्वीकार करनेकी विधि (प्रतिक्रमण) व्यक्तिकी अिच्छा पर छोड़ दी गयी थी। महावीरने अुसे आवश्यक कर दिया।

महावीर स्वामीको आखिरी तीर्थकर समझा जाता है। तीर्थकरका अर्थ है, स्वयं तरकर असंख्य जीवोंको भवसागरसे तारनेवाला तीर्थ यानी मार्ग बतानेवाला। जो सच्छास्त्र रूपी मार्ग तैयार करनेवाला है, वह तीर्थकर है।

बौद्ध धर्ममें जैसे बोधिसत्वकी कल्पना है, वैसे जैन धर्ममें तीर्थकरकी कल्पना है। कुछ लांगोंकी राय है कि वैदिक धर्मने जैन और बौद्ध धर्मकी नक़ल करके अुसी तरहकी अवतारकी कल्पना खड़ी की है। यह माना जाता है कि विष्णुके दस अवतार हैं। दूसरे हिसाबसे चौबीस अवतार माने जाते हैं। दस अवतारोंमें बुद्धावतारको लिया जाता है और चौबीस अवतारोंमें अृषभदेव हैं, यह बात खास ध्यानमें रखने लायक़ है।

गौतमबुद्धकी तपश्चर्याकी तरह महावीरकी तपस्या भी बहुत अुग्र थी। अुन्होंने तितिक्षाकी सीमा करके दिखायी। लाट देशमें वीरप्रभुको काफ़ी तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ी। प्रवास करते समय कुत्ते आकर जब वीरप्रभु पर टूट पड़ते और अुन्हें काटते तो वहाँके लोग कुत्तोंसे अुनकी रक्षा नहीं करते थे। अितना ही नहीं, बल्कि वे भगवान्को पीटते थे; और कुत्तोंको छू लगाकर अुनके अूपर छोड़ते थे। लेकिन महावीरने यह सब सहन किया और विजय प्राप्त की। आज अुसी देशमें अुनकी आदरपूर्वक पूजा होती है।

पापकी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ पाप न करनेसे पूरी नहीं होती। महावीर स्वामीने अुपदेश दिया है कि पाप न करें, न करायें, और अुसे अनुमोदन भी न दें, तभी पापसे मुक्ति मिल सकती है। अुन्होंने पापके साथ सम्पूर्ण असहकार करनेकी नसीहत दी है।

जैन तत्त्वज्ञान और जैन विधियोंमें अेक ही वस्तु सवत्र देखनेमें आती है । वह है, मनुष्यको संयमी बनाकर आत्म-प्राप्तिकी ओर ले जाना । जैन परिभाषामें बाह्य प्रवृत्तिको आस्रव कहा है । अस आस्रवमेंसे परावृत्त होकर आत्माभिमुख होना 'सर्व' कहलाता है ।

जैनधर्म और योगदर्शनमें बहुत साम्य है । अहिंसा, सूत्रत, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये पांच महाव्रत; मैत्री, करुणा, मुदिता, और अुपेक्षा ये चार भावनायें; धर्मके दशविध लक्षण आदि चीजें वैदिक, बौद्ध और जैन धर्मोंमें समान ही हैं । यात्रा और व्रतोंका महात्म्य भी तीनोंमें अेकसा है । भेद सिर्फ परिभाषाका है ।

जैनोंमें दिगम्बर और श्वेताम्बरके अलावा 'स्थानकवासी' नामका अेक नया पंथ पैदा हो गया है । असमें मूर्ति-पूजा नहीं है ।

जैनधर्ममें पुराण भी बहुत हैं । उनकी कअी कथायें वैदिक पुराणोंकी कथाओंसे कुछ-कुछ मिलती-जुलती हैं । जैन पुराण, शाक्त पुराण और वैदिक पुराण अिन तीनोंमें तुलना करनेसे अस बातकी अटकल लगाअी जा सकती है कि पुराणोंमें अैतिहासिक भाग कितना होगा और असका असली स्वरूप क्या होना चाहिये । अस ढंगसे पुराने साहित्यका अभी तक अुपयोग नहीं किया गया है ।

बौद्ध और जैनधर्ममें चाहे जिस व्यक्तिका प्रवेश हो सकता है । और चाहे जिस जातिका मनुष्य भिक्षु या यति बन सकता है । जैन और बौद्ध धर्मोंमें जातिभेदके बारेमें पूर्ण अुदासीनता है । शायद विरोध भी होगा । फिर जातिभेदकी गन्दगीरूप अस्मृश्यता — को जैनधर्ममें कहाँसे स्थान होगा ?

२ विश्वधर्म

(फुटकर विचार)

‘महावीर’ नाम श्रीविष्णुको दिया गया है। उनके वाहन गरुड़को भी महावीर कहते हैं। श्रीरामचंद्रजीको भी महावीर कहते हैं। और उनके अकनिष्ठ सेवक हनुमान भी महावीर ही हैं। आज हम श्रीपार्श्वनाथके अनुगामी श्रीवर्धमानको महावीरके नामसे पहचानते हैं।

‘महावीर’ शब्दसे कौनसा अर्थबोध होता है? सर्वत्र फैलकर, आसुरी शक्तिको हराकर विश्वका पालन करनेवाले विष्णु महावीर हैं। अमृतप्राप्त करनेकी शक्ति रखनेवाला मातृभक्त गरुड़ महावीर है। पिताके वचनका पालन करनेके लिये, प्रजाका कल्याण करनेके लिये, और धर्मनिष्ठाका आदर्श प्रस्थापित करनेके लिये राज्य, सुख और पत्नीका त्याग करनेवाले श्रीरामचन्द्रजी महावीर हैं। किसी प्रकारके प्रतिफलकी अिच्छा रखे बिना सेवा करनेवाले और शक्तिका अुपयोग शिव ही की सेवामें करनेवाले ब्रह्मचारी सेवानन्द हनुमान भी महावीर हैं। मातृभक्ति, सुख-त्याग, भूतमात्रके प्रति अपार दया और अिन्द्रिय-जयका अुत्कर्ष दिखानेवाले ज्ञातृपुत्र वर्धमान भी महावीर हैं। आर्यजातिने सर्वोच्च सद्गुणोंकी जिस मनोमय मूर्तिकी कल्पना की है, जिस आदर्शको निश्चित किया है, अुस तक पहुंचनेवाले व्यक्ति महावीर हैं। विजय प्राप्त करनेवाला वीर है। जो अन्तर्बाह्य दुनिया पर विजय पाता है, वह है महावीर! वीर यानी आर्य और महावीर यानी अर्हत् ।

*

*

*

हिन्दूधर्म राष्ट्रीय धर्म है। एक महान् राष्ट्रका धर्म होनेसे उसे महाराष्ट्रीय धर्म भी कह सकते हैं। लेकिन हिन्दूधर्मके तत्त्व सार्वभौम हैं, विश्वधर्मके हैं। धुनका प्रचार सर्वत्र होने लायक है। हिन्दूधर्मने मनुष्य जातिका जीवनधर्म खोज निकाला है। हिन्दूधर्मने बहुत पहलेसे निश्चित कर रखा है कि क्या करनेसे मनुष्य जाति शान्तिसे रह सकेगी, धुसका धुत्कर्ष होगा, तथा वह परम तत्त्वको पहचानकर धुसे प्राप्त कर सकेगी। 'स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्' (अिस धर्म का अल्प स्वल्प (पालन) भी बड़े-बड़े भयोंसे रक्षा करता है)। 'न हि कल्याणकृत्कश्चित्दुर्गतिं तात गच्छति' (हे तात, शुभ कर्म करनेवाले किसीकी दुर्गति नहीं होती)। 'धर्मो रक्षति रक्षितः' (जो धर्मका रक्षण करता है, धुसकी रक्षा धर्म करता है)। अिस तरहकी श्रद्धा या अनुभवको अिस धर्मने अंकित कर रखा है। फिर भी हिन्दूधर्म प्रचार-परायण (मिशनरी) धर्म नहीं है। सारी दुनियामें अपना प्रचार करनेका हिन्दूधर्मका आग्रह नहीं है। हिन्दू अपने धर्मको अपने आचरणमें लानेका प्रयत्न करता रहता है। धुसमें अगर धुसे सफलता मिल गयी तो धुसकी छाप पड़ोसियों पर पड़ेगी ही। यह समझकर कि प्रभाव डालनेके लिये जानबूझकर कोशिश करनेमें धुतावली और अधीरता है, यानी जीवनका कच्चापन है, हिन्दू व्यक्ति अधिक प्रयत्नपूर्वक आत्मशुद्धि ही करता रहेगा।

सामाजिक हिन्दूधर्मके मानी हैं अिन सनातन तत्त्वोंको अपने विशिष्ट समाजके अनुकूल बनानेका प्रयत्न करना। दूसरा समाज अिन्हीं तत्त्वोंको अलग तरीकेसे अपने जीवनमें ला सकता है। हिन्दूधर्मके अिन सनातन तत्त्वोंको समाजमें दाखिल करनेके अनेक प्रयत्न अिस देशमें हुभे हैं। रूढ़ सनातन धर्म अिस देशके बाहर

बिलकुल नहीं फैला है। भुसे फैलानेके प्रयत्न किसी समय हुभे हैं या नहीं अिसका हमें पता नहीं है। अिस देशमें ही भुसे नष्ट करनेके प्रयत्न हुभे हैं और वे प्रयत्न निष्फल हुभे हैं अितना हम जानते हैं। लेकिन रूढ़ सनातन पद्धतिको छोड़ दूसरे ढंग पर किये गये प्रयोग दुनियामें अच्छी तरह फैल गये हैं। बौद्धधर्म अिस बातका सबूत है। यही सबसे पहला मिशनरी धर्म दिखायी देता है। अिससे पहले अगर मिशनरी कार्य हुआ हो तो भुसका हमें ठीक-ठीक पता नहीं है। अैसा भी लगता है कि वर्णव्यवस्थायुक्त जीवनधर्म प्रचारक धर्म हो ही नहीं सकता। (जीवनधर्म यानी केवल माननेके लिये रचा हुआ धर्म नहीं, बल्कि जीनेके लिये विकसा हुआ धर्म।)

बौद्ध और जैन धर्ममें काफ़ी भेद है, फिर भी दोनोंमें साम्य भी कुछ कम नहीं है। दोनों मिशनरी धर्म होने लायक हैं: दोनों विश्वधर्म हैं। स्याद्धादरूपी बौद्धिक अहिंसा, जीवनदयारूपी नैतिक अहिंसा और तपस्यारूपी आत्मिक अहिंसा (भोग यानी आत्महत्या—आत्माकी हिंसा। तप यानी आत्माकी रक्षा—आत्माकी अहिंसा) अैसी त्रिविध अहिंसाको जो धारण कर सकता है, वही विश्वधर्म हो सकता है। वही अकुतोभय विचर सकता है। 'यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः' (जो लोगोसे नहीं अूबता, जिससे लोग नहीं अूबते) यह वर्णन भी अुसी पर चरितार्थ हो सकता है। अूपर बताई हुई प्रस्थानत्रयीके साथ ही व्यक्तिगत अेवं सामाजिक जीवनयात्रा हो सकती है। आत्माकी खोजमें यही पाथेय काम आने योग्य है।

×

×

×

मिशनरी धर्म अपने तत्त्वोंके प्रति अवश्य वफ़ादार रहे, लेकिन अपने स्वरूपके सम्बन्धमें आग्रह न रखे। 'जैसा देश, वैसा वेश' का

नियम धर्म पर भी — खासकर विश्वधर्म पर — घट सकता है । विश्वधर्म यदि सच्चा विश्वधर्म है तो वह अपने नामका भी आग्रह नहीं रखेगा ।

×

×

×

ऐसा समझनेके लिये कोई कारण नहीं कि किसी समय दुनियामें विश्वधर्म तो एक ही हो सकता है । जिस तरह किसी कमरेमें रखे हुअे चारपाँच दीपक अपना अपना प्रकाश सारे कमरेमें सर्वत्र फैलाते हैं, सारे कमरेके राज्यका अुपभोग करते हैं, और फिर भी अपने-अपने व्यक्तित्वकी रक्षा करते हैं, अुसी तरह अनेक विश्वधर्म एक साथ सारे जगके राज्यका अुपभोग कर सकते हैं । धर्ममें द्वेष या मत्सर कहाँसे आयेगा ? एक म्यानमें दो तलवारें नहीं रहेंगी, एक दरबारमें दो मुत्सद्दी (राजनेता) कार्य नहीं करेंगे, लेकिन दुनियामें एक साथ चाहे जितने धर्म साम्राज्यका अुपभोग ले सकते हैं, क्योंकि धर्म तो स्वभावसे ही अहिंसक होता है । धर्मके मानी ही हैं अद्रोह । जहाँ धर्म धर्मके बीच झगड़े चलते हैं, और संख्याबलकी आकांक्षा दिखायी देती है, वहाँ यह मान ही लेना चाहिये कि धर्ममें धार्मिकता नहीं रही है, धर्मके नामसे अधर्म कि हुकूमत चल रही है । धर्मका वीर्य क्षीण हो गया है । ऐसी हालतमें वही दुनियाको अुवार सकेगा जो धर्मवीर होगा । महावीर होगा ।

अहिंसाके सम्पूर्ण स्वरूपको हमें समझ लेना चाहिये । अहिंसा महावीरका धर्म है । सारी दुनियाको जीतनेकी आकांक्षा रखनेवाले जिनेश्वरका धर्म है । जबतक दुनियाके एक कोनेमें भी हिंसा होती रहेगी, तबतक यह अहिंसा धर्म पराजित ही है । सिर्फ सूक्ष्म जंतुओंको कृत्रिम तरीकोंसे भरण-पोषण देकर जिलानेसे ही अहिंसा धर्मको

सन्तोष नहीं होना चाहिये । जो महावीर है अुसको चाहिये कि वह महावीरकी तरह तमाम दुनियाका दर्द — पाँचों खंडोंका दर्द — खोजकर देख ले; और अपने पासकी सनातन दवा वहाँ पहुँचा दे । महावीरके अनुयायियोंको हृदयकी विशालता और अुत्साहकी शूरता प्राप्त करके सभी जगह संचार करना चाहिये । संग्रामका वीर शस्त्रास्त्र लेकर दौड़ेगा । अहिंसाका वीर आत्मशुद्धि और करुणासे सुसज्जित होकर दौड़ेगा । सारी दुनियाको एक 'अपासरे' (जैन साधुओंका मठ)में बदल देना चाहिये । छोटेसे अपासरेमें कितनोंको आश्रय मिल सकेगा ?

२७-४-'२४

महावीर जयन्ती

चैत सुदी १३

१ दिन

अिस दिन ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, महावीर, नेमीनाथ आदि तीर्थकरोंकी जानकारी करायी जाय; और मनुष्येतर प्राणी भी मानवजातिके छोटे-छोटे भाओ ही हैं, अुन्हें दुःख नहीं देना चाहिये, अुनका भी भला चाहना और करना चाहिये, क्योंकि हम अुनके पालक और रक्षक हैं आदि बातें विद्यार्थियोंको समझानी चाहिये । यह बात भी अुनके दिलमें बिठानी चाहिये कि वही जीवन अुत्तम है, जिसमें औरोंको कम-से-कम पीड़ा दी जाती हो । अिस दिनका विशिष्ट बोध है कि अहिंसा ही अमृतत्व है और अपरिग्रह ही अमीरी है ।

लोगोंका हनुमान

१

चैत सुदी १५

हिन्दुधर्मकी यह एक खूबी है कि मुसके चित्र अिस प्रकार खींचे हुअे होते हैं कि वे छोटे-बड़े, शिक्षित-अशिक्षित, अुच्च-अभिहचि रखनेवाले और भोलेभाले, सभी लोगोंको प्रिय हो जायें ।

मनुष्य मनुष्यके बीच जितना रागद्वेष होता है अुतना मनुष्य और मनुष्येतरोंके बीच नहीं होता । पशुपक्षियोंके प्रति हमारा समभाव स्वाभाविक होता है । अुनके प्रति या तो कुतूहल होता है, या दयाभाव, या अुपेक्षा ! लेकिन अीर्ष्या, मत्सर, द्वेष आदि मिश्र और हीन भाव नहीं होते । अिसलिये पुराणकारोंने कअी आदर्शोंको पशु-पक्षियोंके रूपमें चित्रित किया है । आदर्श ब्रह्मचारी, आदर्श सचिव, आदर्श भक्त-सेवक और निष्काम समाज हितकर्ता हनुमानका चित्र अितना भव्य है कि मनुष्य कोटिमें वह वास्तविक-सा नहीं मालूम होगा; अिसीलिये शायद वाल्मीकिने अुसे वानरका रूप दिया । 'वा-नर'के मानी हैं 'निकृष्ट' नर । लेकिन हनुमानके बारेमें तो अिसके मानी अुलटे हैं, क्योंकि वे नरश्रेष्ठोंमें भी श्रेष्ठ हैं । 'बुद्धिमतां वरिष्ठ' हैं ।

अिन्हीं गुणोंका अुत्कर्ष मनुष्यमें दिखानेके लिये वाल्मीकिने लक्ष्मणजीका भी चित्र खींचा । चौदह वर्ष तक कंद-मूल-फलाहार करके अुन्होंने अपने ब्रह्मचर्यको निभाया । राम-सीताकी सेवा अुन्होंने अनन्य निष्ठाके साथ की, लेकिन वह रहे मनुष्य । अुन्हें सीताका ताना सहना ही पड़ा ।

भरत भी जैसे ही आदर्श राजसेवक और राजभक्त थे । भरतसे अधिक श्रेष्ठ वाजिसरॉय (राज-प्रतिनिधि) दुनियामें किसीने नहीं देखा होगा । लेकिन वे भी मनुष्य ही रहे । इसीलिये उनके बारेमें तुच्छ कल्पना करके कैकेयीने दशरथसे राज्य माँग लिया । वे मनुष्य थे, इसीलिये कैकेयी उनका इस तरह अपमान कर सकी । खैर यह बात जाने दीजिये । आदर्शबन्धु लक्ष्मण भी एक बार — एक बार ही सही — भरतके बारेमें सशंक हो गये । मनुष्य मनुष्यके बीच अनिच्छा अपेक्षा श्रेष्ठ सम्बन्ध कहाँसे लायें ?

इस तरह हार जानेके बाद, वाल्मीकिने मनुष्यकी मिट्टी छोड़ बन्दरकी मिट्टी हाथमें ले ली और उनसे हनुमान बनाये । और वहाँ वे सफल हो गये ।

२

वाल्मीकिने हनुमानको वानर बनाया और बहुजन समाजके स्वभावमें रही हुयी वानरवृत्तिको जगा दिया । हनुमान वानर हैं, इस बातको लेकर लोगोंने ऐसी-ऐसी कहानियाँ रच डालीं, जो वाल्मीकि रामायणमें नहीं हैं । वाल्मीकि-रामायण, अध्यात्म-रामायण, आनन्द-रामायण, अद्भुत-रामायण, सीता-रामायण, तुलसी-रामायण, कृत्तिवास-रामायण, कंवन-रामायण, मंत्र-रामायण, 'परन्तु'-रामायण, दाम-रामायण, आदि-आदि अनगिनत रामायणें हैं । जिस प्रकार रचयिताओंकी भूमिकाओं अलग अलग हैं, उसी प्रकार हरेकके हनुमान भी अलग अलग हैं । लोगोंको अच्छल-कूद अच्छी लगती है । बालकोंको कृतिमें और बड़ोंको स्मृतिमें ही क्यों न हो — खेलकूद तो चाहिये ही । और इसीलिये लोगोंने हनुमानके नये-नये संस्करण निकाले हैं । इस तरह हनुमान लोकमान्य हो गये, लेकिन इसके लिये उन्हें

तकलीफें भी कुछ कम नहीं उठानी पड़ें। अपने राजाको वचन-दुर्बल हुआ देखकर उसे आड़े हाथ लेनेवाले सचिव हनुमान कहाँ और रावणकी नाकमें अपनी पूँछका बारीक छोर घुसेड़ कर उसे छिंकाछिंकाकर उसके मुकुटको नीचे गिरानेवाले मर्कट हनुमान कहाँ ? जिस तरह प्रजारंजक राजाको, प्रजाकी बहुत-सी बातें सहनी पड़ती हैं; प्रजा-सेवक लोकनायकोंको प्रजाकी भक्तिके नीचे बेहाल होना पड़ता है; लोकमानसमें जिस तरह महात्माओंके चित्रविचित्र संस्करण तैयार हो जाते हैं; उसी तरह राष्ट्रीय या धार्मिक ग्रंथोंको,— प्रजाके आदर्शोंको भी — लोकसुलभ विकृतियोंके कारण हैरान होना पड़ता है ।

लेकिन इसीमें उनकी उपयोगिता है। इसीमें उनकी सार्वभौम लोकमान्यता निहित है। इसीमें आदर्शोंका चिरंजीवित्व है।

३

हनुमान अपनेको रामसेवक मानते थे। रामचन्द्रजीने कभी अपनेको हनुमान-स्वामी माना है ? उनके हृदयमें हनुमानजीके बारेमें कौनसा भाव रहता-होगा ? बुजुर्गीका ? पितृ-वात्सल्यका ? बन्धु-प्रेमका ? या कृतज्ञता-बुद्धिका ?

नारदजीके मनमें अक बार यही शंका उत्पन्न हो गयी। वे उठे और चले रामसे पूछनेके लिये। नारदजी तो स्वयं दुनियाके सम्वाददाता ठहरे। औरोंसे प्राप्त हुयी खबरें उनके काम नहीं आनेकी। इससे और क्या अच्छा हो सकता था कि वे स्वयं जाकर उनसे मुलाक़ात करते ? लेकिन बेचारोंको उसी दिन कड़ुवा अनुभव हुआ। द्वारपाल अन्दर ही न जाने देता। कहने लगा : 'महाराज रामचन्द्र पूजामें लगे हैं। इस समय आप अन्दर नहीं जा सकते। पूजा

पूरी होने दीजिये फिर शौक्रसे अन्दर चले जाजिये । ' आश्चर्यान्वित नारद ऋषि मनमें विचार करने लगे, ' राम तो प्रत्यक्ष परमेश्वर, त्रैलोक्यके स्वामी । चारों वेद गाकर ब्रह्मा थक गये, लेकिन रामरहस्य न समझ सके । योगीराज शंकर हलाहल पी गये; उस समय रामनामसे ही अन्हें शांति मिली । जैसे ये भूतनाथ और शरण्य श्री रामचन्द्रजी और किसकी पूजा करते होंगे ? नारदको अपमानकी अपेक्षा कुतूहल अधिक असह्य हो गया । अेक-अेक पल अन्हें युगके समान दीर्घ मालूम होने लगा । आखिर अिजाजत मिल गयी । अन्दर जाकर देखते क्या हैं कि कितनी ही सुवर्णकी मूर्तियाँ सामने रखकर रामचन्द्रजी आरती कर रहे थे । तैंतीस करोड़मेंसे यह कौनसे धन्य देवता हैं, जिनकी श्री रामजी अुपासना कर रहे हैं ? नारदजी घूर-घूर कर देखने लगे ।

अरे यह क्या ? यह तो लक्ष्मणकी मूर्ति । यह रहे भरत । और अिनसे भी अँची जगह बिठाये हुअे यह कौन ? यह तो भक्तराज हनुमान हैं । अहो आश्चर्य ! अहो आश्चर्य ! नारदने कितनी ही बार भगवानके सहस्र नाम गाये थे, लेकिन ' भक्तके भक्त ' यह अीश्वरका नाम अन्होंने कभी सुना न था । और जब अन्होंने हनुमानजीके पास ही खड़ी चोटीवाली छोटीसी मूर्ति देखी तब तो बेचारे शरमके मारे पानी-पानी हो गये । और मुलाक्रातके सवाल बिना पूछे ही संच्छिन्न-संशय हो कर वहाँसे चलते बने ।

मार्च, १९२९

हनुमान-जयन्ती

चैतपूनी

१ दिन

बच्चे और नवयुवक इस त्यौहारको अपना निजी त्यौहार समझते हैं। रामभक्त, रामसेवक, बालब्रह्मचारी, 'बुद्धिमतां वरिष्ठ' हनुमान ही विद्यार्थियोंके आदर्श बन सकते हैं। श्रीरामचन्द्रजी अपना अवतारकार्य समाप्त करके निजधामको चले गये, लेकिन निरपेक्ष निरलसतासे रामकार्य चलानेके लिये हनुमानजी चिरंजीवी होकर पीछे ही रहे हैं। आर्य हनुमानके आदर्शसे विद्यार्थीगण आवश्यक प्रेरणा ले सकते हैं। इस दिन स्कूलके कार्यक्रममें खेल, कसरत और खासकर मलखम और कुश्ती रखनी चाहिये। समाजमें जाकर काम करनेका मौका अगर मिल सके, तो इस दिन किसी-न-किसी क्षेत्रमें सेवाका शुपक्रम करना चाहिये। जहाँ अखाड़े नहीं हैं, वहाँ शुनकी स्थापना करना, गरीब विद्यार्थियोंको गायका दूध मिल सके इसलिये चंदा अकड़ा करना, आदि बहुत-कुछ किया जा सकता है।

अगर स्वास्थ्यके लिये अनुकूल हो, तो हनुमान-जयन्तीके दिन कोअी भी पका हुआ अन्न न खानेका कार्यक्रम रखा जा सकता है। भीष्माष्टमीके मुआफिक्र इस दिन भी ब्रह्मचर्यकी महत्ताको विद्यार्थियोंके दिल पर अंकित करना चाहिये। यह बात अगर विद्यार्थियोंकी समझमें आ जाय कि कार्तिक स्वामी और हनुमान वज्रकाय सेनापति हो गये, शुसका कारण शुनका 'काया वाचा मनसा' ब्रह्मचर्य ही था, तो समझना चाहिये कि इस त्यौहारका शुद्देश्य सफल हो गया। कहते हैं कि हनुमानको आकके फूल प्यारे लगते हैं। ब्रह्मचारियोंको तो जैसे ही फूल अच्छे हैं न ?

वानरसेना अपना सम्मेलन इस दिन रख सकती है।

परशुराम और बुद्ध

वैसाख सुदी ३

जिस तरह द्रौपदी और सीता दो अलग-अलग आदर्श हैं, भुसी तरह राम और कृष्ण भी अलग-अलग आदर्श हैं। प्राचीन कालसे अिन दो आदर्शोंके बीचका साधर्म्य और वैधर्म्य, साम्य और वैषम्य हम देखते आये हैं। अन्तमें हमने दोनों आदर्शोंका सार अपने जीवनमें अुतारकर अुन दोनोंमें समन्वय कर दिया है। जिस दिन हमने अिस प्रकारका समन्वय किया भुसी दिन हमें 'रामकृष्ण' यह सामासिक नाम सूझा। राम ही कृष्ण हैं, शान्ता ही दुर्गा हैं, शिव ही रुद्र हैं, जनार्दन ही विश्वंभर हैं — यह जिस दिन हमें सूझा, अुस दिन हिन्दू तत्त्वज्ञानमें समाधान पैदा हुआ; तात्त्विक खोजमें अेक पूर्ण विराम आया। पूर्ण विरामसे नया वाक्य शुरू होता है। दो आदर्शोंके विवाहसे नयी सृष्टि पैदा होती है।

परशुराम और बुद्ध दोनों विष्णुके ही अवतार माने जाते हैं। लेकिन क्या हम अुन्हें कभी कल्पनाके क्षेत्रमें भी पास-पास लाये हैं? परशुराम और बुद्ध! दोनोंमें साधर्म्य या वैधर्म्यका क्या कुछ सम्बन्ध भी है?

परशुराम ब्राह्मण क्षत्रिय हैं; भगवान् बुद्ध क्षत्रिय ब्राह्मण हैं। परशुरामने ब्राह्मण होते हुअे भी मन्यु (क्रोध) को छूट देकर शरीरबल पर ही आधार रखा। शाक्य मुनिने राजवंशी होने पर भी क्षमाको प्रधानपद देकर आत्मिक बलका गौरव बढ़ाया।

परशुरामको क्षत्रिय सत्ता प्रजा-पीड़क मालूम हुआ। अश्वरने मनुष्यको दो ही बाहु दिये हैं, और वह भी अुद्योगके लिये। क्षत्रिय अगर सहस्रबाहु बन जायँ और प्रत्येक बाहु शस्त्र धारण करे तो बेचारा दीन समाज जाये कहाँ? क्षत्रिय रक्षा करनेके लिये हैं, वेही अगर प्रजाभक्षक बन जायँ तो प्रजाकी रक्षा कौन करेगा? परशुरामको लगा कि क्षत्रियका शास्ता ब्राह्मण है। बात तो सही है। लेकिन क्षत्रियका शासन करनेमें ब्राह्मणको अपना ब्राह्मण्य तो खोना ही नहीं चाहिये। परशुरामने हाथमें भारी परशु लेकर सहस्रबाहुके हाथ काटने शुरू किये। क्षत्रियोंका जुल्म दूर करनेके लिये अुन्होंने अिकीस बार अुनपर जुल्म किया !!

परशुरामने क्षत्रियके सभी गुण प्राप्त कर लिये थे। क्षत्रिय यानी सिपाहीको अपने सरदारके हुक्मका अेक क्षण भी विचार किये बिना उसकी तामील करनी चाहिये। मातृभक्त परशुरामने पिताका हुक्म होते ही अपनी माताका शिरच्छेद किया। ब्राह्मण तो अैश्वर्यसे दूर ही रहता है। जो क्षत्रिय होगा, वही पृथ्वीको जीत लेगा और अुसका दान करेगा। परशुरामने भी त्यागका नहि किन्तु 'जीत और दान'का ही रास्ता पसन्द किया।

अब बुद्धको देखिये। अुन्होंने राज्यका त्याग ही किया। अपनी शान्तिके द्वारा मार पर विजय प्राप्त की। करुणाका प्रचार किया। परशुरामके कारण क्षत्रिय भयभीत हो गये और अुन्होंने आत्मरक्षाके लिये संघबलका साम्राज्य स्थापित किया। भगवान् बुद्धके कारण अुनके शिष्य निर्वै हो गये और अुन्होंने अभयका साम्राज्य स्थापित किया।

परशुरामके सद्भावका प्रभाव अुनके समयमें चाहे जितना हुआ हो, मगर आज वह नहीं के समान ही है। परशुरामके कारण

साम्राज्यकी कल्पना अल्पना हुआ। साम्राज्यकी कल्पनाने दिग्विजयका मोह पैदा किया और दिग्विजयकी कल्पना यानी निरंतर विग्रह। जैसा कि भगवान् बुद्धने धम्मपदमें कहा है: 'जीत कलहका मूल है।' क्योंकि पराजित व्यक्तिके हृदयमें अपमानका शत्रु चुभता रहता है, उसे नींद भी मुश्किलसे आती है; और वह दुनियाको चैन नहीं लेने देता।

जयं वेरं पसवति दुःखं सेते पराजितो ।

अपसंतो सुखं सेति हित्वा जय पराजयं ॥

भगवान् बुद्धका प्रभाव परशुरामकी अपेक्षा अधिक गहरा भी हुआ और अधिक व्यापक भी। परशुरामका मार्ग हिंसाका था; और बुद्ध भगवान्का अहिंसाका। हिंसामें वीर्य नहीं है। हिंसाने आज तक न तो किन्हीं अच्छे तत्त्वोंका नाश किया है और न किन्हीं बुरे तत्त्वोंका ही। हिंसाने जिस तरह दुष्ट लोगोके शरीरका नाश किया है, उसी तरह सज्जन लोगोके शरीरका भी अतना ही नाश किया है। लेकिन दुनियामें रही हुयी सज्जनता तथा दुर्जनता हिंसासे अस्पृष्ट ही रही है।

अहिंसाकी विजय स्थायी होती है; बशर्ते कि वह राजसत्ताकी मददके बिना हुयी हो। सत्य और सत्ता परस्पर विरोधी हैं। जब-जब सत्यने सत्ताकी मदद ली है, तब-तब सत्य अपमानित हुआ है, और पंगु बना है। सत्यका शत्रु असत्य नहीं है, असत्य तो अभावरूप है, अंधकाररूप है। सत्यको असत्यके साथ लड़ना नहीं पड़ता। जहाँ सत्यका प्रकाश नहीं पहुँचा है, वहीं असत्यका अंधकार रहता है। असत्यको स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं है। सत्यका शत्रु है सत्ता, परशुरामने सत्ताके द्वारा — बलके प्रभावके द्वारा — सत्यका यानी न्यायका प्रचार करना चाहा। बुद्ध भगवान्के

अनुयायियोंने भी जब साम्राज्यकी प्रतिष्ठाके ज़रिये सत्यका प्रचार करना चाहा, तब सत्य लज्जाके कारण संकुचित हो गया।

अब समय आ गया है कि जब परशुरामकी न्यायनिष्ठा और बुद्ध भगवान्की अवेर-निष्ठाका मिलन होना चाहिये। मनमें ज़र्रा भर भी द्वेष या विष रखे बिना अन्यायका प्रतिकार करना और सत्ताके साथ लड़ना, यही आजका युगधर्म है। क्या यही सत्याग्रह नहीं है ?

१९२२

अक्षय्य तृतीया

बैसाख सुदी ३

३ दिन

अक्षय्य तृतीया कृतयुगके आरंभका दिन है। इस दिन सत्य और अहिंसाकी मीमांसा की जाय। किसानोंका वर्ष इस दिनसे शुरू होता है। इसलिये श्रमजीवनके महत्त्वका आज निरूपण किया जाय। अक्षय्य तृतीयासे पेड़ोंको नियमित रूपसे पानी देनेकी ओर विशेष ध्यान देना चाहिये। खेतीसे संबंध रखने-वाला कोआी कार्यक्रम अगर इस दिन रखा जा सके तो अच्छा हो।

श्रमजीवी, बुद्धिजीवी, पूंजीजीवी और भिक्षाजीवी लोगोंके जीवनके तारतम्यके बारेमें इस दिन खूब विवेचन किया जाय।

हर अमावास्याके दिन समुद्रमें ज्वार आता है, लेकिन कहते हैं कि चैतकी अमावसके बाद आनेवाली अक्षय्य तृतीयाका ज्वार और सब ज्वारोंसे कहीं बड़ाचढ़ा होता है।

यही दिन परशुराम जयन्तीका भी है। परशुरामका चरित्र जाननेके बाद ही श्रीरामचन्द्रजीके अवतारका रहस्य ध्यानमें आ सकेगा।

ब्राह्मण और क्षत्रियोंके बीचके झगड़े मिटाकर दोनोंको विश्वकल्याणकी ओर मोड़नेका कार्य श्रीरामचन्द्रजीने किया। लेकिन ये झगड़े किस प्रकारके थे, कहाँ तक चलते रहे, आदि सब बातें हमें परशुरामकी जीवनीसे ही मिल सकेंगी। क्षत्रिय-रक्तसे अनेक कुंड भरनेवाले परशुराम ब्राह्मण धर्मका अधःपात सूचित करते हैं।

धर्ममणि श्री शंकराचार्य

अस कलिकालके याज्ञवल्क्य और व्यास अगर कोआी हैं, तो वे हमारे श्री शंकराचार्य। लेकिन उनका जीवन-मंत्र था : 'मुहूर्तं ज्वलितं श्रेयः न च धूमयितं चिरम्' [अके घडीके लिये जलते रहना अच्छा है, न कि चिरकालके लिये धुआँ अुगलते रहना] बत्तीस वरसकी अुम्रमें हिमालयकी पवित्र भूमिमें अपना तपःपूत कलेवर छोड़कर परमात्मामें विलीन होनेवाले अस सँन्यासीकी विभूति हिमालयसे तनिक भी कम न थी। हिमालयकी शोभाके साथ,—जहाँ काले पत्थर और सफ़ेद बरफ़को छोड़ कुछ मिलता ही नहीं,—शंकराचार्यके अद्वैत वेदान्तके तत्त्वज्ञानकी ही तुलना की जा सकती है। वनस्पतिके लिये जहाँ अवकाश ही नहीं, अुस हिमालयसे ही जिस तरह वनस्पति-सृष्टिकी और फलतः प्राणीमात्रकी माताअें सिन्धु, सतलज, गंगा, यमुना, शरयू और ब्रह्मपुत्रा जैसी छोटीमोटी असंख्य नदियाँ निकलती हैं और देशको समृद्ध करती हैं, अुसी तरह शंकराचार्य के अद्वैत सिद्धांतसे ज्ञान, भक्ति, कर्म और अुपासनाकी नदियाँ बहती हैं और हिन्दूधर्मको आजका यह बहुरूपी समृद्ध और संगठित रूप देती हैं।

शंकराचार्यके जीवनमें करुण और अद्भुत, वीर और शान्त अनेक रस भरे हुअे हैं। अुनकी मातृभक्ति, अुनकी प्रखर ज्ञान-

निष्ठासे ज़रा भी कम नहीं थी । वासनाओंपर विजय पानेवाला यह वैराग्यवीर हृदय-धर्मसे बेवफ़ा नहीं हुआ था ।

दूरदर्शी लोगोंने कायर होकर जिस संन्यास-धर्मको हिन्दूधर्मसे रुखसत दी थी, उसी संन्यास-धर्मका शंकराचार्यने पुनरुद्धार और प्रचार किया । अतना ही नहीं, किन्तु संन्यासियोंके अलग-अलग दस पंथ भी स्थापित किये । आगे जाकर संन्यासियोंके रूढ़ धर्मको ताकपर रखकर अन्होंने स्वयं अपनी माताके अंतकालके अवसरपर उसकी सेवा की और उसका श्राद्ध भी किया । भेदमात्रका नाश करने पर भी भक्तिमार्गकी आर्द्रतासे अन्होंने हिन्दूधर्मको सजीव रखा । और अिस दुनियाको मायारूप करार देने पर भी अिसी दुनियाकी धर्मसंस्थाको संशुद्ध किया — अुसका संगठन किया ।

पुरी, बदरीनारायण, द्वारका और शृंगेरी अिन चार कोनोंमें चार मठोंकी स्थापना करके शंकराचार्यने धर्मका अध्ययन, अुसका प्रचार और धर्म-व्यवस्थाकी रचना प्रचलित की । यह दुःखकी बात है कि हमलोग शंकराचार्यके वेदांतके दार्शनिक और तार्किक पहलुओंका ही अध्ययन करते हैं । अद्वैत यानी अमीर व गरीबके बीचका अमेद, पापी और पुण्यवानके बीचका अमेद, स्त्री और पुरुषके बीचका अमेद, जीवात्मा और परमात्माके बीचका अमेद, तमाम प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठितोंके बीचका अमेद — अद्वैतके अिस पहलूके महत्त्व पर हमलोग ध्यान नहीं देते । अद्वैतके सिद्धान्त पर रचा हुआ समाजशास्त्र अबतक हमने कहाँ खड़ा किया है ?

मायावादके परिणामस्वरूप अपनी ज़िम्मेदारीको भूल जानेके बदले लोग अगर अपने दुःखको भूल जायँ, अपनी कायरताको भूल जायँ, औरोंके किये हुअे अपकार और अपमानको भूल जायँ और अैसा समझें कि यह सब मायारूप है, तो कितना अच्छा होगा !

सबकी आत्मा अेक ही है, अिसके बारेमें जिन्हें शक नही है, अुन्हें अब यह भी जान लेना चाहिये कि सबका मन और हृदय भी अेक ही है । मनुष्य-जाति अगर अितना जान ले कि सुख-दुःख, हित-अहित, अुन्नति और अवनति आदि सभी हालतोंमें हम दुनियाके साथ बँधे हुअे हैं, अेकरूप हैं, तो अैहिक और पारलौकिक दोनों मोक्ष संपन्न होंगे । अिस दृष्टिसे देखा जाय, तो शंकराचार्यका मिशन या जीवन-कार्य अिसके बाद शुरू होनेवाला है ।

*

*

*

गंगाके किनारे अुत्तराखंडमें जो श्रीनगर है, अुसे सिद्धपीठ कहा जाता है । अिस जगह की हुअी साधना व्यर्थ नहीं जाती और शीघ्र फलदायी होती है । देवी-भागवतमें अिस स्थानका बहुत महत्त्व बताया है । पहले यहाँ अेक अैसे पत्थरकी पूजा होती थी, जिस पर श्रीचक्र खुदा हुआ है । कहते हैं कि अिस स्थान पर प्राचीन कालमें प्रतिदिन अेक नरमेध होता था । आद्य शंकराचार्य जब श्रीनगर गये, तब मनुष्य-वधका यह अनाचार देखकर अुनकी धर्म-भावना अुबल पड़ी । अुन्होंने अेक सबल लेकर श्रीचक्रके पत्थरको अौंधा कर दिया, और अाज्ञा दी कि आजसे नरमेध बन्द !

प्रस्थानत्रयीके अूपर भाष्य लिखकर और नितान्त रमणीय स्तोत्र लिखकर शंकराचार्यने हिन्दू-धर्मकी जो सेवा की है, अुससे नरमेध बन्द करनेकी यह सेवा कहीं बढ़कर है अिसके बारेमें क्या किसीको शक हो सकता है ? भाष्य लिखनेके लिये बुद्धि-वैभवकी आवश्यकता होती है । स्तोत्रोंके लिये भक्ति न होकर केवल कल्पना-अुल्लास ही हो, तो भी काफ़ी है । लेकिन धर्मान्ध समाजके खिलाफ़ जाकर प्राचीन कालसे चलती आयी घातक

रुद्रिको अेकदम बन्द कर देनेके लिये तो तपस्तेज, धर्मनिष्ठा और हृदय-सिद्धि ही चाहिये ।

नरमेध बन्द करानेकी यह कहानी जबसे मैंने सुनी है, तबसे शंकराचार्यकी वह नाटी और मोटी मूर्ति,—गेरुअे वस्त्र, रुद्राक्षमाला और भस्म-विलेपनसे मंडित और आगलात् मुण्डित मूर्ति—आँखोंसे ओझल ही नहीं होती । निर्दय शाक्त कर्मकांडी ब्राह्मण चारों तरफ़ हाहाकार मचा रहे हैं, और अुनके बीच हाथमें सब्बल लेकर अिस तेजस्वी संन्यासीकी मूर्ति खड़ी है । अेक भी 'कर्म-वीर' पास आनेकी हिम्मत नहीं करता । और ये ज्ञानवीर तपस्वी थरथराते हुअे होठोंसे याज्ञवल्क्यकी तरह अेक-अेकको या सभीको मिलकर शास्त्रार्थके लिये आह्वान देते हैं । लेकिन किसीकी बुद्धिप्रभा अिस धर्ममूर्ति दिग्विजयी संन्यासीके सामने प्रकाश नहीं कर सकती । याज्ञवल्क्यकी तरह वे गरज रहे है कि, 'ब्राह्मणा भगवन्तो यो वः कामयते स मा पृच्छतु, सर्वे वा मा पृच्छत, यो वः कामयते तं वः पृच्छामि, सर्वान् वा वः पृच्छामीति । तं ह ब्राह्मणा न दधृषुः ।

भेदमें अभेद देखनेकी गीताकी शिष्याको शंकराचार्यने हम हिन्दुओंकी अुपासनामें भी पूरी तरह बुन लिया । तैंतीस करोड़ देवी-देवताओंसे भी न अघानेवाले हमारे लोगोंने आर्य-अनार्य, स्वदेशी-विदेशी, नया-पुराना, भला-बुरा, देव-पीर, भूत-प्रेत आदि अनेक अुपास्योंकी खिचड़ी पका रखी है । अिन सबमेंसे पाँच देवोंका आयतन बनाकर यह करार दिया कि बाक़ी सभी देवी-देवता अिन पाँचोंके ही अवतार हैं । और अिस तरहकी व्यवस्था कर दी कि अिन पाँचोंमेंसे चाहे जिस अिष्टकी पूजा करो, लेकिन अुसके आसपास बाक़ीके चार देवताओंको बिठानेपर ही पूजा हो सकेगी ।

पंचायतन-पूजाके द्वारा सब देवोंके समन्वयका और अभेदका अुन्होंने जबसे सूचन किया, अुसी दिनसे हिन्दू-अुपासना-पद्धतिमें समन्वय दाखिल हुआ और विग्रह मिट गया । सर्वसमन्वय और अभेद यह श्री आद्य शंकराचार्यकी हिन्दू-धर्मको बड़ी-से-बड़ी भेंट है ।

२५-५-३८

शंकरजयन्ती

बैसाख सुदी १०

३ दिवस

अद्वैत सिद्धान्तकी दार्शनिक दृष्टिसे यह त्यौहार नहीं मनाना है । यह अिस तरह मनाना चाहिये जिससे कि सभी संप्रदायके लोग अिसमें हिस्सा ले सकें । श्री शंकराचार्यकी मातृभक्ति, धर्मनिष्ठा, अीश्वरपरायणता, शास्त्राध्ययन और हिन्दूधर्ममें नयी व्यवस्था लानेकी अुनकी शक्ति आदि बातोंके कारण अुनका कार्य अखिल जनताके लिये शिक्षाप्रद हो गया है । अिस दिन शंकराचार्यके तथा औरोंके भी बनाये हुअे सुंदर-सुंदर स्तोत्र गानेका और अुनपर विवेचन करनेका कार्यक्रम रखा जाय । अिस दिनका यह प्रधान कार्यक्रम होना चाहिये कि सामाजिक और राष्ट्रीय अद्वैतकी दृष्टिसे ब्राह्मणसे लेकर अंत्यज तक सबकी आत्मा अेकसी है, अिसके बारेमें विवेचन किया जाय । अिसके बारेमें तो मतभेद होगा ही नहीं कि अीश्वरकी अुपासना ही सत्य है और जगत्की अुपासना मायामोह है ।

अिस दिन मोहमुद्गर स्तोत्र गाया जाय और अुसके प्रसंगका वर्णन किया जाय ।

बोधिजयन्ती

१ बोधिप्राप्ति

बैसाख सुदी पूनी

महाप्रयाससे कोलम्बसने अमेरिका जानेका रास्ता खोज निकाला । अब हमें वह प्रयास नहीं करना पड़ता । महा-प्रयाससे भगीरथ गंगा ले आये : हमें अब वह मेहनत नहीं भुठानी पड़ती । अेक व्यक्तिने प्रयास किया, सारी दुनियाका लाभ हुआ । कृतज्ञतापूर्वक उसका स्मरण करना, उसका श्राद्ध करना, अिससे ज्यादा हमारे लिये कुछ करनेको बाक्री नहीं रहता ।

अिस भवचक्रमेंसे छूट जानेका रास्ता बैसाख सुदी पूर्णिमाके दिन शाक्यमुनि गौतमने खोज निकाला और वह बुद्ध हो गये । अब हमें चिन्ता करनेका कुछ कारण नहीं है । हमारा काम तो सिर्फ अितना ही है कि बुद्ध भगवान्का स्मरण करके अुनके बताये हुअे 'अष्टांगिक' नामके राजमार्ग पर सीधे चले । अगर श्रद्धा हो तो रास्ता बतानेवाले अिस अृषिका तर्पण या श्राद्ध किया जाय तो अधिक अच्छा ! लेकिन मोक्षका मार्ग, निर्वाणका मार्ग, और स्वर्गका राज्य प्राप्त करनेका साधन अितना आसान नहीं है । वेदकालके अृषिओंने यह रास्ता खोज निकाला था फिर भी शाक्यमुनि और महावीरको अुसे फिरसे खोजना पड़ा । 'महता कालेन' यह रास्ता बार-बार नष्ट होता है और बार-बार अुसे खोजना पड़ता है । युग की तो बात ही क्या, परमेश्वरको व्यक्ति-व्यक्तिके हृदयमें स्वतंत्र रूपसे अवतार लेना पड़ता है, बोधिको प्रकट करना पड़ता है; और अुससे पहले हरअेक व्यक्तिको मारके साथ लड़ना पड़ता है । शैतानके साथ

झगड़ना पड़ता है । प्रत्येक व्यक्तिके मार्गमें काम-क्रोधादि परिपंथी (बटमार) हैं ही । अुनके साथ झगड़े बिना योग नहीं प्राप्त होता, बोधि नहीं मिलती । हरअेकको स्वयं यह अमृतकुंभ प्राप्त कर लेना चाहिये । वह जबतक न मिले तबतक अुसे सावधान रहना चाहिये । जिस तरह बुद्ध भगवान्ने मारके साथ युद्ध किया अुसी तरह हरअेकको लड़ना चाहिअे । भगवान् बुद्ध जिस तरह,

‘ अिहासने शुध्यतु मे शरीरं त्वगस्थिमांसं प्रलयं च यातु ’

[अर्थात् : अिसी आसन पर बैठे-बैठे मेरा शरीर सूख जाय, और हड्डियों और मांसका लय हो जाय] के निश्चयसे बोधि (ज्ञान) प्राप्त करनेके लिये बैठ गये थे अुसी तरह हरअेकको बैठ जाना चाहिये । जिस तरह बुद्ध भगवान्को बोधि मिल गअी और वे तृष्णाविरहित हो गये, अुसी तरह हरअेक व्यक्तिके लिये मोक्ष प्राप्त करनेका मार्ग खुला है । अुस मार्ग पर चलना प्रत्येक व्यक्तिका कर्तव्य है, और जब अुस मार्गसे हमें बोधि मिलेगी तभी हमारे हृदयमें, हमारे जीवनमें बोधिजयन्तीका सच्चा अुत्सव होगा । अुस समय तक विश्वासको दृढ़ करनेके लिये, श्रद्धा-वृक्षका सिचन करनेके लिये, बुद्ध भगवान्की बोधिजयन्तीका हम स्मरण करें ।

मअी, १९१८

२ भगवान् बुद्ध

१

हिमालयकी तराअीमें, नेपालकी हृदमें, कपिलवस्तु नामका अेक अोटासा राज्य था । वहाँ कोअी राजा न था । वहाँके शाक्य

लोगोंमें जो थोड़े-से बड़े-बड़े घराने थे, अुनके बुजुर्ग मिलकर अपना वह छोटासा राज्य चलाते थे । अिन बुजुर्गोंको 'राजा' कहते थे । राजा शुद्धोदन अिन्हींमेंसे अेक था । शुद्धोदनको बड़ा सम्राट् बननेकी ज़बर्दस्त अभिलाषां थी ।

अिस राजाकी रानी मायादेवीने अेक पुत्रको जन्म दिया । राजाने आगम करवाया । ज्योतिषीने कहा, 'राजन्, तुम्हारे भाग्यका पार नहीं है । तुम्हारा यह लड़का या तो सारी पृथ्वीका सम्राट् हो जायगा या फिर धर्म-सम्राट् । अिसके दिलमें अगर वैराग्य पैदा हो जाय, तब तो यह धर्म-सम्राट् ही होगा ।

राजाने पूछा, 'वैराग्य किन कारणोंसे अुत्पन्न होता है ?' बुद्धिमान जोशीने कहा, 'जन्म, जरा, व्याधि और मृत्युका दुःख देखनेसे ।'

राजाने निश्चय किया कि तब तो हम भविष्यको परास्त कर देंगे । लड़केको अिस तरह रखेंगे कि वह अिन चार चीज़ोंको देखने ही न पाये । गरमीके दिनोंका महल अलग, जाड़ेके दिनोंका अलग और चौमासेका तो अिनसे भी जुदा होगा । घरमें कोअी बीमार, बूढ़ा या अुदास नौकर नहीं मिलेगा । राजमहलके बगीचेके पेड़ोंपर मुरझाया हुआ फूल या पीला पत्ता तक नहीं दिखायी देगा, सब तरफ़ सुगंध, संगीत और काव्य-साहित्य ही होगा — अिस तरह अिसे पालेंगा ।

पुत्र गौतम अिस स्थितिमें रहा । लेकिन अिस प्रकारके सुखसे क्या कोअी सुखी हो सकता है ? अुसका जी अिन सारी चीज़ोंसे अुकता गया । बचपनसे ही वह विलक्षण बुद्धिमान था और कअी

बार वह गहरे विचारमें डूब जाता । पिताने सोचा कि लड़केका विवाह किया जाय, तो वह ठिकाने आ जायगा । लड़केने भी उसे स्वीकार किया । अेक स्वयंवरमें जाकर वहाँ अपना युद्ध-कौशल्य, बुद्धि-कौशल्य और कला-कौशल्य सिद्ध करके यह सिद्धार्थकुमार रूप-रमणी यशोधराको ब्याह लाया । पिताने सोचा कि अब बेटा विलासमें डूब जायगा; लेकिन बेटा तो विचारमें डूब गया । उसके दिलमें यह सवाल अुठने लगा कि 'यह दुनिया क्या है ? जो कुछ आसपास है, वह सब खोखला मालूम होता है' । लड़केने पितासे यह माँग की कि मुझे सच्ची दुनिया देखनी है । बाप सहम गया । अगर ना कहे, तो बेटेको दुःख होगा और अुस दुःखसे ही शायद अुसके दिलमें वैराग्य पैदा हो जायगा । और अगर हाँ भरे, तो भगवान् जानें क्या होगा ।

बापने सारे शहरको सजवाया और ढिंढोरा पिटवाया कि कोअी भी वृद्ध या अशक्त मनुष्य बाहर न निकले । लेकिन बेटेको तो सच्ची दुनिया देखनी थी । वह सब जगह घूमा, सब-कुछ देखा । दरवाजे पर आते ही अुसने शहरके बाहर रथ हाँकनेको सारथिसे कहा । वहाँ अुसने अेक दुबले अपंग और दुःखसे पीड़ित वृद्ध पुरुषको देखा । अुसे देखकर अुसने सारथिसे पूछा, 'छन्न ! यह क्या है ?' सारथिने समझाया, 'महाराज, यह बूढ़ा है, बीमार है और दुःखी है । थोड़े दिन बाद यह मर जायगा ।

कुमारने पूछा, 'सो क्यों ?'

छन्न बोला, 'महाराज, यह संसारका नियम ही है । जितनोंने जन्म लिया है, अुन सब पर रोग, दुःख, बुढ़ापा और मृत्यु तो आयेंगे ही । वे अटल हैं । सारे संसारकी यही हालत होगी ।'

‘और क्या इसकी कोओ दवा नहीं है ? ’ कुमारने सवाल किया ।

जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधिका यह दर्शन कुमारके हृदयमें तीरकी तरह चुभ गया । अगर बचपनसे ही वह ये सब बातें देखता होता, तो हमारी तरह उस कुमारका हृदय भी कठिन हो जाता । लेकिन आज तक जो कभी नहीं देखा था, वह अकेलाअकेला देखनेमें आया । इसलिये वह उस कुमार-हृदयको असह्य हो गया । उसी क्षण उसने मन-ही-मन निश्चय किया कि “ इस दुःखमें रहनेमें कोओ पुरुषार्थ नहीं । जब कि सारा जन-समाज दुःखमें डूबा हुआ है, तब इसकी कुछ-न-कुछ दवा तो होनी ही चाहिये । और उसे मैं खोजकर ही रहूंगा । अरे, जब कि सारा देश इस प्रकारके दारुण दुःखमें जल रहा है, तब फिर भोग-विलास कैसा ? स्त्रीके साथ प्रणय कैसा ? पुत्रका मोह कैसा ? (कुमारके इस बीच एक पुत्र भी हुआ था ।) जिसका मैं अुद्धार नहीं कर सकता, उसका उपभोग मैं क्योंकर करूँ ? मैंने अपने ये सत्तातीस साल मुफ्त गँवाये । ”

कुमारके हृदयमें वैराग्यने प्रवेश किया और उसने अपने घर, राज्य, पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल — सबका त्याग किया । पिता रोते थे, माता मायादेवी तो उसके जन्मके सातवें दिन ही मर गयी थीं, सौतेली माँ महाप्रजापतिने — जो उसकी मौसी भी लगती थी — तो रो-रो कर आकन्दन किया । लेकिन कुमार जो घर छोड़कर गया सो गया ही ।

अनोमा नदीके किनारे जाकर कुमारने अपने माथेपरसे लम्बे लम्बे सुन्दर बाल अुतार दिये । रेशमके नाजुक बहुमूल्य वस्त्र फेंक

दिये । अपने प्यारे कंथक घोड़ेसे विदा ली और महा-अभिनिष्क्रमण किया ।

पहले-पहल भिक्षा माँगकर लाया, तो रातके बासी, और बिलकुल सूखे हुभे रोटीके टुकड़े गलेके नीचे भुतरते ही न थे । राजविलासी जीवन और तपस्वी जीवनके बीच दारुण युद्ध शुरू हो गया । लेकिन अेक ही क्षणमें वह खत्म भी हो गया । अुसके बाद फिर कभी अिस प्रकारकी कठिनाअीका अुसे भान नहीं हुआ ।

गुरुकी खोजमें अनेक दिन बिताये । अुस समयके समाजसे और शास्त्रोंमेंसे जितना कुछ मिल सका, भुतना ले लिया; जितना अपना सका, भुतना अपना लिया; फिर भी शान्ति न मिली । अैसी दवा भी हाथ नहीं आयी, जिससे दुनियाको शान्ति दिलायी जा सके । भौँति-भौँतिके योग शुरू किये, देह-दंडन किया; लेकिन कोअी थाह नहीं पायी ।

अन्तमें बिहारके धन्य प्रदेशमें, निरंजना नदीके किनारे, वह अनशन व्रत लेकर बैठ गया । दिमागमें विचार तो भट्टीकी तरह धधक रहे थे । अशुद्ध विचार जल जाने लगे, विश्वका रहस्य पिघलने लगा और तपस्वीको निश्चय हो गया कि अिसके बादकी यात्रा — अनुभवकी यात्रा — अिस तरहके काया-क्लेशसे, देहको दुःख देनेसे, होनेवाली नहीं है । बल्कि सुख और दुःखको छोड़ बीचकी जो समान स्थिति होती है, भुसीको धारण करनेसे आगे बढ़ा जा सकेगा ।

तपस्वीने फिरसे आहार शुरू किया । आसपास जमा हुभे साधकोंने सोचा, तपस्वी हार गया, ढीला पड़ गया, अब अिसके साथ रहनेमें कोअी लाभ नहीं । अुसे छोड़कर सब चले गये । लेकिन तपस्वी तो आंगे बढ़ता ही चला जाता था ।

अंतमें कसौटीकी घड़ी आ गयी । महायुद्ध ठन गया, मनुष्य-जातिके शत्रु, हृदय-स्वामीके प्रतिस्पर्धी और कुटिल तर्कोंके आद्यगुरु 'मार'ने अपना दस प्रकारका सारा दलबल अिस दयामय विश्वबंधु पर छोड़ा ।

अहोभाग्य अिस मनुष्य-जातिका कि अन्तमें वैशाख पूर्णिमाकी अुस रातमें 'मार'की हार हुअी और सिद्धार्थ यथार्थमें सिद्ध-अर्थ हो गये — तथागत बुद्ध बन गये ।

२

जिसने अपना अुद्धार किया है, वही दुनियाका अुद्धार कर सकता है; जो स्वयं जगा हुआ है, वही दुनियाको जगा सकता है — 'बुद्ध' यानी 'जगा हुआ' । जिस क्षण सिद्धार्थ 'मारजित' हुअे, अुसी क्षण सारे विश्वका रहस्य अुनकी दृष्टिके सामने खुल गया और वे लोकजित होनेके योग्य हो गये ।

अुन्होंने देख लिया कि हम देहधारी हैं, अिसलिये अुस हद तक प्रकृतिके नियमोंके अधीन हैं ही । प्रकृतिका दुःख अटल भले ही हो, लेकिन असह्य नहीं है । जन्म, जरा, व्याधि, मरण, प्रिय वस्तुओंका वियोग और अप्रिय वस्तुओंका संयोग — ये छे तो हमेशा चलते ही रहेंगे । विवेकसे अुसके स्वरूपको समझ लें, तो अुसका दुःख कम होता है । दुनियाका सबसे बड़ा दुःख तो हम स्वयं ही पैदा करते हैं । कभी न बुझनेवाली तृष्णा ही हमें दुःखमें डुबो देती है और हमें अनंतकाल तक दुःख-रसमें डालकर हमारे सारे जीवनका कडुवा अचार बना देती है ।

जबतक यह तृष्णा नहीं मरेगी, तबतक हमारे दुःखका अन्त नहीं होगा । और अेक बार यह तृष्णा मर गयी, तो फिर

दुःखका कुछ कारण ही नहीं रहता । अिसके बाद जो स्थिति रहेगी, वही हमारी विरासत है । वह स्थिति कैसी होगी, अिसकी चर्चा आज किसलिये करें ? रोग मिट जानेके बाद क्या होगा ?

क्या होना था ? — कल्याण ही ।

अिस स्थितिका नाम है, निर्वाण । मुक्ति पाये हुअे सभी जीवोंका यही धाम है ।

लेकिन यह ज्ञान सुनेगा कौन ? यह दवा लेगा कौन ? अिस रास्ते जायेगा कौन ? सारी दुनिया तृष्णाके पीछे पड़ी है । तृष्णाका नाच तो चलता ही रहेगा । अरेरे ! तो फिर क्या किसीका अुद्धार होगा ही नहीं ? अितने परिश्रमसे जिसे प्राप्त किया, वह दवा क्या अकारथ ही जायगी ?

अुस करुणमूर्तिने फिरसे विचार किया । प्रसन्न-हृदयमेंसे जवाब मिला कि “ जो शुभ-संस्कारी हैं, उनके प्रति मैत्रीभाव रखा जाय; जो वैभवशाली हैं, अुनकी तरफसे मुदिताका स्वीकार किया जाय, यानी उनके सुखको देखकर हम खुश हों; जो दुखी अथवा दुःस्थित हैं, उनका तिरस्कार करनेके बदले उनके प्रति करुणा-भाव रखा जाय; और जो दुष्ट प्रवृत्तिके हैं, हर जगह जो द्रोह ही फैलाते हैं और अकारण वैर रखते हैं, अुनके प्रति द्वेषके बदले कुछ नहीं तो उपेक्षा-भाव रखा जाय, तो सारी दुनियामें विजय ही है । ”

ये चार वृत्तियाँ ही ब्रह्माके चार मुख हैं । अिन चारों मुखोंमें ही चारों वेद समाये हुये हैं । यह देखकर बुद्ध-भगवान् दुनियाकी सेवा करने निकले । और धर्म-चक्र घूमने लगा ।

३

जिनसे क्रुद्ध लेकर अतना ज्ञान प्राप्त किया, अुनके बोझसे प्रथम मुक्त हो जाना चाहिये । बुद्ध-भगवान्को आहार करते देख जिन शिष्योंने अुनका त्याग किया था, अुनके पास वह सबसे पहले गये । और अुन्हे ज्ञान देकर कृतार्थ किया । फिर क्या था ? हरअेक दुःखी मनुष्य उनके पास आने लगा । जोगी आये और जती आये; अमीर आये और गरीब आये; अैसे अभिमानी गुरु आये, जिनके पीछे हजारों शिष्य थे और अैसे दुर्बल भी आये, जिनके पीछे अुनका अपना मन या शरीर भी नहीं जाता था ।

संघ बढ़ गया और संघकी सेवा करनेवाले लोग भी बढ़ गये । बड़े-बड़े विहार बनाये गये, बड़े-बड़े राजा लोग बुद्ध-भगवान्की सलाह लेने आने लगे और प्रजाके नेता भी उन्नतिके मंत्र सुननेके लिये अुनके पास आने लगे । यक्ष, गंधर्व, किन्नर सबको निर्वाणका रास्ता मिल गया और धर्मचक्र पूरे वेगके साथ घूमने लगा ।

४

बेचारी यशोधराका क्या हुआ होगा ? राहुलको कौन लाड़-प्यार करता होगा ? राजा शुद्धोधनके दूसरा लड़का हुआ था, लेकिन वह सिद्धार्थको कैसे भूल सकता ? अपने बेटेकी कीर्ति सुनकर अुसे बुलानेके लिये राजाने अेक दूतको भेजा । लेकिन वह दूत वापस जाय तब न ? वह तो शिष्य बनकर संघमें दाखिल हो गया । दूसरा दूत गया, अुसकी भी यही हालत हुअी । अब तीसरा कौन जायगा ? आखिर वृद्ध अमात्य स्वयं गये । भगवान्के सत्संगका अेक साल तक लाभ अुठानेके बाद अुन्हें राजाका सन्देशा याद आया और वह

बुद्ध-भगवान्को उनके पिताके पास ले गये । बुद्धने चिरविधुरा यशोधरा, बालक राहुल और वृद्ध शुद्धोदन आदि सबको उपदेश किया और स्वयं भिक्षाके लिये निकल पड़े । कितनी शरम और नामूसीकी बात थी कि राजाका बेटा दर-दर भीख माँगने जाता है ! राजाने कहा, 'बेटा अपनी कुल-परम्परामें भिक्षा नहीं है ।' बेटा बोला, 'राजन्, आपकी कुल-परम्परा अलग है । मेरी कुल-परम्परा बोधिसत्वोंकी है । वे हमेशा गरीबोंके साथ रहते आये हैं और लोगोंका स्वेच्छासे दिया हुआ भिक्षान्न ही खाते आये हैं ।'

५

महाप्रजापतिने विचार किया कि बहन तो बेटेको जन्म देकर मर गयी । भुस दिनसे मैंने सिद्धार्थको पाला-पोसा और बड़ा किया । आज वही लड़का दुनियाका अद्भुत बन गया है । उसके पास जाकर मैं क्यों न दीक्षा ले लूँ ? शाक्यकुलकी बहुत-सी राजकन्यार्यें महाप्रजापतिके साथ बुद्ध-भगवान्से मिलनेके लिये निकल पड़ीं । प्रवासोंके कष्ट झेलते-झेलते उनके पाँव सूज गये । उन्होंने बुद्ध-भगवान्से प्रार्थना की कि हमें भी संघमें स्थान दे दीजिये । भगवान्ने कहा, 'वह न हो सकेगा । मेरा संघ बिगड़ जायगा ।' स्त्रियोंमें घोर निराशा फैल गयी, असलिये बुद्ध-भगवान्के प्रिय शिष्य और सेवक आनन्दने पूछा, "तो क्या भगवन्, स्त्रियोंके लिये धर्मका साक्षात्कार अशक्य है ?" बुद्ध-भगवान्ने कहा, "ऐसी बात तो नहीं है । वे भी निर्वाणकी उतनी ही अधिकारिणी हैं । उनमें भी धर्मको जाननेकी बुद्धि है ।' आखिर बुद्ध-भगवान्ने स्त्रियोंके लिये अलग संघ खोला । अस संघमें भी अत्यंत धर्मनिष्ठ और अधिकारी व्यक्ति हो गये हैं ।

जीवनके अस्सी साल तक धर्मका उपदेश करके, कुशीनारा नामके स्थानपर झुन्होंने अपना पवित्र चोला छोड़ा । धीरे-धीरे बुद्ध-भगवान्का उपदेश पृथ्वीपर फैलने लगा । पाटलीपुत्रके महान् राजा अशोकवर्द्धनने बौद्ध धर्मोपदेशकोंको देश-देशान्तरमें भेजकर तथागत (बुद्ध भगवान्) का उपदेश सारी दुनियाको सुमाया । आज चीन, जापान, ब्रह्मदेश, सीलोन आदि देशोंमें बौद्धधर्म प्रचलित है । और बुद्ध-भगवान्का उपदेश तो सारी दुनियाके विचारवान लोगोंके गले झुतरने लगा है ।

(अक्टूबर, १९२६)

३. अशियाका धर्मसम्राट

महाभारतीय युद्धके बाद कितना ही समय बीत गया । हिन्दुस्तानमें सर्वत्र छोटे-छोटे राज्य कायम हुअे । बहुतसे राज्य तो पाँच दस गाँवके ही मालिक रह गये थे । बहुतसे राज्योंमें राजा न थे, बल्कि प्रतिष्ठित कुलके अगुआ निगम-सभामें बैठकर राजकाज चलाते थे । अस पद्धतिको महाजनसत्ताक राज्य-पद्धति कहते हैं । हिमालयकी तराहीमें नेपालके पास शाक्य लोगोंका अस प्रकारका अेक राज्य था । वहां कपिलवस्तु नगरीमें शुद्धोदन नामका राजा राज्य करता था । अस राजाके सिद्धार्थ नामका अेक सुलक्षण पुत्र हुआ । ज्योतिषियोंने भविष्य बताया कि यह राजपुत्र या तो चक्रवर्ती राजा होगा या जगत्का झुद्धार करनेवाला अेक धर्म-संस्थापक । अगर असके मनमें वैराग्य झुत्पन्न हो जाय, तो यह दूसरे मार्ग पर चलेगा । राजाने सोचा कि बुढ़ापा, रोग और

मरण देखकर मनुष्यके दिलमें वैराग्य पैदा होता है । असलिये इस लड़केको इस तरह रखें कि यह अनि तीनोंमेंसे एक भी चीज़ न देख सके ।

चैन और अश-आरामके वायुमण्डलमें सिद्धार्थकी परवरिश की गयी । यशांधरा नामकी एक अत्यन्त रूपवती और सद्गुणवती राज-कन्याके साथ उसका ब्याह कर दिया गया । लेकिन संयोगवश व्याधि, जरा और मृत्युके भुसे दर्शन हुअे । उसके मन पर बहुत बड़ा आघात हुआ । लेकिन यह सोच कर कि दुनियाका यह सारा दुःख दूर करनेका कुछ-न-कुछ उपाय होना ही चाहिये, और मुझे उसकी खोज करनी ही चाहिये, सिद्धार्थने अपने राज्य और सुखोपभोगका त्याग किया और वह संन्यासी बन गया ।

बहुतसे अच्छे-अच्छे गुरुओंसे उसने ज्ञान प्राप्त किया । कठिन तप किया । ४९ दिन तक कुछ भी नहीं खाया और धर्म-बोधकी प्राप्तिके लिये प्रयास किया । उसे भुलावेमें डालनेके लिये मारने, जो कि मनुष्यका शत्रु, सभी खराब वासनाओंका राजा है, मोहक वस्तु, भूब, भूख, प्यास, विषय-वासना, आलस्य, भीति, कुशंका, गर्व, लाभ-सत्कार, पूजा और बुरे मार्गसे मिलनेवाली कीर्ति आदि अपने पूरे दलबलके साथ सिद्धार्थ पर धावा बोल दिया । लेकिन सिद्धार्थ अपनी शान्ति और विवेक पर डटा रहा और उसने मार पर विजय पायी । मारके भूपर विजय मिलनेके बाद तुरन्त ही उसे दुनियाका दुःख मिटानेका ज्ञान मिल गया । जिसे बौद्ध लोग बोधि कहते हैं । सिद्धार्थ बुद्ध हो गया और उसे परम आनन्द हुआ ।

दुनियामें सब जगह जो दुःख है, उसका कारण वासनारूपी प्यास है । उसके ज्ञानका यह सार था कि इस वासनारूपी प्यासको

मिटानेसे दुःख दूर होगा और उसके लिये मनुष्यको योग्य ज्ञान, योग्य अिच्छा, योग्य भाषण, योग्य कर्म, योग्य धन्धा, योग्य साधना, योग्य चिन्तन, और योग्य ध्यानका सेवन करना चाहिये । इस दयाकी बुद्धिसे कि अपनेको मिला हुआ मार्ग अगर मैं दुनियाको दे दूं, तो दुनियाका भी भला होगा बुद्धने धर्मोपदेश करने के लिये घूमना शुरू किया ! काशीजीके पास सारनाथ नामके तीर्थस्थानमें उसने अपने उपदेशका प्रारम्भ किया । हजारों लोग तथागतका उपदेश सुननेके लिये अिकट्ठा होते । बुद्धका उपदेश जिनके गले पूरी तरह अुतरता, वे घरबार छोड़कर बौद्ध-भिक्षु अथवा श्रमण बन जाते । भोगविलासके पीछे सारा जीवन नष्ट करना या शरीरको कष्ट देनेमें ही संतोष मानना, यह दोनों सिरे बुद्ध भगवानको पसन्द न थे । उन्होंने बीचके मार्गको पसन्द किया । बौद्ध भिक्षुलोग उपदेश सुनकर बुद्ध, उसके धर्म, और उसके प्रस्थापित भिक्षु-संघकी शरणमें जाकर कषाय वस्त्र धारण करते । भक्त लोगोंने जैसे लोगोंके रहनेके लिये बड़े-बड़े विहार बना दिये थे, इस परसे मिथिला और मगध देशका नाम ही विहार पड़ गया ।

अजातशत्रु नामके उस समयके राजाने बुद्धके उपदेशका स्वीकार किया था । उस समयके कर्मकांड और यज्ञयागके विरुद्ध बुद्ध भगवान्ने अेक भारी विप्लव खड़ा किया । उनका यह सिद्धान्त था कि धर्मके नाम पर पशुओंकी हत्या करनेसे स्वर्ग या मोक्ष नहीं मिलेगा । और चाहे जितने यज्ञ करने पर भी किये हुअे पापोंसे मुक्ति नहीं मिलेगी; किये हुअे कर्मोंको भुगतनेके अलावा तो दूसरा मार्ग ही नहीं ! फिर जो करे, वही भुगते । औरोंके बलिदानसे हमें पुण्य नहीं मिल सकेगा । बुद्धने यह शिक्षा दी कि स्वयं पुण्यकर्म करें; पापकर्म छोड़ दें, अहंकारका त्याग करें, तभी

सब कल्याण प्राप्त हो जायगा । अेक दूसरेके साथ लड़कर बदला लेनेवाली हिंसक दुनियाको बुद्ध भगवानने घोषणा करके बतला दिया कि प्रतिशोधसे बैर बढ़ता है; प्रेमसे, क्षमा करनेसे ही बैर शान्त हो जाता है । विजय शान्तिका मार्ग नहीं है, क्योंकि हारे हुअे मनुष्यके हृदयमें खार रह ही जाता है । शान्तिका यह उपदेश दुनियाको देते हुअे अपनी अुम्रके अस्सी साल तक वह घूमे और अन्तमें कुशोनारा नामके गांवमें अेक गरीब भक्तके आतिथ्यका स्वीकार करके अुन्होंने निर्वाण पाया । अुनके शिष्यवर्गने अुनके शरीरके अवशेष, यानी अस्थि और राखको आपसमें बांट लिया और अुन पर वड़े वड़े स्तूप बनवाये । जिस बुद्धने यह शिक्षा दी थी कि सारा संसार शून्य है, क्षणिक है, दुःखमय है, अिसमेंसे छूटना ही निर्वाण है, अुसी बुद्धके शरीरके अवशेषोंके लिये अुसके शिष्य-राजा लोग वादको आपसमें लड़े और बुद्धके उपदेशको अेक तरफ़ रखकर अुसकी मूर्ति बनाकर अुसीकी पूजा करने लगे । मनुष्य अपने सत्कर्मोंसे ही निर्वाण प्राप्त कर सकता है, अिस बुद्धके उपदेशके बदले अैसी मान्यता फैल गयी कि बुद्ध जैसे पुण्यप्रतापी सत्त्वोंकी कृपासे ही निर्वाण प्राप्त हो सकेगा; और लोग समझने लगे कि अपनी अिन्द्रियोंको वशमें रखनेके बदले केवल प्राणीमात्रकी सेवा करनेसे ही निर्वाण मिल सकेगा ।

बौद्ध लोगोंने बुद्ध भगवानके चरित्रका कअी तरहसे वर्णन किया है । अुनके जन्मके बारेमें बहुतसी दंतकथाअें लिखी हुअी हैं । हिन्दूधर्ममें जिस तरह अवतारकी कल्पना है अुस तरह बौद्ध लोगोंमें बोधिसत्त्वकी कल्पना है । बौद्ध लोगोंमें यह धारणा दृढ़ हो गअी कि अेक ही जीव अर्हतपद प्राप्त करनेकी महत् अिच्छासे अनेक जन्मोंमें अनेक प्रकारकी पारमिताअें यानी प्राविण्य प्राप्त करके

अन्तमें बुद्ध हो जाता है । बुद्ध भगवानने अपने पूर्वजन्मकी कही कथाओं कही थीं । उन परसे तरह-तरहकी जातककथाओं रची गयीं और बुद्धका लीला विस्तार बढ़ गया । अिन नये-नये गढ़े हुअे अनेक प्रकारके चमत्कारोंमें बुद्धका ऐतिहासिक सादा जीवन ढंक गया और बुद्धके उपदेशके रहस्यको उसके जीवनमें देखना मुश्किल हो गया । फिर भी अिस प्रकारकी जातककथाओं और बुद्धचरित्रों परसे अुस समयकी लौकिक धारणाओं और धार्मिक कल्पनाओंका अितिहास हमें मिलता है ।

बुद्ध भगवानने अपने संघके लिये दूरदेशीसे अनेक चतुराअी-पूर्ण नियम बनाये । संघमें मतभेद हो जाय तो किस तरहका बर्ताव किया जाय, संघमें गंदगी न आने पाये अिसलिये कौन-कौनसी बातोंमें सचेत रहना चाहिये आदि अनेक सूचनाओं अुन्होंने कीं । नियमोंकी अधिकता होकर मूल अुद्देश्य टूट न जाय अिसलिये अुन्होंने अपने मतको अनेक प्रकारसे स्पष्ट किया । और अैसी शिक्षाप्रणालीके नीचे तैयार हुअे अपने शिष्योंको धर्मोपदेश देनेकी अनुज्ञा दी । बुद्ध भगवानको अपने समयके पुराने विचारके लोगोंके साथ लड़ना पड़ता था । अितना ही नहीं बल्कि पुराने विचारके लोग अिन्हें नास्तिक या पाखंडी कहते थे अुन अपने-जैसे दूसरे सुधारकोंके साथ भी अुन्हें जूझना पड़ता था । अिन सब कारणोंसे बुद्धका उपदेश निश्चित शब्दोंमें और व्यवस्थित रूपमें रखा गया । सामान्य लोगोंके लिये बुद्ध भगवानने निम्न लिखित नियम बतलाये थे :

किसीकी हिंसा नहीं करनी चाहिये ।

अन्यायसे कुछ भी नहीं लेना चाहिये ।

शारीरिक पवित्रता नहीं छोड़नी चाहिये ।

अमृत्य भाषण नहीं करना चाहिये ।

चुगली नहीं खानी चाहिये ।

कटुवचन नहीं कहने चाहिये ।

बेकार बकझक या निंदा नहीं करनी चाहिये ।

औरोंके द्रव्यका लोभ नहीं रखना चाहिये ।

मनसे क्रोधको निकाल देना चाहिये ।

मिथ्या दृष्टि यानी नास्तिकता नहीं रखनी चाहिये ।

भिक्षुओंके लिये :

ब्रह्मचर्यका पालन करना ।

मादक पदार्थोंका सेवन न करना ।

दोपहरके बाद न खाना ।

नृत्य, गीत आदि अुद्दीपक बातें न सुनना या देखना ।

माला चन्दन आदिका अुपयोग न करना ।

अंूचे या मुलायम बिछौने पर न सोना ।

सोना-चांदीका स्वीकार न करना ।

आदि अतिरिक्त नियम बुद्ध भगवानने बना दिये थे ।

अैसे भिक्षु आठ महीनों तक देशमें सर्वत्र घूमकर धर्मोपदेश करते, और चौमासेमें विहारोंमें अेक जगह बैठकर धर्मका अध्ययन और चिन्तन करते थे । धर्मोपदेशके लिये घूमते वक़्त लोगोंकी तरफ़से आसानीसे जो भिक्षा मिलती वही खाकर भिक्षु रहते थे ।

बुद्धके संघमें सभी जातिके शिष्य आ सकते थे । स्त्रियोंके लिये भी बुद्ध भगवानने अेक अलग संघकी स्थापना की थी । बुद्धकी स्त्री-शिष्योंमें क्षेमा, अुत्पलवर्णा, आदि महान् भिक्षुणियां हो गयी हैं । अुन्होंने स्त्री वर्गको ही नहीं, बल्कि पुरुष वर्गको भी अुपदेश देकर अुन्हें सन्मार्ग दिखाया था । अुन जैसी भिक्षुणियोंको स्थविरा अथवा थेरी कहते थे ।

बुद्ध भगवानका संघ दुनियाकी सबसे पहली 'धर्मशीलों (मिशनरियों)की संस्था' कही जा सकती है ।

१९२३

४ बुद्ध अवतार

भगवान बुद्धको हम श्रीविष्णुका अवतार मानते हैं । मुझे ऐसा लगता है कि अगर तथागतको अवतार मानना ही हो, तो फिर महादेवका अवतार क्यों न मानें ? वह भवपालक नहीं, भवरोगघ्न—भवनाशक है । लेकिन शाक्यमुनिको अवतार मानना ही मुझे पसन्द नहीं है । अवतारके मानी क्या हैं ? दुनियाका दुःख देखकर, ज्ञानका लोप देखकर, शुद्ध, बुद्ध, नित्य, मुक्त परमेश्वर दुनियावी रूप धारण करके 'नीचे अुतरता है' । मनुष्योंमें रहकर मनुष्योंकी तरह वह भले ही बर्ताव करे, लेकिन वह मनुष्य नहीं है । अुसकी जाति ही अलग है । अुसके अनुग्रहसे हमारा अुद्धार भले ही हो, लेकिन अुसका अनुकरण करनेकी अिच्छा हमें नहीं होनेकी । हम कृष्णके अुपासक बन सकते हैं, परन्तु कृष्णका अनुकरण तो करते ही नहीं । गौतमबुद्ध अवतार नहीं थे, मनुष्य थे । दुनियाका दुःख देखकर, सम्यक् ज्ञानका अभाव देखकर 'वह चढ़े', अीश्वरकी तरह 'अुतरे' नहीं । सामान्य परन्तु श्रद्धावान जीव अनेक जन्म तक चढ़ते-चढ़ते बोधिसत्त्वका बुद्ध हो गया; मनुष्यका देव बन गया; शुद्ध, बुद्ध, मुक्त बन गया । आर्य था, अर्हत बन गया । अुसका जीवन अनुकरणीय है । सीता-सावित्रीकी तरह बुद्ध भगवानने दुनियाको यह बता दिया है कि मनुष्य कहाँतक चढ़ सकता है । वह श्रद्धा और करुणाकी मूर्ति थे । यमराजके यहाँ जानेवाले नचिकेताकी श्रद्धा बुद्ध भगवानमें थी । गुरुसे ब्रह्मज्ञान प्राप्त करके

निर्भय हो जानेके बाद जनक राजा राज्य सर्वस्व छोड़नेके लिये तैयार हो गये । गुरुकृपासे जीवनके सार्थक होनेके विश्वाससे गोपीचन्दने राज्य त्याग किया, लेकिन शाक्य मुनिका त्याग अिससे कठिन था ।

‘सांसारिक लोगोंका दुःख देखकर मेरा मन रोता है; अिस-लिये अुस दुःखको दूर करनेकी दवा होनी ही चाहिये; अतः मुझे अुसे प्राप्त करना ही होगा’ अिस श्रद्धा — अंतःश्रद्धा — से अुन्होंने राज्य त्याग किया । यह वीरकर्म तबतक गाया जायगा, जबतक मनुष्य-जाति दुनियामें रहेगी । हरेक जमानेके कविगण अिस महाभिनिष्क्रमणका प्रसंग गा गाकर अपनी वाणीको पुनीत करेंगे । सिद्धार्थका गृहत्याग सफल हुआ और आर्यावर्तमें धर्मचक्र प्रवर्तन शुरू हो गया । बुद्ध भगवानका धर्म गूढ़वादी नहीं है, ‘अतिवादी’ नहीं है, फिर भी वह सामान्य नीतिधर्म भी नहीं है । सदाचारके अपुरान्त अुसमें अहंभावका नाश अुद्दिष्ट है, और निर्वाण अुसका प्राप्तव्य है ।

यह विषय अत्यन्त महत्त्वका है कि बौद्ध धर्मका सामाजिक स्वरूप क्या था और अुस धर्मका आर्यावर्त पर क्या असर पड़ा । लेकिन विद्यार्थीगण बड़ी अुम्रमें अिसका विचार कर सकेंगे ।

बुद्ध भगवानकी जीवनी पढ़कर किसी नवयुवकके मनमें गृह-त्याग करनेका विचार आ जानेकी संभावना है । अुसे अिस बातका ध्यान रखना चाहिये कि जो महावीर होगा, वही त्यागको चरितार्थ बना सकेगा । सरस्वतीचन्द्र* बननेमें कोअी श्रेय नहीं । ‘अगर त्याग करोगे, तो अुस त्यागके लायक बनो ।’

अप्रैल, १९२२

* गूजरातीके अेक सर्वमान्य अपुन्यासके नायक.

बोधिजयन्ती

बैसाख सुदी पूर्णिमा

३ दिन

गौतमबुद्धको अिसी दिन ज्ञान प्राप्त हुआ । अिस रहस्यको हृदयंगम करनेका यह दिन है कि दुनियाके दुःखोंकी दवा द्रव्यमें नहीं, राजसत्तामें नहीं, जुल्मज़बर्दस्तीमें नहीं, बल्कि ज्ञानमें, शिक्षामें, और शुद्ध जीवनमें ही है ।

यह त्यौहार प्रायः गरमीकी छुट्टियोंमें लुप्त हो जाता है । अिसलिये अैसा प्रबन्ध हो जाना चाहिये, जिससे पाठशालाओंमें नहि किन्तु सारे समाजमें यह मनाया जाय ।

बुद्धके गृहत्याग और ज्ञानकी खोजके बारेमें अिस दिन विवेचन हो । अेकाध नाटक, जो अिस दिनके उपयुक्त हो, खेला जा सकता है ।

यह भी आज समझाना चाहिये कि जातिभेद, और खास करके अुसमें आनेवाली अुच्चनीचता, हिन्दूधर्मका सच्चा लक्षण नहीं है । अन्तमें यह भी समझा दिया जाय कि बुद्ध भगवानके अुपदेशमेंसे अुत्तमोत्तम हिस्सेको हिन्दूधर्मने किस तरह अपनाकेका प्रयत्न किया है ।

‘ धम्मपद ’मेंसे अच्छे-अच्छे वचन कंठ करनेके लिये विद्यार्थियोंको दिये जायें ।

मृत्यु विरुद्ध प्रेम

वनवासके कष्ट सहन करती हुयी द्रौपदीको आश्वासन देनेके लिये अृषियोंने जो अनेक कथायें सुनार्यीं, अुनमें सीताकी और अुसके बाद सावित्रीकी कथा कहनेमें अृषियोंने कितना औचित्य दिखाया है ! सीता, सावित्री और सती (अुमा) आर्य रमणियोंका त्रिविध आदर्श है ।

मद्रदेशके अधिपति अश्वपतिके संतान नहीं है । नगरवासी तथा ग्रामवासी लोगोंको राजा अत्यन्त प्रिय है । अन्तःकरणके अुदार, सत्यप्रतिज्ञ, जितेंद्रिय और वषमाशील राजाकी परंपरा अबाधित रहनेकी चिन्ता प्रजाको भी होती है । राजाने अनेक प्रकारकी कठिन तपस्या की, और अिन्द्रियोंका दमन करके परमात्म-शक्तिकी अराधना की ।

कोअी महान् जीवनकार्य अेक जन्ममें पूरा नहीं होता । समाजसेवा या राष्ट्रसेवा जब पुस्त-दर-पुस्त चलती है, कुलधर्म वंशपरंपरागत चलता है, तभी अपेक्षित फलप्राप्ति होती है । राजाने संततिकी अिच्छा अिसलिये की कि कुलव्रत सतत चलता रहे; ' सन्तानं परमो धर्मः ' । अैसा समझकर कि चूंकि पुत्र ही कुलधर्मका पालन कर सकते हैं, पुत्रके बिना गति नहीं है, राजाने पुत्रकी अिच्छा की । परन्तु परमात्माको यह दिखलाना था कि धर्मका अुत्कर्ष साधनेमें पुरुषोंकी तरह स्त्रियां भी समर्थ हो सकती हैं । पुत्र मांगनेवाले राजाको भगवान्की ओरसे कन्यारत्न मिला । पुत्रके लिये लालायित माता-पिताओंको जब कन्या-प्राप्ति होती है,

तब उसका लड़क और परवरिश पुत्रकी ही तरह हो, तो उसमें क्या आश्चर्य ? सावित्री इसी प्रकार संस्कारी स्वतंत्रताके वायुमंडलमें पली । देवकन्याको सोहनेवाली अुत्तम शिक्षा उसे मिली । परिणामस्वरूप लड़की तेजस्विनी हुअी । पवित्रता, निर्भयता और अुच्च संस्कारिताके कारण सब जगह लड़कीका अितत्ता तेज फैलने लगा कि उसके सामने अच्छे-अच्छे राजपुत्र भी फीके मालूम होने लगे । अेक भी राजपुत्रमें अैसा आत्म-विश्वास न रहा कि मैं सावित्रीके योग्य हूं । जो प्रेम करने आता, वह पूजा ही करने लगता । बेटी सयानी हो गयी । सभी तरह संस्कार-सम्पन्न दिखायी देने लगी । शरीरसे भी अंग-प्रत्यंग पूर्ण विकसित और प्रौढ़ । राजा सोचने लगा कि अगर वंश-विस्तार न होगा, तो अिन सब संस्कारोंकी परम्परा कैसे चलेगी ? पिताने जान-बूझकर लड़कीको स्वतंत्रताकी शिक्षा दी थी । असलिये उसने सावित्रीसे विश्वास-पूर्वक कहा, “ ऋषत्रियोंके रिवाजके अनुसार राजपुत्रोंको तेरी मांग करनी चाहिये थी, लेकिन कोअी हिम्मत नहीं करता । तू अपना कुलव्रत जानती है । सब शुभ संस्कारोंसे तू युक्त हुअी है । तू स्वयं अपना पति चुनकर मुझे बता दे । मैं उस बात पर योग्य विचार करके तेरे पसन्द किये हुअे युवकको ही तुझे अर्पण कर दूंगा । मैं चाहता हूं कि तू अपनी अिच्छाके अनुसार अपना पति खोज ले । ब्राह्मणोंने मुझसे कहा है कि यह मार्ग रूढ़ भले ही न हो, किन्तु है तो धर्मसम्मत ही ।

अिस बारेमें यदि मैं अुदासीनता दिखाअूं, तो देवता लोग मुझे दोष देंगे ।”

बेटीने पिताके वृद्ध मंत्रीको साथ लेकर प्रयाण किया । सावित्रीको अपने योग्य वर आसानीसे मिल ही नहीं सकता था । वह

कितने ही नगरों, देशों और वनोंमें घूमी । अिस तरह यात्रा करते समय अत्यन्त मूल्यवान शिक्षा भी उसे मिलती गयी । आखिर अुसे अपने योग्य पति मिल गया । पिताकी सम्मतिके बिना वात तो हो नहीं सकती थी; अिसलिये सावित्री सीधे घर वापस आयी और पितासे मिलने गयी । वहां भगवद्भक्त, जनहितैषी नारदमुनि आये हुअे दिखायी दिये । अुनका तो त्रैलोक्यमें अप्रतिहत संचार था । नारदका आगमन यानी धार्मिक और लौकिक ज्ञानका भोज । सुर तथा असुर, मनुष्य तथा गंधर्व-किन्नर सभी 'सर्वभूतहितेरत' नारदको चाहते थे । सावित्रीने पिताको और ब्रह्मदेव-पुत्र नारदको प्रणाम किया । नारदने कुशलक्षेमके बाद प्रश्न पूछा, 'कन्या सयानी हो गयी है, अिसका विवाह कब करोगे राजन् ?' राजाने अपना आदर्श बताया और कहा, 'सावित्री अपना वर खोजने ही गयी थी, सो अभी आई है । अुसकी बातें हम सुनें !' सावित्रीने कहा, "शाल्वदेशके द्युमत्सेन राजाका नाम तो प्रख्यात ही है । आज वे राज्यभ्रष्ट होकर वनमें वनवासीकी तरह दिन काटते हैं । अुनकी आंखें जाती रही हैं । राज्यभ्रष्ट होनेसे जो कष्ट भुगतने पड़ते हैं, अुनमें अुन्होंने दारुण तपस्याको और जोड़ दिया है । फिर भी अुनकी तितिक्षाका भंग नहीं हुआ है । मैंने निश्चय किया है कि अुनका सुशील पुत्र सत्यवान ही मेरे योग्य है और अुसके साथ मैं मनसे विवाह भी कर चुकी हूं ।" नारदअृषिके मुंहसे दुःखका अुद्गार निकल गया, 'अरेरे बुरा हुआ !' राजाने सोचा कि स्वयंवरमें बेटीकी प्रवंचना हो गयी है । किन्तु राजाके चेहरे पर चिन्ता देखकर नारद बोले, "लड़कीने घर तो अच्छा पसन्द किया । माता और पिता अत्यन्त सत्यनिष्ठ होनेसे ही ब्राह्मणोंने अुस बेटेका नाम सत्यवान रखा है । जंगलमें रहते हुअे अुसने शिक्षा

भी अच्छी पायी है । बचपनमें वह मिट्टीके घोड़े और तरह-तरहकी गुड़ियां अितनी अच्छी बनाता था और चित्र भी इतने सुन्दर खींचता था कि अुसका दूसरा नाम 'चित्राश्व' पड़ गया है ।”

“अिसका क्या ठिकाना है कि बचपनके गुण बड़ी अुम्रमें टिकते ही हैं ?” राजाने पूछा, “लेकिन यह राजपुत्र आज कैसा है ? वह आज सत्यनिष्ठ, तेजस्वी, बुद्धिमान, वषमासंपन्न, शूर और पितृभक्त न हो, तो समझना होगा कि मेरी कन्याने चुनाव करनेमें भूल की है ।” नारदकी वाग्धारा बहने लगी । सत्यवानका स्तुति-स्तोत्र गाते गाते राजर्षिकी अेक भी अुपमा बाक्री न रही । सत्यवान रूपवान, अुदार और प्रियदर्शन तो था ही । लेकिन राजाके लिये आवश्यक सभी गुण नारदने अुसमें देखे थे । अुन्होंने उसमें यह और जोड़ दिया कि “तेजस्विताके साथ साथ मर्यादशीलता और सरलता आदि विशेष गुणोंके लिये शीलवृद्ध और आचार-वृद्ध लोग अुसकी तारीफ़ करते हैं ।”

“तो फिर बुरा क्या हुआ ?”

अुदास होकर नारदने कहा, “अिस सर्वगुण-सम्पन्न राजपुत्रके आयुष्यका अब अेक ही साल बाक्री रहा है । मैं देखता हूँ कि अुसकी मृत्यु टालनेकी शक्ति किसीमें नहीं है ।” “तो फिर अैसा जमाअी कौन पसंद करे ?” राजा और नारदने लड़कीसे सिफ़ारिश की कि ‘दूसरा वर खोजना ही अुचित है ।’ शीलपरायण राजकन्याने अुस सूचनाका तनिक भी आदर नहीं किया । अुसने कहा, “सज्जनोंका यह मार्ग नहीं है । जिसके साथ मैंने अेक बार मनसे विवाह किया, वह दीर्घायु हो या अल्पायु; सगुण हो या निर्गुण; अुसके साथ ब्याह हो चुका है । अब दूसरेको पसंद नहीं कर सकती । किसी

भी वस्तुका प्रथम मनमें संकल्प होता है, उसके अनुसार उसका शब्दमें अुच्चारण किया जाता है और उसके बाद उसके अनुसार कृति होती है । मनके निश्चयके अूपर वाणी और कृति आधार रखती है और अिन दोनोंकी प्रेरणा भी अुसीमेंसे होती है, अिसलिये मन ही मेरे मतसे प्रमाण है । “प्रमाणं मे मनस्ततः” अैसे धार्मिक निर्णयके आगे राजा भी क्या कह सकता, और नारद भी क्या समझाते ? सावित्रीको अुसके निश्चय पर बधाअियाँ देकर, मुंहसे जो निकले, सो आशीर्वाद देकर, नारद संचार करनेके लिये निकल पड़े और राजाने द्युमत्सेनके आश्रमको जानेकी तैयारी की ।

प्रथम तो द्युमत्सेन राजाको यह सब असंभव-सा ही लगा । राज्यभ्रष्ट, अंधे और वनवासी राजाके पुत्रको सावित्री जैसी अुत्कृष्ट और तेजस्विनी कन्या देनेके लिये अुसका पिता स्वयं आता है ! अिससे अधिक अद्भुत क्या हो सकता है ? अश्वपतिने अुत्तर दिया, “मेरी बेटी भी जानती है और मुझे भी ज्ञात है कि सुख और दुःख दोनों अस्थायी हैं; दोनोंका नाश है । अच्छे आदमियोंको अुनका विश्वास नहीं करना चाहिये । गौरवकी दृष्टिसे तो हम दोनोंके कुल समान हैं और मेरी बेटीने विचारपूर्वक स्वय ही यह सम्बन्ध मनोनीत किया है ।”

आश्रममें जो पद्धति संभव थी, अुस पद्धतिसे दोनोंका विवाह हो गया । अपने पिताको बुरा न मालूम हो, अिसलिये सावित्रीने जबतक पिता अुपस्थित थे तबतक अलंकार पहन रखे । पिताके पीठ फेरते ही सावित्रीने सब गहने अुतार दिये और तपस्विनीका गेरुआ वेष धारण कर लिया । शुश्रूषा, सदाचार, नम्रता और अिन्द्रिय-दमनको अपना आचार-धर्म बनाकर, प्रसन्नतासे रहकर सभीको प्रसन्न किया । सास, ससुर आदि सब संबंधियों तथा पतिको अपने सद्गुणोंसे

सन्तुष्ट करके, आश्रम-लक्ष्मीके समान वहां वह सोहने लगी। संस्कारी, धर्मपरायण और जितेन्द्रिय स्त्रीके सहवासमें सत्यवानका आनन्द बढ़ता गया। सावित्रीको सेवाका तो आनन्द मिलता था; किन्तु नारदकी की हुआ भविष्यवाणी उस आनन्दको जलाकर भस्म करती थी। महीने बीत गये और दिन बाक्री रहे। अब तो चार ही दिन बाक्री थे। सावित्रीने आहार और निद्राका त्याग किया। युमत्सेन राजा डर गया। तीन दिन तक बिलकुल खंडं रहनेका ही सावित्रीका व्रत था। वह कैसे पूरा होगा? सावित्रीने अुत्तर दिया, “तात, आप चिन्तान करें! मैंने निश्चयपूर्वक व्रत शुद्ध किया है और निश्चय ही कार्य-सिद्धिका कारण है। व्यवसायश्च कारणम्।”

सुशीला सावित्रीका विरोध कौन करे? तीन दिन किसी तरह निकल गये। आखिरी रातका अेक-अेक क्षण सावित्रीके लिये कैसा बीता होगा? सबेरा होते ही नित्यकर्म पूरा करके सावित्रीने प्रदीप्त अग्निमें हवन किया। वृद्धोंको प्रणाम किया। आशीर्वाद देकर सबोंने उसे भोजन करनेका आग्रह किया। सावित्रीको आहार-निद्रादि देहधर्म कहांसे सूझते? अुसने नम्रताके साथ सास-ससुरसे कहा कि सूर्यास्तके बाद अमुक अिष्ट वस्तु पूरी करके ही भोजन करनेका मेरा संकल्प है।

अितनेमें कन्धे पर कुल्हाड़ी रखकर फल और अीधन लानेके लिये सत्यवान जाने लगा। सावित्रीने दीनतासे कहा: “आप अकेले न जायँ। मैं भी आपके साथ आती हूँ। आज आपसे दूर रहनेको मेरा जी नहीं चाहता।” सावित्रीको घने जंगलमें घूमनेकी आदत कहांसे होगी? और फिर आज तो अुसके अुपवासका चौथा दिन था। वह कैसे चल सकेगी? अुसे अनुज्ञा कौन देगा? लेकिन सावित्रीने सत्यवानकी अेक नहीं

सुनी। अन्तमें सत्यवानने यह बात अपने माता-पिताके अपूर सौंप दी। सावित्रीने अत्यन्त नम्रतासे किन्तु दृढ़तापूर्वक अपनी मनीषा सास-ससुरके सामने रखी। सास-ससुरने विचार किया कि बेटीने सारे वर्षभरमें अेक बार भी किसी चीज़की याचना नहीं की। आज अिसे 'ना' कैसे कहा जाय ? अुन्होंने अन्तमें अनुज्ञा दे ही दी।

दोनों वनमें चले। वनवासके काव्यमय जीवनमें अरण्यकी शोभा ध्यान खींच ही लेती है। रास्तेमें मोर नाचते और केका करते थे। अनेक प्रवाह अपने निर्मल जलसे कलध्वनि करते थे और जहाँ-तहाँ छोटे-मोटे वृष असंख्य फूलोंसे प्रफुल्ल हुअे थे। सत्यवान प्रत्येक रमणीय वस्तुकी ओर सावित्रीका ध्यान खींचता जाता था और अपना आनन्द द्विगुणित करता जाता था। सावित्री भी पतिके आनन्दमें सहभागी होनेका पूरा प्रयत्न करती थी। अुसे अितना ही समाधान था कि भाग्यका पासा पड़नेके समय में पतिके साथ हूँ। लेकिन हर कषण अुसे अेक कल्पके समान भारी लगता था। मानो अुसके हृदयके टुकड़े-टुकड़े हुअे जाते थे।

दोनों वनमें पहुँच गये और सत्यवान फल चुनने लगा। अितनेमें सावित्रीने सुगंधी फूल तोड़कर अुनकी अेक माला बनायी। आवश्यक फल अिकद्दा हो जाने पर सत्यवानने कुल्हाड़ी लेकर सूखी लकड़ियाँ काटनी शुरू कीं। यह काम अुसके लिये कोअी नया नहीं था। अुसका शरीर भी कसा हुआ था। लेकिन न जाने क्यों आज अुसके सारे शरीरसे पसीना निकलने लगा। वह थक गया। अुसके सिरमें तीव्र वेदना होने लगी। अेकाग्रतासे पतिकी ओर निहारनेवाली सावित्रीके ध्यानमें यह बात आयी। अुसने पास जाकर प्रेमसे पूछा, "आज कोअी खास थकान मालूम होती है ?" सत्यवान अपनी थकानको दवाना चाहता था। वेदनाको छिपानेकी

अुसकी अिच्छा थी । लेकिन सावित्रीने जब अत्यन्त प्रेमके साथ प्रश्न पूछा, तब अुससे न रहा गया । अुसने कहा, “हाँ ! आज कुछ हो रहा है, सही ! सिरमें शूल अुठ रहा है और दिलमें कुछ बेचैनी-सी मालूम हो रही है ।” थोड़ी देर बाद फिर अुसने कहा, “अब तो खड़ा भी नहीं रहा जाता । ऋरा सो जाऊँ तो अच्छा ।” सावित्रीने वहीं ज़मीन पर बैठकर सत्यवानका मस्तक अपनी गोदमें लिया । सत्यवानको कुछ आराम मालूम हुआ; लेकिन सावित्रीको वह कषण प्रलयकालका था । अुसे विश्वास हो गया कि नारदका बताया हुआ प्रसंग समीप आया है । अुसका हृदय, मन और आत्मा अुसकी आंखोंमें अेकत्र होकर सत्यवानकी ओर देखने लगे । चार दिनके अुपवासके कारण दृष्टि कषीण हो जानी चाहिये; लेकिन सावित्रीकी तपस्या ही अितनी अुज्ज्वल थी कि अुसी क्षण उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त हुअी ।

अुसने देखा कि सामनेसे कोअी भव्य पुरुष निकट आ रहा है । अुसने लाल कपड़े पहने थे । माथे पर जगमगाता हुआ किरीट था । वह पुरुष क्रदावर और खूबसूरत था । तेजमें मानो प्रतिसूर्य ही था । अुसे श्याम कहनेकी अपेक्षा गौर कहना ही अधिक अुचित होता । अुसके हाथमें भयंकर पाश था । देखते ही आदर अुत्पन्न करनेवाली अुसकी आकृति देख कर सावित्री समझ गयी । अुसने धीरेसे पतिका मस्तक भूमि पर रख दिया और अुस दिव्य पुरुषके प्रति आदर दिखानेके लिये वह खड़ी हो गयी । सावित्रीने पूछा, “भगवन्, अितना तो मैं समझ सकती हूँ कि आपकी काया मानुषी नहीं है । आप कोअी दैवी पुरुष हैं । लेकिन क्या आप अितना कहनेकी कृपा करेंगे कि आप कौन हैं और किस अुद्देश्यसे आये हैं ?” अुस दिव्य पुरुषने जवाब दिया, “हे सावित्री, तू

पतिव्रता है और तपोनिष्ठ भी है । अिसीलिये तू मुझे देख सकी और अिसीलिये तेरे साथ मैं बातचीत कर रहा हूँ । तू यह जान ले कि मैं पितरोंका अधिपति यम हूँ । तेरे पतिका आयुष्य नष्ट हो गया है, अिसलिये मैं अुसे ले जाने आया हूँ ।”

“ भगवन्, मानवोंको ले जानेके लिये तो आपके दूत आया करते हैं । आज आप स्वयं किसलिये पधारे हैं ? ”

“ हम सत्त्वशील मनुष्यकी क्रद्र करते हैं । यह तेरा सत्यवान धर्मसम्पन्न है, सुस्वरूप है, गुणोंका तो मानो महासागर ही है । अिसे ले जानेके लिये स्वयं मुझे ही आ जाना चाहिये न ? ”

यह कहते हुअे यमराजने सत्यवानके शरीरमेंसे अुसके जीवात्माको अपने पाशके द्वारा खींच निकाला । तुरन्त ही सत्यवानका शरीर निस्तेज हो गया । श्वासोच्छ्वास बंद हो गया । मुखकी कान्ति अुतर गयी और सभी अवयव ढीले पड़ गये । यमराजने सत्यवानके जीवात्माको अपने कब्जेमें लेकर दक्षिण दिशाका रास्ता पकड़ा । यम-नियम द्वारा सब सिद्धियाँ प्राप्त हो जानेसे सावित्री भी यमराजके पीछे-पीछे चलने लगी । अुसके हृदयमें दुःखका महासागर अुमड़ रहा था । सावित्रीको पीछे-पीछे आती देखकर यमराजने प्यारसे कहा, “ सावित्री, अब तू वापस चली जा और सत्यवानका और्ध्वदैहिक कर । तूने अपने अिस धर्मका पूरी तरह पालन किया है कि पति जबतक जीवित है, तबतक पत्नी अुसके साथ रहे । पतिके अृणसे तू मुक्त हुअी है । पतिके पीछे जहाँ तक जाना चाहिये, वहाँ तक तू जा चुकी है । अब वापस जा ।”

“मैं कैसे वापस जाऊँ ? जहाँ मेरे पति, वहाँ मैं । सनातन धर्मने ही यह व्यवस्था कर दी है । तप, गुरुभक्ति, पतिप्रेम, व्रत और आपका अनुग्रह, अिन सब कारणोंसे मेरी गति अकुंठित है ।

अब मैं पतिको कैसे छोड़ सकती हूँ ? आप मुझे वापस नहीं लौटा सकते । ” सावित्रीको धर्मके अनुसार बातें करती देखकर यम — धर्म सन्तुष्ट हो गये । सावित्रीने बात आगे चलायी :

“ विद्वान लोग कहते हैं कि सात पद चलनेसे या सात शब्द बोलनेसे सज्जनोंके बीच मैत्री हो जाती है । इस मित्रताके अधिकारसे अगर मैं आपसे कुछ प्रार्थना करूँ, तो क्या कृपा करके आप उसे सुन लेंगे ? ज्ञानसम्पन्न लोग कहते हैं कि चारों आश्रम धर्माचरणके लिये योग्य हैं और धर्माचरण ही आत्मज्ञानका साधन है । शिष्ट लोग ऐसा भी कहते हैं कि चारोंमेंसे किसी भी एक आश्रमका अच्छी तरह पालन हो जाय, तो वाक्योंके तीन आश्रम स्वयं ही उसके पीछे-पीछे चले आते हैं और इसलिये धर्मज्ञ लोगोंने यह कह रखा है कि आश्रमान्तर करनेकी तकनीक भी अच्छी रखनेकी आवश्यकता नहीं है । ऐसी स्थितिमें जहाँ हम गृहस्थधर्मका पालन कर रहे हैं, वहाँ आप उसका विध्वंस क्यों करते हैं ? मेरे पतिको आप किसलिये ले जा रहे हैं ? ”

सावित्रीकी यह संस्कारी और युक्ति-युक्त वाणी सुनकर धर्मज्ञ यमराजको अत्यंत संतोष हुआ । उन्होंने कहा, “ हे अनिन्दिते, इस सत्यवानके जीवनको छोड़, दूसरा जो भी कुछ तू माँगेगी, मैं तुझे दे दूँगा । लेकिन तू अब वापस चली जा । तुझे ग्लानि आ रही है । अब अधिक श्रम मत कर । ”

“ पतिके पास रहते हुअे मुझे ग्लानि ? मेरे पतिको जहाँ आप ले जायेंगे, वहाँ मुझे आयी ही समझिये । सज्जनोंके साथ एक बार श्रेष्ठ समागम हो जाय, तो उसे संगति कहते हैं । ऐसा समागम बढ़ जाय, तो उसे मैत्री कहते हैं । आप-जैसे धर्मराजके साथका यह समागम निष्फल तो होगा ही नहीं । ”

“तू ऐसी हितकारी वाणी बोल रही है, जो मेरे अन्तःकरणको भाये और ज्ञानी लोगोंकी बुद्धिको भी वृद्धिगत करे। इस सत्यवानके जीवनको छोड़ दूसरा चाहे जो वर तू माँग ले। लेकिन अब तू लौट जा। व्यर्थ श्रम मत भुठ।”

“आपने सब प्रजाको नियमसे बाँध रखा है। इसलिये आप चाहे जिसको स्वेच्छासे ले जा सकते हैं। मैं भी उसी नियमके वश होकर पतिका अनुसरण कर रही हूँ। आप मुझे किस तरह वापस लौटायेंगे? यह तो सज्जनोंका सनातन धर्म है, कि किसी भी प्राणीका मन, वचन, क्रियासे द्वेष या द्रोह न करना; बल्कि उस पर अनुग्रह करना। सामान्य मनुष्योंमें भी यही प्रथा हमें दिखायी देती है। जो सामर्थ्यसम्पन्न हैं, वे कितने मृदु और कृपमावान होते हैं! सज्जन लोग तो अपने शत्रु पर भी दया ही करते हैं।”

“हे सावित्री, जिस प्रकार प्याससे पीड़ित मनुष्य शीतल जल पाकर तुष्ट होता है, उसी प्रकार धर्म-रहस्य प्रकट करनेवाली तेरी यह वाणी मुझे तृप्तिकारक लगती है। हे कल्याणि, इस सत्यवानके जीवनके अलावा दूसरा चाहे जो वर तू माँग ले और वापस चली जा। कितनी दूर आ गयी तू!”

“अपने प्रिय पतिके निकट होनेसे मेरे लिये यह स्थान ज़रा भी दूर नहीं है : न दूरमेतन्मम भर्तृ-सन्निधौ। और जहाँ मन पहुँच सकता है, उसे दूर कह सकते हैं क्या? रास्ता चलते-चलते आप मेरी कुछ बातें तो सुन लीजिये। भगवान् श्री सूर्यनारायणके आप प्रतापशाली पुत्र हैं। मृत्युलोकके सभी लोगोंके लिये आपने अेक ही-सा धर्म चलाया है। उसके अनुसार ही प्रजा चलती है; इसलिये, हे अीश्वर! लोकोंमें धर्मराजके नामसे ही आपकी ख्याति है। सचमुच, धर्मनिष्ठ सज्जनों पर मनुष्यका जितना

विश्वास होता है, अतना स्वयं अपने ऊपर भी नहीं होता । हरअेक मनुष्य सज्जनोंके प्रति प्रेमभाव रखता है । सज्जन प्रेममूर्ति हुआ करते हैं, असलिये हरअेक अुन पर विश्वास करता है ।”

“भद्रे, अैसा भाषण तो मैंने आज तक किसीके भी मुँहसे नहीं सुना । मैं सन्तुष्ट हो गया हूँ । अेक सत्यवानका जीवन छोड़ बाक्री जो चाहे सो तू माँग ले । अब तू और कितनी दूर आयेगी ? तेरे समान राजकन्याके लिये अितना श्रम अुचित नहीं है ।”

सावित्रीने अपना कथन जारी रक्खा : “सज्जनोंका धर्माचरण हमेशा अटल होता है । धर्माचरणमें वे कभी पीछे क्रदम नहीं हटाते । धर्माचरणमें वे दुःखका भी अनुभव नहीं करते । सज्जन सर्वदा निर्भय होते हैं । अपने सत्यके द्वारा वे सूर्यका रक्षण करते हैं । अपने तपोबलसे वे भूमिको आधार देते हैं । हे धर्मराज, जो गये हैं और जो आज विद्यमान हैं, अुन सब लोगोंको आधार तो सज्जनोंका ही है । यह स्मरण करके कि श्रेष्ठ लोग अिसी रास्ते गये हैं, सज्जन परकार्यमें रत रहते हैं, और किसी प्रकारके प्रतिफलकी अपेक्षा नहीं रखते । सज्जनोंका समागम निष्फल नहीं जाता । अुनसे प्राप्त द्रव्य नष्ट नहीं होता । यह धर्म अबाधित होनेसे सज्जन ही विश्वके संरक्षण-कर्ता हैं ।”

“पतिव्रते, तूने धर्मका हृदय ही मेरे सामने खोलकर रख दिया है । जैसे-जैसे तेरी पवित्र वाणी सुनता जाता हूँ, वैसे-वैसे तेरे प्रति मेरे हृदयमें अुत्कृष्ट भक्ति अुत्पन्न होती जाती है । अब जो तेरी अिच्छा हो सो वर माँग ले ।”

सावित्रीका कार्य हो गया । धन्य-धन्य होकर वह अुत्साहसे बोली : “भगवन्, अबतक मानो अपने पापका ही फल मेरे सामने खड़ा था, जिससे ‘सत्यवानके जीवनको छोड़’, यह वचन मुझे सुनना पड़ता था । आपके अबके अिस वचनमें वह बात नहीं रही । मैं धन्य

हो गयी हूँ । मैं यह वर माँग लेती हूँ कि सत्यवान फिरसे जीवित हो जायँ । क्योंकि पतिके बिना जीना मरणके समान है । पतिको छोड़कर मुझे सुख, लक्ष्मी या स्वर्गकी भी अच्छा नहीं है । पतिके वियोगमें जीवित रहना भी मुझे अच्छा न लगेगा ।”

त्रिलोकमें भी जो न टलनेवाला था, वह सावित्रीकी धर्मनिष्ठा और अेकनिष्ठ प्रेमसे टल गया । यमराजने अपने पाश छोड़ दिये और वे बोले : “ हे कुलनन्दिनी, कल्याणी सावित्री, तेरे अिस पतिको मैंने छोड़ दिया । अब यह नीरोग होकर तेरे मनोरथ पूर्ण करता हुआ चार सौ साल तक जीवित रहेगा और तेरी सहायतासे अिसे धर्मप्राप्ति होगी । सत्यवान अपने धर्माचरणसे पृथ्वीपर सर्वत्र विख्यात होगा, और अनन्त काल तक तेरी कीर्ति अिस लोकमें अमर रहेगी । तुझे जो वर प्रिय था, सो तो मैंने तुझे दे दिया । लेकिन अिससे पहले चार बार मैंने तुझे वर देनेका वचन दिया है । अुसके बदलेमें जबतक तू कुछ-न-कुछ माँग न लेगी, तबतक मैं तेरे बन्धनमें ही हूँ । कृपा करके मुझे वचन-मुक्त कर ।”

अब तो सावित्रीको माँगने योग्य बहुत-कुछ सूझ सकता था । अपने ससुरको फिरसे दृष्टि प्राप्त हां जाय; अुसका राज्य अुसे वापस मिले; पिताके कोअी पुत्र नहीं है, वह पुत्रवान हो जाय; आदि बहुतसी बातें अुसने माँग लीं । मनुष्यसे माँगना हो, तो ही संकोच किया जाय न ?

सत्यवानको छोड़कर यमराज भी स्वयं मुक्त और संतुष्ट हुअे, और अुन्होंने अपने मंदिरकी ओर प्रयाण किया । सावित्री भी अुस जगह वापस चली आयी, जहाँ अुसके पतिका शव पड़ा हुआ था; और अुसने फिरसे पतिका मस्तक गोदमें ले लिया । अुस पतिव्रताके हाथका स्पर्श होते ही सत्यवान सजीव हो गया, और आँखें खोलकर अत्यंत प्रेमके साथ सावित्रीकी ओर देखने लगा ।

देहमें जान आते ही सत्यवान बोला : “ कितनी देर तक सोता रहा मैं ? तूने मुझे समयपर जगाया क्यों नहीं ? और जो मुझे खींचकर ले गया था, वह श्यामवर्ण पुरुष कहाँ है ? ”

अस समय सावित्री कितने हर्षके साथ बोली होगी ! मरे हुअे पतिको फिरसे जीवित होते देख और प्रेमवाणी बोलते सुनकर असे कितना आनन्द हुआ होगा ? वह बोली : “ आप बहुत देर तक सोये हैं । प्रजाका सयमन करनेवाले यमराज आपको छोड़कर चले गये हैं । अब थकावट कम हो गयी हो, तो अठना ही अच्छा है । देखिये तो, चारों ओर कैसा अँधेरा फैलने लगा है । ”

सत्यवान अठ खड़ा हुआ । अठकर सारे वन-प्रदेशकी ओर देखने लगा । मानों कोअी भूली हुअी बात याद आती हा, अस तरह अधर-अधर देखकर असने कहा : “ प्रिये, मुझे अितना तो याद आता है कि मैंने तेरे साथ फल चुने, लकड़ियाँ काटीं और बादमें सिरमें भयानक वेदना शुरू हो जानेसे मैं साँ गया । असेके बाद अश्वर जाने गया हाँ गया । मुझे अेक जवरदस्त चकर आया । अितनेमें अेक अत्यन्त तेजस्वी पुरुष दिखायी देने लगा । असेके बाद क्या हुआ, कुछ याद नहीं पड़ता । क्या वह सब स्वप्न ही था ? तूने अैसा कुछ देखा ? ”

सावित्री प्रसंगको समझनेवाली थी । असेने कहा : “ आर्यपुत्र, अब देर बहुत हो चुकी है । पिताजी हमारी राह देखते होंगे । देखिये, रातमें घूमनेवाले पशुओंके शब्द सुनायी देने लगे हैं । सियार रो रहे हैं । पेड़के पत्ते भी कैसी भयंकर ध्वनि कर रहे हैं ! कल आपसे सब कुछ कहूँगी । अभी तो घर चलिये । ”

सत्यवान बिलकुल थक गया था । असेके लिये चलना कठिन था । चारों ओर फैले हुअे अंधकारको देखकर और असका विचार

करके कि आगे कितनी दूर जाना है, उसने कहा : “अस समय वापस जाना मुश्किल है, और अँधेरेमें तुझे रास्ता भी न मिलेगा।” सावित्री बहुत चकरा गयी। वह स्वयं निर्णय न कर सकी कि जाना अच्छा होगा, या न जाना अच्छा होगा। असलिये उसने पतिसे ही पूछा : “वह उस तरफ़ दावागिसे दग्ध वृक्षोंमें कहीं-कहीं अग्नि दिखायी देती है। उसमेंसे कुछ अंगारे लाकर मैं लकड़ियाँ जलाऊँगी, जिससे उनके प्रकाशमें हम जा सकें। और अगर बीमारीके असरके कारण आपके लिये चलना असम्भव हो, तो हम दोनों सारी रात यहीं बितायेंगे। सबेरे घर लौट जायेंगे।”

सत्यवान भी इसी दुविधामें था। चलनेकी शक्ति न थी, और असकी कल्पना वह खूब कर सकता था कि अगर घर न गये, तो वृद्ध माता-पिता कैसा हाहाकार मचा देंगे। उसने कहा : “अगर माता-पिता मुझे न देखेंगे, तो कितने दुःखी होंगे ! मैं ही उनका अकेला सहारा हूँ न ! कैसी गफलत हुयी, कि अबतक सोता रहा। अस बैरिन नींदसे मुझे बहुत चिढ़ हो आयी है। अबतक पिताजीने मेरी खोजमें आकाश-पाताल अक कर दिया होगा। अगर अन्हें कुछ अनिष्ट हो गया, तो मुझसे जिया ही न जायगा। अब घर जानेके अलावा कोअी मार्ग ही नहीं।”

पिताजीका दुःख और अपनी निर्बलताका विचार करके सत्यवान रो पड़ा। धीरोदात्त पुरुष जब रोने लगता है, तो अचला ही उसे सान्त्वना दे सकती है। निष्ठावान सावित्रीने मुग्ध भावसे प्रार्थना की। और पतिकी आँखोंके आँसू पोंछकर वह बोली : “यदि आज तक मैने कुछ भी तप किया हो, विनोदमें भी असत्य न बोली होऊँ, तो आजकी रात मेरे सास-ससुर और पतिके लिये सुखकर हो जाय !” उसके बाद प्रेमशालिनी सावित्रीने अपने बाल सँवारे, और पतिका हाथ पकड़कर उसे किसी तरह खड़ा

किया । पिताजीके लिये चुने हुअे फलोंकी ओर सत्यवानकी दृष्टिको जाते देखकर उसने कहा : “अिन टोकरियोंको मैं यहीं टहनियोमें लटका दूँगी । कल सबेरे आकर ले जायेंगे । लकड़ियाँ भी यहीं रहने दें । सिर्फ यह कुल्हाड़ी मैं साथ ले लूँगी । ”

फिर उसने पतिका हाथ अपने बायें कंधेपर रक्खा और अपना दाहिना हाथ उसकी कमरमें डालकर वह गजगामिनी धीरे-धीरे चलने लगी । कौन जाने, अिस तरह सावित्रीका सहारा लेते हुये सत्यवानको संकोच हुआ होगा या आनन्द ! उसने कहा : “हे भीरु, अिस रास्ते मैं बहुत बार गया हूँ, अिसलिये यह मेरा परिचित रास्ता है । अब तो चाँदनी भी पत्तोंमेंसे प्रवेश करके कुछ-कुछ मार्ग दिखा रही है । आगे रास्तेमें ढाकका बन है; वहाँ ज़रा सचेत रहना चाहिये । वहीं दो रास्ते पड़ते हैं । अुनमेंसे अुत्तरकी ओर जानेवाला रास्ता हमारा है । अब जल्दी चल ! मुझे कुछ ठीक मालूम होता है । जल्दी जाकर माता-पितासे मिल लें । ”

*

*

*

अिधर द्युमत्सेनको अचानक दृष्टि प्राप्त हुअी, अिसलिये वह तो आश्चर्यान्वित हो गया, लेकिन उसका आनन्द ज़्यादा देर तक न रहा । सूर्यास्त हुआ और बेटा-बहू नहीं आये, यह देखकर बूढ़ेका आनन्दाश्चर्य चिन्तामें डूब गया । बूढ़े पाँवोंसे अुसने चारों तरफ़ खोज शुरू की । कअी बार अुसके पैरोंमें काँटे चुभ गये । नुकीले पत्थरोंने भी अिस वातकी तलाश की कि अुस बूढ़े शरीरमें कुछ खून बचा है या नहीं । दर्भोंके टूँठोंपर कअी बार लाल अभिषेक हुआ । पास-पड़ोसके ब्राह्मणोंने अुस श्रद्धापर दया करके स्वयं भी काफ़ी खोज की । कहीं भी पता न चलनेपर सब वापस आ गये । अेकने धूनी जगायी, दूसरेने पुराने ज़मानेकी कितनी ही अद्भुत कहानियाँ छेड़ीं । लेकिन माँ-बापका

धीरज तो दूट ही गया । अन्होंने फूट-फूटकर रोना शुरू किया :
“ हे पुत्र, हे साध्वी बहू, तुम कहाँ हो ? ”

सत्यवादी ब्राह्मण आश्वासन देने लगे । सुवर्चा बोला :
“ सावित्री तप, अन्द्रियदमन और सदाचारसे युक्त है, असलिये मुझे पूरा-पूरा विश्वास है कि सत्यवान जीवित है । ” तपस्वी गौतम बोला : “ मैंने चारों वेदोंका सांग अध्ययन किया है । ब्रह्मचर्यका पालन करके गुरु और अग्निको सन्तुष्ट किया है । केवल वायुका भक्षण करके कितने ही भुपवास मैंने किये हैं । सब-के-सब व्रतोंका अेकाग्र अन्तःकरण साक्षी देता है कि आपका सत्यवान जीवित है । वह कुशल-व्षेम है । मेरी वानपर विश्वास कीजिये । ” गौतमके शिष्यको भी लगा कि मैं भी असमें कुछ जोड़ दूँ । वह बोला : “ हमारे गुरु महाराजके मुँहसे निकला हुआ अेक भी वचन आजतक झूठा नहीं हुआ है, असलिये मैं विश्वासके साथ कहता हूँ कि सत्यवान जीवित है । ” दूसरे बहुतसे अृषियोंने अपनी-अपनी धारणाके अनुसार आश्वासन दिया । अन्तमें दाल्भ्य अृषि बोले : “ सावित्री व्रत करके बिना कुछ खाये ही गयी है, असलिये असमें शक नहीं कि तेरा वेटा जीवित है; तथा हे राजा, यही असका प्रमाण है कि तुझे अपनी दृष्टि वापस मिल गयी । ” घड़ी दो घड़ी अस प्रकारकी बातें चलती रहीं । अितनेमें सावित्री और सत्यवान दोनों घर आ पहुँचे । ब्राह्मणोंने आनन्दके साथ कहा : “ देख राजा, तेरा वेटा और बहू तुझे वापस मिल गये । तेरी दृष्टि भी तुझे फिरसे प्राप्त हुअी । अब तेरा अभ्युदय नज़दीक आया ही समझ । ”

फिर क्या था, सर्वत्र आनन्द-ही-आनन्द छा गया । कअी सवाल पूछे गये और कअी जवाब दिये गये । अृषियोंने सावित्रीसे आग्रह किया कि अुसे वह सब सत्य वृत्त सविस्तर कहना ही होगा,

जो सवेरेसे घटित हो रहा था। गौतमने कहा : “ हे सावित्री, तुझे प्रत्यक्ष और अतीन्द्रिय दोनों वस्तुओंका ज्ञान है। अपने तेजसे तो हे सावित्री, तू केवल देवी-जैसी ही है। गुप्त रखने-जैसा अगर कुछ न हो, तो सकल वृत्तांत तू हमसे कह दे।” सावित्रीने सुखसे मीठे हुअे अपने दारुण दुःखका पूरा वर्णन किया। तब सभी अृषि अेक स्वरसे बाल अुठे : “ हमारे राजाका सारा कुल संकटरूपी अँधेरे गढ़में डूबा जा रहा था; हे साध्वि ! तूने अुसे अपने शील, व्रत और पुण्यके बलसे तारा है।” बातें खत्म हुअीं, अितनेमें रात्रि भी समाप्त हुअी और अरुणोदयके साथ द्युमत्सेन राजाके राज्यके लोकप्रतिनिधि राजाको ले जानेके लिये वहाँ आ पहुँचे। सचिवोंने कहा : “ शत्रुके राज्यमें बहुत बड़ी राज्यक्रान्ति हुअी, शत्रु मारे गये और प्रजाने अेकमत होकर अपना यह आग्रह जताया है कि हम महाराज द्युमत्सेनको ही अपना राजा बनायेंगे। असलिये हम आपको बुलाने आये हैं।” अधरकी सब बातें सुनकर सचिवोंने भी तपस्विनी सावित्रीके चरण अुअे।

नारद द्वारा सूचित सावित्रीके दुर्दैवोंके कारण दुःखित अुसका पिता आज अपने घरमें बैठा कैसी मनःस्थितिमें होगा ? ये आनन्द-समाचार अुसके पास तुरंत पहुँचा देनेकी बात किसी-न-किसीको सूझी ही होगी।

वैशंपायन कहते हैं ; “ सावित्रीकी अस पुण्यकथाने आज तक असंख्य लोगोंको आश्वासन दिया है, और आगे भी जो कोअी सावित्रीके अस अुत्कृष्ट आख्यानका श्रवण करके असका ध्यान करेंगे, अुनके सब मनोरथ पूर्ण हांकर वे दुःखमुक्त हांगे।”

वटसावित्री

ज्येष्ठ पूनो

१ दिन

यह त्योहार प्रायः गर्मीकी छुट्टियोंमें ही पड़ता है । “सतीके पातिव्रत्यके सामने मृत्यु भी हार जाती है,” अिस आशयकी शिक्षा देनेवाली अिस कहानीमें असाधारण काव्य भरा हुआ है । आजके दिन वटवृक्षकी पूजा करनेकी अपेक्षा सावित्रीकी ही पूजा करना अधिक अुचित है । सावित्रीकी कहानीमें स्त्रियोंका स्वातंत्र्य और स्त्रीधर्मका सर्वोच्च आदर्श देखनेको मिलता है । अिस दिन सावित्रीका चरित्र अनेक प्रकारसे गाना चाहिये । आजकलकी लड़कियोंको भी यह त्योहार मनाना चाहिये ।

आषाढी महाअंकादशी

असाढ़ सुदी ११

आधा दिन

अिस दिनसे चातुर्मास्य (चौमासे)का प्रारम्भ होता है । चातुर्मास्यके निमित्त बहुतसे व्रत लेनेका यह दिन है । चौमासेमें आधोहवा अच्छी नहीं रहती । अमुक प्रकारके संयमको स्वीकार करने पर ही चौमासा निर्विघ्न और सुखसे बीतता है । बरसातके दिनोंमें मुसाफ़िरी करना मुश्किल होनेसे अेक ही स्थान पर रहकर अध्ययन करनेका पुराना रिवाज था ।

अिस दिनका कार्यक्रम कार्तिकी अेकादशीके जैसा ही रक्खा जाय । लेकिन अुसमें पेड़ोंका पानी देना न रहे । अिस दिन या असाढ़की अमावसके दिन — जैसी सहूलियत हो — कताअी दंगल रक्खा जाय, और अगर वह रक्खा जाय, तो यह दिन पूरी छुट्टीका गिना जाय । जब हवामें नमी होती है, तो अधिक अच्छी तरह काता जा सकता है ।

वारिशके दिनोंमें गोशालामें मच्छरोंका अुपद्रव बहुत होता है । अिसलिये रातको धुआँ करके जानवरोंकी रक्षा करना अिष्ट है ।

आचार्यदेवो भव

असाढ़ सुदी पूनो

मनु भगवान् ने कहा है, और हमारी भी यही श्रद्धा है कि सावित्री यानी विद्या हमारी माता है, और आप — आचार्य — हमारे पिता हैं । अज्ञान दशामें जन्मे हुअे हमको ज्ञानके संस्कार देकर आप ही ने हमें नया जन्म दिया । द्विज बनाया ।

आपकी आँखोंमें प्रेमका जादू है । आपके चित्तमें ज्ञानका कल्याण है । प्रभुका मंगल हृदय आपको प्राप्त हुआ है । अिसीसे तो आप अिस प्रकारकी निःस्वार्थ सेवा कर रहे हैं ।

मूर्तिकार जिस तरह प्रथम पत्थरमें मूर्तिको देखता है, और बादमें अुसमेंसे कुरेदकर मूर्तिको प्रकट करता है, अुसी तरह हे गुरुदेव ! शिष्यके प्राणोंकी सम्पूर्णताको आप देखते हैं, और अपने अदभुत कौशलसे अुसे विकसित करते हैं । जीवनकी सफलता हमें आप ही से प्राप्त होती है ।

स्वयं निष्काम होते हुअे भी हे शिष्य-वत्सल, आपने परमेश्वरसे याचना की : “ मेरा ज्ञान समृद्ध हो । मैं मोक्षविद्याका धारणकर्ता हो जाऊँ । मेरा शरीर नीरोगी और स्थिर रहे । मेरी जीभ अमृतस्रोती बने । मेरा अध्ययन बहुत बढ़े । मेरा ज्ञान हमेशा अखूट रहे । ”

आपकी एक और प्रार्थना भी है : “ पानी जिस तरह तालाबकी तरफ़ बहता है, महीने जिस प्रकार वर्षकी ओर मुड़ते हैं, अुसी तरह सब ब्रह्मचारी मेरे पास आ जायँ । अुनकी शंकाअें दूर हो जायँ, अुनका ज्ञान बढ़े । अुनकी वृत्ति संयमशील बने, और अैसे विद्यार्थियों द्वारा मेरी यह कीर्ति सर्वत्र फैले कि मेरे यहाँ ज्ञानकी प्याअू है । ”

अितनी वत्सलता हमें और कहाँ मिलेगी ? हम सिर्फ़ आप ही को पहचानते हैं । हम आपकी शरणमें हैं । आपकी आज्ञा ही हमारे लिये प्रमाण है ।

त्वं हि नः पिता यः अस्माकं अविद्यायाः परं पारं तारयसि ।

नमः परमअृषिभ्यः नमः परमअृषिभ्यः ।

तू ही हमारा पिता है, तू ही हमें अविद्याके अुस पार ले जाता है ।
परम अृषियोंको प्रणाम !

अक्टूबर, १९२४

गुरुपूर्णिमा

१ समय

गुरुपूर्णिमाका त्योहार ज़रूर मनाने योग्य है । लेकिन चाहे जिस व्यक्ति विशेषको अीश्वर मानकर अुसकी अंध-पूजा करनेमें गुरु या शिष्य किसीकी भी अुन्नति नहीं है । हिन्दूधर्ममें श्री वेदव्यासका स्थान असाधारण है । गुरुपूर्णिमाके दिन वेदव्यासका स्मरण करके अुनके कार्यको समझ लेना अुचित है ।

अीसा-मसीहके जीवन, कथन तथा मरणके विषयमें भी अिस दिन बहुत-कुछ कहा जा सकता है ।

सिक्ख धर्ममें बताया गये गुरुके रहस्य, और सिक्ख गुरुओंके तेजस्वी जीवन, आदिके बारेमें दत्तजयंतीके दिनकी तरह आज भी कहा जा सकता है । (देखिये “ दत्तजयंती ”) ।

अिस दिन विद्यार्थी-गण अपनी पाठशाला या आश्रमके लिये विशेष काम करें, सेवायें दें । हो सके तो अपनी संस्थाके लिये चन्दा अिकट्टा करें ।

नागपञ्चमी

सावन सुदी ५

नागपंचमीका अुत्सव बड़ी धूमधामके साथ मनाया जाता है । महाराष्ट्रमें लोग जंगलसे चिकनी मिट्टी लाते हैं । फिर जिस तरह रोटीके लिये आटा गूँधा जाता है, अुस तरह अुस मिट्टीको धुनी

हुआ रूकींके साथ गूँध कर उसे बड़े फनवाले नागका आकार देते हैं । उस नागकी पूँछका मरोड़ अितना खूबसूरत बनाते हैं कि देखते ही बनता है । अब नागके दो डरावनी आँखें तो चाहियें ही । असलिये उचित स्थानपर दो घुँघचियाँ (गुंजा) बिठा देते हैं । नागको अीश्वरने दो-दो जीभें दी हैं । यह पुरस्कार अगर कुदरतने मुतसद्दियों, वकीलों और अदालतमें गवाहका धंधा करनेवालोंको दिया होता, तो काफ़ी सहूलियत हो जाती । जब बेचारे नागको किसीसे बोलना ही नहीं होता है, तो फिर सच और झूठके लिये अलग अलग जिह्वायें लेकर वह क्या करेगा ? लेकिन प्रकृतिने उसे दाँहरी जीभ दी है, असलिये लोग भी दूबकि दो दल मिट्टीके नागके मुँहमें खांस देते हैं, और उसके सामने दूधका कटोरा रखकर उसकी पूजा करते हैं । तब तो वह दरअसल अेक कल्याणकर्ताके समान प्रतीत होने लगता है ।

लेकिन अस नागपंचमीके पीछे अितिहास क्या है ? हरअेक त्योहार या व्रतके पीछे उससे सम्बन्ध रखनेवाला अितिहास तं होता ही है । नागपंचमीके बारेमें अेक छोटीसी कहुण लाककथा तो है ही । लेकिन नागपूजा अितनी सार्वत्रिक हो गया थी कि उसके पीछे तो अेक बड़ा विशाल अितिहास है । महाभारतके आदिपर्वमें ही वह अप्रत्यक्ष रूपसे ग्रथित किया गया है ।

जिस तरह हमारे यहाँ यानी ब्राह्मणों और आर्योंमें गोत्र-प्रवर होते हैं, उसी तरह द्राविड़दि दूसरी क़ौमोंमें ' देवक ' होते थे । अंग्रेज़ीमें देवकका ' टोटैम ' कहते हैं । आज कितनी ही पहाड़ी जातियाँ और जंगली लोग अपने अपने देवकोंके नामसे पहचाने जाते हैं । नागका ' टोटैम ' या देवक रखनेवाली जाति नागलोकके नामसे पहचानी जाती थी । महाभारतकालमें आर्य और नागजातिके बीच युद्ध हुआ करते थे । अस नागजातिका तक्षक नामका राजा

था । उसने परीक्षित राजासे बैर भँजानेके लिये उसकी नगरीमें घुसकर उसका वध किया । फिर तो अिन दो जातियोंके बीच घातक युद्ध छिड़ गया, जिसे अन्तमें आस्तिक अृषिने बन्द कराया । अिस आस्तिकका पिता आर्य था और माता थी नागकन्या । अिस प्रकारके आन्तर्जातीय विवाहके बिना यह क्रौमी झगड़ा खत्म होनेवाला न था । ये नाग लोग बड़े शूर, कलारसिक, नगर-रचना-कुशल, और अितने विद्वान् थे कि पुरोहितका काम कर सकते थे । आर्य और नाग लोग अेक दूसरेके अितने निकट सहवासमें रह चुके थे कि अुनमें आन्तर्जातीय विवाह हो सके । अन्तमें नागजाति आर्योंमें मिल गयी और अुनके सन्तोषके लिये अुनका यह अेक त्यौहार आर्योंके त्यौहारोंमें नागपूजाके तौरपर शामिल किया गया ।

आर्योंने अपनी दूरदर्शितासे अेक आन्तर्जातीय विग्रह दूर किया, अिसके चिह्नके तौर पर अिस नागपंचमीकी तरफ़ हम देख सकते हैं ।

किसीके प्रति भीति हो, धाक हो या आदर हो, तो भोला प्राकृतिक मनुष्य उसकी पूजाके उपायको ही आजमाता है । यदि कोअी यह कहे कि आजकी यह नागपूजा सर्पोंके डरसे पैदा हुअी है, तो अुससे अिनकार नहीं किया जा सकता । लेकिन मालूम होता है, कि अन्तमें हिन्दू लोगोंने अुसे भी अहिंसाका रूप दे दिया है । चाहे जो हो, लेकिन हिन्दुस्तानकी संस्कृति परंपरासे आचारमें आये हुअे व्रतादिके कारण अखंडित रह सकी है । हिन्दूधर्मने बहुतसे अैसे जंगली रिवाजोंको अुन्नत (सब्लिमेट) बना लिया है ।

वि० सू०—अिस विषयपर मेरा 'अैतिहासिक कल्पनातरंग' लेख देख जाने योग्य है ।

नागपञ्चमी

सावन सुदी ५

१ दिन

मनुष्येतर सृष्टिके साथ समभाव, हिंस्र प्राणियोंके प्रति भी दयाभाव, और अहिंसाका अभयदान, ये तीन बातें हम अिस त्योहारसे ले सकते हैं। नागपंचमीके दिन झूला झूलनेकी प्रथा सार्वत्रिक है। बैर शान्त हो जाने पर जो आनन्द मनाया जाता है, उसका यह प्रतीक है। यह प्रथा जारी रखने योग्य है। नागपंचमीके दिन अलग-अलग क्रिस्मके खुले मैदानी खेलोंका कार्यक्रम भी रक्खा जा सकता है।

सभी साँप विषैले नहीं होते। बहुतसे साँप खेतोंमें रहकर खेतीको नुकसान पहुँचानेवाले चूहोंको खा जाते हैं। असलिये अुन्हें क्षेत्रपाल कहा जाता है। यह बात भी समझा दी जाय कि अुन्हें मारनेसे खेतीका नुकसान ही होता है।

श्रावण-सोमवार

दोपहरकी आधी छुट्टी

बहुतसे लोग श्रावण-सोमवारके दिन आधे दिनका अुपवास रखते हैं। असलिये यह छुट्टी देनेकी जरूरत पड़ती है। अिस दिन महिम्न आदि अनेक स्तोत्र कंठ करनेका कार्यक्रम रक्खा जा सकता है। प्रत्येक सोमवारकी अलग-अलग कहानियाँ हैं। अुनका संग्रह किया हो तो अच्छा।

श्रावण-पूर्णिमा

१ दिन

यह दिन रक्षा-बन्धनका है। जिस तरह भाभीदूज शुद्ध निष्काम प्रेमका दिन है, वैसा यह दिन नहीं है; यह तो निष्काम रीतिसे रक्ष्य-रक्षकका नाता जोड़नेका दिन है। जो लोग स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकते (या करना नहीं चाहते), वे जिन लोगों पर अुनका पूरा-पूरा भरोसा होता है, अुनसे रक्षाकी अपेक्षा

रखते हैं। इसका प्रतीक है, राखी। स्त्रियाँ, ब्राह्मण, (?) और गाय ये तीनों वर्ग रक्षाके अधिकारी माने जाते हैं।

राखीके दिन अपने हाथमें कोअी राखी बाँधे या न बाँधे, लेकिन रक्ष्य वर्गके हितका चिन्तन तो इस दिन करना ही चाहिये। विद्यार्थी अपने दिलबहलावके लिये पशु-पक्षियोंको और अपनेसे छोटोंको कअी बार यूँ ही सताते हैं। यदि वे राखीके दिन इस बुरी आदतको सुधारनेका विचार करें, तो अच्छा हो। लेकिन यह विचार केवल उस दिनके लिये ही नहीं होना चाहिये। समाजकी गलत धारणाओंके कारण, जड़ताके कारण या तिरस्कारके कारण हरिजन वर्ग कुछ कम नहीं सताया जाता है। रक्षा-बन्धनके दिन अगर हरिजन लोग अुच्च कही जानेवाली जातियोंके हाथमें राखी बाँधने लग जायँ, तो सहृदय हिन्दुओं पर अुसका बहुत भारी असर होगा। समाजमें इस रिवाजको दाखिल करनेमें स्कूलोंसे मदद मिल सकती है।

और यह प्रेम-तन्तु हाथके कते हुअे सूतका ही हो सकता है। बाज़ारू सूत प्रेमका वहन कैसे कर सकता है ?

श्रावणी पूर्णिमा द्विज लोगोंके अुत्सर्जन और अुपाकर्मका दिन बन गया है। यह तो वही मसल है कि “कुंडल गये और सूरारू रहे” ! वास्तवमें यह दिन विद्याध्ययनकी दीक्षाका दिन है। लेकिन आज केवल जनेअू बदलनेमें और सत्तू तथा पंचगव्यका भक्षण करनेमें ही इसकी परिसमाप्ति होती है। जनेअू पहननेवाले लोग वेदका अध्ययन नहीं करते, और जनेअू पहननेकी नयी प्रथा शुरू करनेवाले भी अध्ययनके बारेमें कोअी विशेष आस्था नहीं रखते। जनेअूके लिये या गरीबोंकी रक्षाके लिये अगर इस दिन काफ़ी सूत काता जाय, तो श्रावणी पूर्णिमामें कुछ जान आ जाये। श्रावणी पूर्णिमाके दिन दिनभर सूत कातकर अगर वह सूत गोरक्षाके लिये अर्पण किया जाय, तो यज्ञोपवीत और रक्षा-बन्धन दोनों चरितार्थ होंगे।

लोकनायक श्रीकृष्ण

कहते हैं कि जिसे किसीका आश्रय नहीं है, उसे महादेवके पास आश्रय मिलता है। अंधे, लूले, अपंग, और पागल ही नहीं, बल्कि भूत, प्रेत, विषधर सर्प आदि भी महादेवके पास आश्रय पा सकते हैं। विष्णुकी कीर्ति यद्यपि इस तरह नहीं गायी गयी है, फिर भी वे दीन-नाथ हैं। कृष्णावतार तो दीन-दुर्बलों और दुखियोंके लिये ही था। श्रीकृष्ण प्रजाकीय अवतार हैं। दाशरथी रामको हम राजा रामचन्द्र कहते हैं। श्रीकृष्णको राजा श्रीकृष्ण कहें, तो कानको कैसा अटपटा-सा लगता है ! श्रीकृष्ण यद्यपि बड़े-बड़े सम्राटोंके भी अधिपति थे, तथापि वे जनताके पुरुष थे।

बचपनमें अन्होंने ग्वालेका धंधा किया। बड़े हुअे तो सभिस बने। राजसूय यज्ञ-जैसे राजनीतिक अुत्सवोंमें अन्होंने अपने लिये जूठन अुठानेका काम पसन्द किया। कितने लोकनायक अितना निःस्पृह जीवन दिखा सकेंगे ? श्रीकृष्णने अिन्द्रके गर्वज्वरका नाश किया, ब्रह्माके ज्ञान-गर्वका शमन किया, धर्म-शास्त्रोंकी हँधी हुअी हवामें पले हुअे अृषियोंको अपना रहस्य फिरसे समझाया, नारदके मोहको नष्ट किया, फिर भी वे स्वयं अन्त तक गोपबन्धु ही रहे। गोपीजनवल्लभ नाम ही अन्हें पसन्द आया। आभूषणके स्वरूपमें अन्हें वनमाला ही भायी। सुदामाके तण्डुल, विदुरके घरके सागकी पत्ती और द्रौपदीकी सादी पहनाअीसे ही अुनके हृदयको सन्तोष मिला। कुब्जाकी सेवाका स्वीकार करनेमें ही अन्होंने कृतार्थता मानी। वह तो दीनोंके सहायक, 'दीनन दुखहरन देव सन्तन हितकारी' थे।

श्रीकृष्णने गीताका अुपदेश दिया। किसलिये ? क्या युधिष्ठिरको साम्राज्यपद देनेके लिये ? नहीं, नहीं ! यह आश्वासन देनेके लिये कि 'स्त्रियोवैश्यास्तथा शूद्राः' भी परम गति पा सकते हैं। यह विश्वास दिलानेके लिये कि 'अनन्य भक्तोंका योगक्षेम मैं स्वयं चलाता हूँ'। यह वचन देनेके लिये कि 'दुराचारी भी यदि पश्चात्ताप

करके आश्वर-भजन करे, तो वह मुक्त हो जायगा' । भक्त अगर अपना हृदय शुद्ध करे, तो उसे सभी प्रकारके पाण्डित्यसे - बुद्धियोगसे - परिपूर्ण करनेकी जिम्मेदारी ज़ाहिर करनेके लिये ।

और, इस गीतामें भगवान्ने कौनसे तत्त्वज्ञानका उपदेश दिया है ? भगवान् कहते हैं : " तुम ज्ञानी भले ही बनो; लेकिन तुम लोक-संग्रहको नहीं छोड़ सकते । जो सच्चे ज्ञानी हैं, वे तो ' सर्वभूतहिते रताः ' होते ही हैं । "

श्रीकृष्णने अवतार लेकर क्या किया ? 'कृत्रिम प्रतिष्ठाको तोड़ दिया । अभिमानी प्रतिष्ठित लोगोंको अपमानित किया और निष्पाप हृदयवाले दीनजनोंको श्रेष्ठ करके दिखाया । धर्मको पाण्डित्यके जालसे बचाकर, भक्तिके शुभ आसन पर बैठा दिया । राजा अिन्द्रके गर्वका हरण करके, और उसका करभार बन्द कराके, प्रजामें गोवर्धनरूपी देशपूजा शुरू की । राजाओंको विनम्र बनाया, और लोगोंको उन्नत किया । और अितना सब करने पर भी स्वयं लोगोंके नेता तक नहीं बने ।

अेक बार - केवल अेक ही बार - लोगोंकी श्रीकृष्णके अूपरकी श्रद्धा डगमगायी थी । लोगोंने समझा कि देशमें श्रीकृष्ण हैं, अिसीलिये जरासंध बार-बार हमारे अूपर धावा बोलता रहता है । श्रीकृष्णने लोकमतका मान रखकर मध्यदेशका त्याग किया और समुद्रवलयंकित द्वारिकामें जाकर निवास किया । अिसमें लोगों पर रोष नहीं था । अुस समय आयोनियन (यवन - ग्रीक) लोग हिन्दुस्तान पर हमला करनेकी तैयारीमें थे । अुनका विरोध करनेके लिये, अुनके हमलेको रोकनेके लिये, पश्चिमी किनारे पर अेक ज़बर्दस्त फ़ौजी अड्डा कायम करनेसे ही देशकी और लोगोंकी रक्षा हो सकती थी । श्रीकृष्णने द्वारावती (गेट ऑव् इंडिया)में जाकर हिंदुस्तानके अिस द्वारकी रक्षा की और आर्यावर्तको सुरक्षितता दी । अैसे दीन-नाथके सदियोंसे मनाये जानेवाले जन्म-दिवसका अिन लोकसत्ताके दिनोमें दुगुना महत्त्व है ।

जन्माष्टमीका अुत्सव

देशकी राजनीतिक स्थितिके बारेमें अेक वृद्ध साधुके साथ अेक बार मेरी बातचीत हुआ थी । बातचीतके सिलसिलेमें मैंने राजनिष्ठाके बारेमें कुछ कहा । साधु महाराज अेकदम बोल अुठे : “अजी, हिन्दुस्तानमें तो दो ही राजा हुअे हैं । मर्यादा-पुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्र और जगद्-गुरु श्रीकृष्ण । आज भी अिन दोनोंका ही हम लोगोंपर राज्य चल रहा है । राजनिष्ठा तो अुन्हींके प्रति हो सकती है । ज़मीनपर या पैसेपर राज्य करनेवाले चाहे जो हों, लेकिन हिन्दुओंके हृदयोंपर राज्य चलानेवाले तो ये दो ही हैं ।” मुझे यह बात बिलकुल सही मालूम हुआ । भजन पूरा करके “राजा रामचन्द्रकी जय” या “कृष्णचन्द्रकी जय” पुकारकर लोग जब जय-जयकार करते हैं, अुस समय जिस तरहकी भक्तिका अुद्रेक दीख पड़ता है, अुस तरहकी भक्ति दूसरे किसी भी मानवी व्यक्तिके प्रति पैदा नहीं होती ।

श्रीरामचन्द्रजीका जीवन जितना अुदात्त है, अुतना ही सुगम भी है । रामचन्द्र, आर्य पुरुषोंके आदर्श पुरुष—पुरुषोत्तम हैं । समाजके नीति-नियमोंका, रस्म-रिवाजोंका, वह परिपूर्ण पालन करते हैं । अितना ही नहीं, बल्कि रामचन्द्रजी लोकमतको अितना मान देते हैं कि जो किसी भी प्रजासत्ताक राज्यके राष्ट्राध्यक्षके लिये आदर्शरूप हो सकता है । रामचन्द्रजीमें यह निश्चय दृढ़ है कि ‘मेरा अशेष जीवन समाजके लिये है’ ।

श्रीकृष्ण भी पुरुषोत्तम हैं; लेकिन अलग युगके । श्रीकृष्णमें यह वृत्ति दिखायी देती है, कि जब समाज-संगठन स्वयं ही आत्मिक अुन्नतिमें बाधक होता है, तब अुसके बंधन तोड़ दिये जायें और नवीन नियम बनाये जायें । फिर भी श्रीकृष्ण अराजक वृत्तिके नहीं थे । लोकसंग्रहका महत्त्व वे अच्छी तरह जानते थे । श्रीकृष्णने

धर्मको अेक नया ही रूप दिया । और अिसीलिये श्रीकृष्णके जीवनका हरअेक प्रसंग रहस्यमय बना है । कोअी व्याकरणकार जिस तरह अेक बड़ा सर्वव्यापी नियम बनानेके बाद अुसके अपवादोंको अेक सूत्रमें ग्रथित करता है, अुसी तरह श्रीकृष्णने मानो अपने जीवनमें मानवधर्मके सभी अपवाद सूत्रबद्ध किये हैं । गोपियोंसे अत्यन्त शुद्ध, पवित्र किन्तु मर्यादा-रहित प्रेम; रिश्तेमें मामा होते हुअे भी दुराचारी राजाका वध, भक्तकी प्रतिज्ञाको सच्चा साबित करनेके लिये अपनी प्रतिज्ञाका भंग करके भी युद्धमें शस्त्र-ग्रहण, आदि सब प्रसंगोंमें 'तत्त्वकी रक्षाके लिये नियमभंग'के दृष्टांत हैं । श्रीकृष्णने आर्य-जनताको अधिक अन्तर्मुख और अधिक आत्मपरायण बनाया और अपने जीवन और अुपदेशसे यह सिद्ध करके दिखाया कि भोग और त्याग, गृहस्थाश्रम और संन्यास, प्रवृत्ति और निवृत्ति, ज्ञान और कर्म, अिहलोक और परलोक आदि सब द्वन्द्वोंका विरोध केवल आभास रूप है । सबोंमें अेक ही तत्त्व अनुस्यूत है । आर्य-जीवनपर सबसे अधिक प्रभाव तो श्रीकृष्णका ही है । फिर भी यह निश्चित करना मुश्किल है कि अिस प्रभावका स्वरूप क्या है । जिस प्रकार सरल भाषामें लिखी हुअी भगवद्गीताके अनेक अर्थ किये गये हैं, अुसी प्रकार कृष्ण-जीवनके रहस्यका भी विविध प्रकारसे वर्णन किया गया है । जिस तरह वाल्मीकि-रामायणके श्रीरामचन्द्रजी और तुलसीरामायणके श्रीरामचन्द्रजीके बीच महदन्तर है, अुसी तरह महाभारतके श्रीकृष्ण, भागवतके श्रीकृष्ण, गीत-गोविन्दके श्रीकृष्ण, चैतन्यमहाप्रभुके श्रीकृष्ण और तुकाराम महाराजके श्रीकृष्ण अेक होते हुअे भी भिन्न हैं । वर्तमानकालमें भी नवीनचन्द्र सेनके श्रीकृष्ण, बाबू बंकिमचन्द्रके श्रीकृष्णसे अलग हैं; गांधीजीके श्रीकृष्ण, तिलकजीके श्रीकृष्णसे भिन्न हैं; और बाबू अरविन्द घोषके श्रीकृष्ण तो सबसे न्यारे हैं । सुलभ और दुर्लभ, अेक और अनेक, रसिक और विरागी, विप्लवी और लोकसंग्राहक,

प्रेमल और निष्ठुर, मायावी और सरल — ऐसे अनेक प्रकारके श्रीकृष्णकी जयन्ती किस तरह मनायी जाय, यह निश्चित करना महा कठिन काम है ।

श्रीकृष्णका चरित्र अतना ही व्यापक है जितना कि कोओी संपूर्ण जीवन हुआ करता है । दुनियाकी प्रत्येक स्थितिका श्रीकृष्णने अनुभव किया है । हरअेक स्थितिके लिये अुन्होंने आदर्श अुपस्थित किया है । श्रीकृष्णकी बाल्यावस्था अतिशय रम्य है । गायों और बछड़ों पर अुनका प्रेम, वनमालाओंके प्रति अुनकी रुचि, मुरलीका मोह, बालमित्रोंसे अुनका स्नेह, मल्लविद्याकी ओर अुनका अनुराग, सभी कुछ अद्भुत और अनुकरणीय है । छोटे लड़के ज़रूर अिन बातोंका अनुकरण करें । सुदामाके स्नेहको याद करके जन्माष्टमीके दिन हम अपने दूर रहनेवाले मित्रोंको चार दिन अेक साथ रहनेके लिये, श्रीकृष्णका गुणगान करके खेलनेके लिये बुला लें, तो बहुत ही अुचित होगा ।

श्रीकृष्णके मनमें छोटा या बड़ा, अमीर या गरीब, ज्ञानी या अज्ञानी, सुरूप या कुरूप, किसी भी प्रकारका भेद न था । गौओंको चराने जाते समय श्रीकृष्ण अपने सभी साथियोंसे कहते कि हरअेक बालक घरसे अपना-अपना कलेवा ले आये । फिर वे सबका कलेवा अेक साथ मिलाकर प्रेमसे सबके साथ वन-भोजन करते थे । आज भी हम अेक स्कूलके विद्यार्थी, अेक दफ्तरके कर्मचारी, अेक मिलके मज़दूर, अेक क्लबमें खेलनेवाले सदस्य अिकट्ठा होकर, अपने-अपने घरसे खानेका सामान लाकर, शहर या गाँवके बाहर किसी कुअेंपर या नदीके किनारे, पेड़के नीचे गपशप करते, गाते, खेलते या भजन करते हुअे दिन बितायें, तो अुसमें कैसी नयी-नयी खूबियाँ प्रगट होंगी ! लेकिन अिस वन-भोजनमें लड्डू, पकौड़ी या चिवड़ा-चबैना नहीं चलेगा । कृष्णाष्टमीके दिन मुख्य आहार तो गोरसका ही होना चाहिये । दूध, दही, मक्खन और कन्द-मूल-फलका

आहार ही अिस दिनके लिये अुचित है । धर्म-संशोधक जगद्गुरुका जिस दिन जन्म हुआ, अुस दिन तो लड़के अिस प्रकारका सात्त्विक आहार ही करें । बड़ी अुम्रके लोग अुपवास रक्खें ।

अुपवासकी प्राचीन प्रथा नहीं छोड़नी चाहिये । अुसमें काफ़ी गहरा रहस्य है । अुपवाससे मन अन्तर्मुख हो जाता है । दृष्टि निर्मल होती है । शरीर हलका रहता है । बहुतोंका यह अनुभव है कि समय-समय पर अुपवास करनेकी आदत हो, तो अुपवासके दिन मन अधिक प्रसन्न रहता है । अुपवाससे वासना शुद्ध होती है, संकल्प-शक्ति बढ़ती है । शरीरमें दोष न हो, तो अुपवास करनेसे चित्त अेकाग्र होता है, और धर्मके गहरे-से-गहरे तत्त्व स्पष्ट होते जाते हैं । अगर बुद्धियोग हो, तो अुपवास करके धर्मतत्त्वका चिंतन किया जाय; और जिसमें अितनी शक्ति न हो, वह श्रद्धावान लोगोंके साथ धर्मचर्चा करे । यह भी न हो सके, तो गीताका पारायण [पाठ] किया जाय; नामसंकीर्तन, भजन आदि किया जाय; सात्त्विक संगीतके साथ भजन गाये जायँ । अुपवासके दिन रोजमर्राके व्यावहारिक काम जहाँ तक हो सके, कम किये जायँ; लेकिन खाली समय आलस, निद्रा या व्यसनमें न बिताया जाय । बहुत वार हमें सुन्दर-सुन्दर धार्मिक वचन, भजन या पद मिल जाते हैं; लेकिन अुन्हें लिख रखनेके लिये समय नहीं मिलता ! अिस दिन अुनको लिखनेमें समय बिताया जाय, तो अच्छा होगा ।

जिनमें सार्वजनिक कार्य करनेकी शक्ति हो, अुनके लिये अिससे अच्छा और क्या हो सकता है कि वे गोपालके जन्मोत्सवके दिनसे गोरक्षाका आन्दोलन शुरू करें ? श्रीकृष्णके साथियोंको जितना दूध और घी मिलता था, अुतना दूध और घी जबतक हमारे बच्चोंको नहीं मिलता, तबतक यह नहीं कहा जा सकता कि हमने श्रीकृष्ण-जन्मोत्सव ठीक-ठीक मनाया है । श्रीकृष्ण अप्रतिम मत्त थे, गृहस्थाश्रममें रहकर ब्रह्मचर्यका पालन करते थे ।

वे दीर्घायु थे। इसलिये हरअेक अखाड़ेमें जन्मोत्सव मनाया जाना चाहिये और श्रीकृष्णके जीवनके इस भूले हुअे अंगकी याद फिरसे ताज़ी करनी चाहिये।

जो पांडित्यमें ही जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, उनके लिये सबसे अच्छा काम यह हो सकता है कि जिस तरह गीतामें श्रीकृष्णने अर्जुनको उपदेश दिया है, अुसी तरह अुनके भिन्न-भिन्न अवसर पर कहे हुअे तमाम वचन महाभारत तथा भागवत, विष्णुपुराण और हरिवंशमेंसे जितने मिल सकें, उतने सब संग्रहीत करें। और उसके बाद अिन वचनोंका संदर्भ देखकर, श्रीकृष्ण-चरित्रके अनुसार गीताजीका अर्थ लगायें। और इस महान् जगद्गुरुका तत्त्वज्ञान (फिलॉसफ़ी ऑव् लाइफ़) क्या था, अुसकी राजनीति कैसी थी, आदि बातें निश्चित करके लोगोंके सामने रखें।

*

*

*

यह बहुत नाजुक सवाल है कि जन्माष्टर्माका दिन अ्वियाँ किस तरह मनायें। भक्तिके अतिरेकके स्वरूपका नारदने अपने भक्तिसूत्रमें वर्णन किया है। अुस परसे मनोवृत्तियोंको गोपी समझकर परब्रह्म पुरुष पर वे कितनी मुग्ध थीं, इसका वर्णन कअी कवियोंने अितना ज्यादा किया है कि श्रीकृष्णके जीवनके परिपूर्ण रहस्यको जनता लगभग भूल ही गयी है। श्रीकृष्णको गोपीजनवल्लभ कहा गया है। श्रीकृष्ण और गोपियोंके बीचका प्रेम कितना विशुद्ध और आध्यात्मिक बन गया था, इसकी कल्पना जिन हृदयोंको नहीं आ सकी, अुन्होंने या तो श्रीकृष्णको नीचे घसीट लिया है, अथवा अुस प्रेमका वर्णन करनेवाले कवियोंको हलकी वृत्तिका और असत्यवादी ठहराया है। मेरा कहना यह नहीं है कि कृष्ण और गोपियोंके बीचके प्रेमका वर्णन करनेमें कवियोंने भूल नहीं की है। मैं तो यही मानता हूँ कि समाजकी स्थितिको देखकर कवियोंके

लिये अधिक सावधानीके साथ अुस प्रेमका वर्णन करना अुचित था । मुसलमानी धर्मके सूफी सम्प्रदायके मस्त कवियों और फ़क़ीरोंको सज़ा देते समय कडर मुसलमान बादशाह कहते थे कि ये साधु जो कहते हैं, वह ग़लत नहीं है; लेकिन अनधिकारी समाजके सामने अिस तरहकी रहस्यमय बातें रखकर ये समाजको नुक़सान पहुँचाते हैं, और अिसीलिये ये सज़ाके पात्र हैं । चूँकि गोपियोंके प्रेमको हम नहीं समझ सकते, अिसलिये अुस प्रेमको अैसा स्वरूप देनेकी कोअी आवश्यकता नहीं, जो हमारी वर्तमान नीति-कल्पनाओंको पसन्द आये । मीराबाअीने स्पष्ट ही दिखाया है कि गोपियोंका प्रेम कैसा था । जब-जब लोगोंके मनसे धर्मके अूपरकी श्रद्धा अुठ जाती है, तब-तब अुस श्रद्धाको फिरसे स्थिर करनेके लिये मुक्त पुरुष अिस संसारमें अवतार लेते हैं, और स्वयं अपने अनुभवसे और जीवनसे लोगोंमें धर्मके प्रति श्रद्धा पैदा करते हैं । अुसी तरह गोपियोंकी शुद्ध भक्तिके बारेमें जब लोगोंमें अश्रद्धा अुत्पन्न हुअी, तब गोपियोंमेंसे अेकने — शायद राधाजी ही होंगी — मीराका अवतार लेकर प्रेमधर्मकी फिरसे संस्थापना की । यदि हम अीश्वर और भक्तके बीचका यह अनिर्वचनीय प्रेम-सम्बन्ध स्पष्ट कर सकें, तब तो गोपियोंके प्रेम और विरहके गीत गानेमें मुझे कोअी आपत्ति नहीं दिखाअी देती । मीराके आदर्शका त्याग हमसे हो ही नहीं सकता । ज़माना बुरा आ गया है, अिसलिये क्या हम मीराबाअीको भूल जायें ? यह बात नहीं है कि श्रीकृष्णके साथ केवल गोपियोंका ही सम्बन्ध था । यशोदाजी बालकृष्णको पूजतीं, कुन्ती पार्थसाथीको पूजतीं, सुभद्रा और द्रौपदी कृष्णको बन्धुरूपमें पूजतीं । श्रीकृष्णका यह सम्पूर्ण जीवन हमें अपनी स्त्रियोंके सामने रखना चाहिये । श्रीकृष्ण कितने संयमी थे, कितने नीतिज्ञ थे, कितने धर्मनिष्ठ थे, आदि सभी बातें स्त्रियोंके सामने स्पष्ट कर देनी चाहियें । और तमी गोपी-प्रेमका आदर्श अुनके सामने रखना चाहिये । प्रेम और

मोहके बीच जो स्वर्ग और नरकके जितना भेद है, उसे स्पष्ट करके दिखाना चाहिये । पुराणोंमें — भागवतमें — अेक बहुत सुन्दर प्रसंगका वर्णन आया है कि रासलीलामें गोपियोंके मनमें मलिन कल्पना आते ही श्रीकृष्ण — असंख्य रूपधारी श्रीकृष्ण — अचानक अदृश्य हो गये और जब गोपियोंका मन पश्चात्तापसे पवित्र हुआ, तभी वे फिरसे प्रकट हुअे । अिसका रहस्य हरअेकको समझ लेना चाहिये । अिस रहस्यको किसी भी व्यक्तिसे छिपा रखनेमें कुशल नहीं । अधूरे ज्ञानसे क्षुत्पन्न होनेवाले दोषोंको हटानेका अुपाय सम्पूर्ण ज्ञान है; अज्ञान नहीं । प्रेमको अुसके विशुद्ध रास्तेसे हमें ले जाना चाहिये । प्रेम दबानेसे नहीं दबता; बल्कि दबानेके प्रयत्नमें वह विकृत हो जाता है ।

जन्माष्टमीके दिन हम सुदामा-चरित्र गायें, श्रीकृष्णजी द्वारा गोपियोंको दिया हुआ अुपदेश गायें, अुद्धवके हाथ श्रीकृष्णजीका गोपियोंको भेजा हुआ सन्देशा गायें, गीताका रहस्य समझ लें, रास खेलें और अुपवास रखकर शुद्ध वृत्तिसे अुसके अन्दरका रहस्य समझ लें ।

जन्माष्टमीके दिन अगर हम गायकी पूजा करें, तो वह ठीक ही है । गायकी पूजा करनेमें हम पशुको परमेश्वर नहीं मानते, किन्तु अुस पूजा द्वारा गायके प्रति प्रेम और कृतज्ञता व्यवत करते हैं । नदीकी पूजा, तुलसीकी पूजा और गायकी पूजा अगर अच्छी तरह सोच-समझकर हम करें, तो अुससे अन्तःकरणको अच्छी-से-अच्छी शिक्षा मिलेगी, रस-वृत्तिका विकास होगा और हृदय पवित्र तथा संस्कारी बनेगा । प्रत्येक पूजामें अेक-सा ही भाव नहीं रहता । पूजा कृतज्ञतासे हो सकती है, वफ़ादारीके कारण हो सकती है, प्रेमके कारण हो सकती है, आदरबुद्धिसे हो सकती है, भक्तिसे हो सकती है, आत्मनिवेदन-वृत्तिसे हो सकती है या स्वस्वरूपानुसंधानके कारण भी हो सकती है । अिस तरह देखा जाय तो गायकी पूजा करनेमें अेकेश्वरवादी या अनीश्वरवादीको भी कोअी आपत्ति नहीं होनी चाहिये । निरीश्वरवादी अॉगस्टस काण्ट षया

मानवजातिकी स्त्री प्रतिमा बनाकर उसकी पूजा नहीं करता था ?

श्रावण महीनेमें बहुत-सी गायें ब्याती हैं । घरकी छोटी छोटी लड़कियाँ अगर कृतज्ञताके साथ गायोंकी और अधर-अधर उछलने-कूदने व चरनेवाले छोटे-छोटे बछड़ोंकी हल्दी और रोलीसे पूजा करें, तो कितनी प्रेम-वृत्ति जाग्रत होगी !

कन्याशालाओंमें अनेक तरहसे कृष्ण-जयन्ती मनायी जा सकेगी । घरके अन्दरकी ज़मीन अच्छी तरह लीपकर सफ़ेद पत्थरकी बुकनीसे और अबीर आदिसे चौक पूरनेकी प्रतियोगिता रखी जा सकेगी । लड़कियाँ गीत गायें, रास खेलें, कृष्ण-जीवनके भिन्न-भिन्न प्रसंगोंका गद्य और पद्यमें वर्णन करें, घरसे कलेवा लाकर सब मिलाकर खायें । उस दिन स्कूलकी लड़कियोंको अपनी सहेलियोंको भी साथ ले आनेकी अिजाज़त हो, तो अधिक आनन्द आयेगा और अधिक लड़कियाँ शिक्षाकी ओर आकर्षित होंगी । धार्मिक शिक्षाको यदि प्रभावकारी बनाना है, तो हर त्योहारके अवसर पर स्कूलको मन्दिरका स्वरूप दे देना चाहिये । यदि हम मूर्ति-पूजासे न डर गये हों, तो जन्माष्टमीके दिन स्कूलमें हिंडोला बँधवाकर लोरियाँ गायें । इसमें लड़कियोंकी माताओं भी अवश्य भाग लेंगी ।

आजकी कन्याशालाओं अभी तक समाजका अेक अंग नहीं बनी हैं, अुन्होंने समाजमें अभी तक जड़ नहीं पकड़ी है, और इसीलिये अिन स्कूलोंको चलानेवाले अुत्साही देशसेवकोंका आधेसे ज़्यादा परिश्रम बेकार जाता है । जन्माष्टमी जैसे त्योहार मनानेमें यदि समाजकी सभी स्त्रियाँ भाग लेने लग जायें, तो देखते-देखते शिक्षा सफल हो जायगी; शिक्षाका लाभ केवल स्कूलमें पढ़नेवाली लड़कियोंको ही नहीं, बल्कि सारे समाजको मिलेगा, और हम शिक्षाका जो पवित्र कार्य कर रहे हैं, उसपर भी श्रीकृष्ण परमात्माकी अमृत-दृष्टि बरसेगी ।

प्रतीक्षा

जन्माष्टमी जैसे अुत्सव हम वर्षानुवर्ष क्यों मनाते हैं ? असलमें जिस दिन हमारे हृदयमें श्रीकृष्णका अुदय होगा, अुसी दिन हमारी सच्ची जन्माष्टमी होगी, तबतक अिस प्रकारकी रस्मी जन्माष्टमियाँ व्यर्थ ही हैं । पर यह कौन कह सकता है कि हमारे हृदयमें कृष्ण-जन्म कब होगा ? अिसीलिये शबरीकी तरह हमें अुसकी अखंड प्रतीक्षामें, अुसकी अुत्कंठामें रहना चाहिये । यह भी अुतना ही सही है कि अिस प्रकारकी प्रतीक्षाके बिना हमारे हृदयमें कभी कृष्ण-जन्म नहीं होगा ।

चोरोंके डरसे हम जो चौकी देते हैं, वह भी सारी रात देनी पड़ती है । चोर कहीं कहकर थोड़े ही आते हैं ? वे तो चाहे जिस वक्रत आ सकते हैं । सरहद पर शत्रुके हमलेके विरोधमें अखंड पहरा देना पड़ता है । बरसों तक यह पहरा अुसी तरह देना पड़े तो भी क्या ? सरहद पर गाफ़िल रहनेसे नहीं चलेगा । दरियाके तूफ़ानमें जहाज़के टूट जाने पर जान बचानेके लिये कागकी बण्डियाँ (कॉर्क जैकेट) पहनकर लोग दरियामें कूदते हैं । अिस डरसे कि अैन संकटके समय पर घबराहट और दुःखमें कुछ सूझ न पड़ेगा, मल्लाहोंसे समय-समय पर अुसकी क़वायद करायी जाती है, जिससे अैन मौक़े पर भूल न होने पाये । गुजरातके मशहूर लोक-कथा लेखक श्री मेघाणीने अेक लुटेरेकी कहानी दी है । न जाने घरमें कब मेहमान आयेंगे, और अगर आतिथ्यमें भूल हुअी, तो सत्त्व चला जायगा, अिस ख़यालसे चाहे जहाँसे धन लाकर वह लुटेरा हर वक़्त गरम-गरम रसोअी तैयार रखता था । गोपीचन्दकी मौँ मैनावती भी ' गोसाअी महाराज कब आ जायें, अिसका कोअी ठीक-ठिकाना नहीं, ' अिसलिये गरम-गरम रसोअी हाथमें लेकर सबेरेसे शाम तक खड़ी ही रहती थीं । ग़फ़लत हुअी

और अुसी समय स्वामी महाराज आ जायँ तो ? अृषियोंने शबरीसे कह रखा था कि श्रीरामचन्द्र आकर तुझे दर्शन देंगे और तेरा अुद्धार करेंगे । वचपनसे लेकर बुढ़ापे तक सारा जीवन अुसने श्रीरामकी प्रतीकषामें बिताया । अुसे विश्वास था कि अृषियोंके शब्द व्यर्थ नहीं जायँगे । शरीर थका हुआ था, फिर भी राम-दर्शनकी आशासे वह टिकी रही । अन्तमें अुसने रामके दर्शन किये, रामका स्वागत भी किया; फिर अधिक जीनेमें अुसे कुछ सार दीख न पड़ा । पूरी अेक ज़िन्दगी अुसने अिन्तज़ारीमें बितायी ।

दर्शनके आनन्दकी अपेक्षा यह प्रतीकषाकी कृतार्थता कुछ विशेष है । प्राप्तिकी अपेक्षा प्रतीकषामें जीवनका रस अधिक है । श्रद्धा, आकांक्षा, तपस्या, आशा-निराशा यही जीवनकी दुर्लभ पूँजी है ।

यह दुर्लभ पूँजी पानेके लिये अिस प्रकारके नियतकालिक अुत्सवोंकी आवश्यकता है ।

दुनियामें सर्वत्र राक्षस फैले हुअे हैं; गरीबोंका कोअी त्राता नहीं रहा है; अनेकरूप धारण करके राक्षस प्रजाको सताते हैं, ठगते हैं, पापके मार्गकी ओर लोगोंको ललचाते हैं और गढ़में ढकेल देते हैं; मनुष्यकी शक्ति, मनुष्यकी बुद्धि सब खर्च हो गयी है; लोग निराश और नास्तिक होने लगे हैं । अैसे समय मंगल-हृदयने करुणामयसे प्रार्थना की कि 'अब तारनहार तू ही है ।' अन्तर्यामी जाग्रत हुआ और युगावतार प्रकट हुआ । यह सब श्रद्धापूर्वक मनमें लाकर हम अेकाग्र होनेका जो प्रयत्न करते हैं, अुसका नाम है जयन्तीका अुत्सव । धरतीकी प्यासके कारण जिस तरह आकाशके मेघ पनहाते हैं, अुसी तरह अैसी व्याकुलता और प्रतीकषाके साथ अवतारी पुरुषका प्राकट्य होता ही है । अुसे हृदयमें स्थान देनेके लिये हम अपने हृदयका परिष्कार करें; हृदयको माँजकर साफ़ करें, वहाँ स्वागतका शुद्ध आसन तैयार रखें और अुसकी राह देखते रहें — अिसीलिये ये अुत्सव हैं । पानी और बरफ़ जैसे

भिन्न नहीं हैं, पानी और भापमें जैसे तात्त्विक भेद नहीं है, वैसे ही इस प्रतीकषा और प्राप्तिके भेद नहीं है। भेद है भी तो केवल मात्राका। दिन-दिन यह अत्कटता बढ़े और बढ़ती रहे, असीलिये इस प्रकारके अत्सवोंका आयोजन है।

दिव्य जन्मकर्म

हम सुखमें हों या दुःखमें, जागते हों या सोते, स्वतंत्र हों या परतंत्र, ज्ञालिम हों या मज्जलूम, संगठित हों या असंगठित, जन्माष्टमी तो हर साल आयेगी ही। सूरज अुगता है और डूबता है, चन्द्रकी वृद्धि होती है और कषय होता है, नदीका पानी बहता चला जाता है, अृतुचक्र घूमता ही रहता है, ग्रहण होते हैं और छूटते हैं, कालप्रवाह बहता जाता है। अुसी तरह जन्माष्टमी नामस्मरण कराती आती है और नामस्मरण कराती चली जाती है। जब हम स्वतंत्र थे तब भी जन्माष्टमी आती थी, हमारा पतन होने लगा तब भी जन्माष्टमी आती रही; अब फिरसे हम अुठनेका प्रयत्न कर रहे हैं तब भी जन्माष्टमी आयी ही है। आप अुसका अुपदेश सुनें या न सुनें, वह तो आयेगी और जायेगी। जिसका ध्यान जाग्रत होगा वह अुसका अुपदेश सुनेगा और धन्य होगा।

जन्माष्टमी पुरातन है, सनातन है, नित्य-नूतन है; क्योंकि वह सम्पूर्ण है। जन्माष्टमी कृष्णावतारका त्योहार है। कृष्णचरित्र अद्भुत, विविध और सम्पूर्ण है; कपीरसागरके समान है। जिसके पास अजितनी शक्ति होगी, अुतना अुसमें वह अवगाहन कर सकता है। फिर भी कोअी यह नहीं कह सकता कि मैंने श्रीकृष्णके चरित्रका पार पा लिया है।

श्रीकृष्णका जन्म कारावासमें हुआ । माता-पिताके वियोगमें अन्हें बचपन बिताना पड़ा । पुराणकारोंने हमें ऐसा चित्र दिया है कि श्रीकृष्ण गोपियोंके साथ विविध प्रकारकी लीलाओं करनेमें मशगूल थे । लेकिन वे यह बात नहीं भूले थे कि अुनके माता-पिता परराज्यमें बन्दी हैं । श्रीकृष्णने अपना सारा बचपन गोपियोंके बीच बैठकर वंशी बजानेमें नहीं बिताया था । व्यायाम करके मल्ल-विद्यामें वे प्रवीण हो गये थे । दुष्टोंका दमन करनेके अनेक वस्तुपाठ अुन्होंने बचपनसे ही सीख रक्खे थे । मथुराकी राजनीतिसे वे परिचित रहा करते थे । अनुकूल समय देखकर अुन्होंने कंसका कौटा निकाला, माता-पिताको छुड़ा लिया और अुसके बाद ही गुरुजीके पास पढ़ने गये ।

अुन्होंने वही विद्या सबसे पहले सीखी जिससे अुनकी माताकी मुक्ति होनेवाली थी, पिताकी मुक्ति होनेवाली थी । अुसके बाद आत्माकी भूखको शान्त करनेके लिये, ज्ञानकी प्यास बुझानेके लिये, और विद्याका आनन्द लूटनेके लिये वे सान्दीपनिके विद्यापीठमें अुज्जयिनी गये । 'प्रथम माता-पिताकी मुक्ति, बादमें विद्या' — यही श्रीकृष्णका जीवन-मंत्र था । अिस बातका अुन्हें कभी पश्चात्ताप नहीं हुआ कि माता-पिताकी मुक्तिके पीछे — स्वदेशकी मुक्तिके पीछे — अुन्हें अपने यौवनके दिन लगाने पड़े । कर्तव्य-पालनकी लगनसे श्रीकृष्णकी बुद्धि अितनी तीव्र हो गयी थी कि गुरुके पास विद्या सीखते अुन्हें काल या श्रम लगे ही नहीं । माता-पिताको छुड़ाया, विद्या पूरी की, गुरुको दक्षिणा दे दी और तभी जाकर श्रीकृष्णने विवाह किया; और विवाहके बाद सारा जीवन निरासक्त वृत्तिसे परोपकार करनेमें लगाया । जिस समय और सब लोग अपने-अपने राज्यका और अपने ही अुत्कर्षका विचार करते थे अुस समय श्राकृष्ण सारे भारतवर्षकी राजनीतिका और धर्म-संस्थापनाका विचार करते थे ।

श्रीकृष्ण ऐसा नहीं समझते थे कि लोक-संग्रहके मानी लोक-संख्या (जन-संख्या)का संग्रह है । और अिसीलिये अुन्होंने

भयानक मानवसंहारको देखते हुअे भी धर्म पर ही डटे रहनेकी हिम्मत दिखायी, और यद्यपि वे स्वयं अप्रतिम मत्ल थे, और देशमें अितना प्रचंड राष्ट्रवषयकारी युद्ध मचा हुआ था, तो भी वे निःशस्त्र और अयुद्धयमान रह सके। जब दुर्योधन और अर्जुन दोनों अेक साथ श्रीकृष्णकी मदद माँगने गये तब अुन्होंने अुन दोनों राजपुत्रोंके सामने जो पसन्दगी रखी वह अर्थपूर्ण है — या तो निःशस्त्र श्रीकृष्णको पसन्द करो या यादव-सेनाको। दोनोंने अपनी-अपनी अिच्छाके अनुसार चुनाव किया; और अुसका परिणाम हम देख सकते हैं।

*

*

*

भारतीय युद्ध महान् था, लेकिन कृष्ण-चरित्र तो अुससे भी महत्तर है। महोभारतमें गौरीशंकर और धवलगिरि जैसे दो प्रचंड शिखर जगमगाते हैं। अिन दो शिखरोंकी तुलनामें बाक्री सभी अुत्तुंग शिखर छोटे-से टीलोंके समान दिखायी देते हैं। ये दो शिखर हैं भीष्म और कृष्ण। अुस महान् युद्धमें 'कर्तुम् अकर्तुम्' और 'अन्यथाकर्तुम्' शक्ति अिन दोमें ही थी। दोनों अेकसे ही अनासक्त, अेकसे ही धर्मनिष्ठ, अेकसे ही परोपकारी और अेकसे ही योगी थे। फिर भी दोनोंमें कितना अंतर ! दोनोंका समाज-शास्त्र अलग, दोनोंका राजनीतिक तत्त्वज्ञान अलग और दोनोंका जीवन-पथ भी अलग। भीष्मका विचार था, "प्रचलित राज्य-प्रबन्धकी रक्षा करते हुअे, अुसीके द्वारा, जितना कुछ बन सके अुतना, लोक-कल्याण करना और वर्त्तमानकालसे वफ़ादार रहना"; जब कि श्रीकृष्ण अन्यायके शत्रु, पाप-पुंजके अग्नि और रूढ़िके विध्वंसक थे। अुनकी दृष्टि भविष्यकी ओर थी। राजनीतिक प्रश्नोंमें भीष्माचार्य वैध-नीतिका अनुसरण करनेवाले थे; लेकिन श्रीकृष्ण पुराने सड़े हुअे वैध-नीतिके मुद्दोंको चुन-चुन कर गाड़ने पर तुले हुअे थे। अिसलिये भीष्माचार्यने सत्ताके पक्षको अपनाया और श्रीकृष्णने सत्यके।

समाज-विज्ञानमें भी दोनोंमें यही भेद था । भीष्माचार्य कहते राजा कालस्य कारणम् ।— राजा जैसा बनायेगा वैसा जमाना बनेगा । श्रीकृष्ण कहते, “राजा कहाँसे जमानेको बनायेगा ? जमाना तो मैं स्वयं हूँ, और अक-अक पुरानी रूढ़िका चुन-चुनकर नाश करनेके लिये मैंने अवतार लिया है ।— कालोऽस्मि लोकक्षयकृत्प्रवृद्धः ।” भीष्माचार्य हमेशा धर्मशास्त्रके नीचे दबे हुअे रहते, और धर्मशास्त्रकी आज्ञाओंका पालन करनेमें ही सम्पूर्णता मानते । अिसके विपरीत श्रीकृष्ण धर्मकी आज्ञाकी तहमें छिपा हुआ धार्मिक रहस्य समझकर अुसी पर दृढ़ रहते ।

फिर भी कैसा आश्चर्य ! भीष्माचार्यने प्रतिज्ञा-पालन करके भारतवर्षमें राज्य-क्रान्ति होने दी, और जिस समाज-व्यवस्थासे वे चिपटे रहना चाहते थे, अुसीका अुन्होंने भारत-युद्धके द्वारा अुच्छेद किया । श्रीकृष्णने प्रतिज्ञा-भंग करके अपने भक्तकी जान बचायी और भीष्मको यश दिया ।

जिस तरह शरीर नये नये वस्त्र धारण करता है, आत्मा नयी-नयी देह धारण करती है, अुसी तरह धर्मकी सनातन आत्माको नयी-नयी विधियाँ खोज निकालनी ही पड़ती हैं । अिन्द्रकी पूजामें जब कोअी अर्थ नहीं रहता, तब गोवर्धनकी पूजा ही चलानी चाहिये । यज्ञ-यागकी धूम मचानेकी अपेक्षा भगवानकी शरणमें जाना ही अधिक श्रेयस्कर है — जन्माष्टमी हमें यही सिखाती है ।

श्रीकृष्णका चरित्र हमने अबतक ध्यानपूर्वक नहीं देखा है । श्रीकृष्णकी बचपनकी लीला और बड़ी अुम्रमें किया हुआ जगदुद्धारका अवतारकृत्य अितना अत्यधिक मोहक और अुदात्त है, और श्रीकृष्णको अवतार मानकर हम अितने आश्चर्यमूढ़ हो गये हैं कि अिस पुरुषोत्तमने आदर्श मानवके तौर पर जिस तरह अपना जीवन बिताया, अुस तरफ़ हमारा ध्यान ही नहीं जाता । आज तक हमने जितने नररत्नोंकी जीवनियाँ पढ़ी या देखी हैं, अुन

सबसे श्रीकृष्णकी जीवनी कुछ और ही तरहकी है । बचपनमें छीके पर रखे मक्खनका नैवेद्य आत्मदेवको समर्पित करनेके बाद यशोदा माता द्वारा पकड़े जानेके भयसे डरे हुअे श्रीकृष्णकी नाटकीय लीला छोड़ दी जाय, तो श्रीकृष्णके सारे जीवनमें दुःख या भयका कहीं लवलेश भी नहीं पाया जाता । जीवन अितनी विविध घटनाओंसे परिपूर्ण होते हुअे भी श्रीकृष्ण कभी दिङ्मूढ़ नहीं हुअे, दुःखसे नहीं दबे, अथवा अुदासीनतासे शिथिल नहीं हुअे । जिसे आसक्ति ही न हो, वह अुदास क्यों होगा ? जो ब्रह्मानन्दको जानता हो, वह डरे किससे ? जो सर्व भूतोंमें अपनेको ही देखता हो, अुसके मनमें राग, द्वेष या जुगुप्सा कहाँसे होगी ? यही श्रीकृष्णका पूर्णत्व है । अेक बाह्मणने श्रीकृष्णके लात मारी, तो अुसे अुन्होंने अलंकारकी तरह धारण किया । गांधारीने घोर शाप दिया, तो अुसका अुन्होंने अपने अवतार-कार्यके सहायकके रूपमें आदर किया । अभिमन्यु मारा गया, घटोत्कच मारा गया, द्रौपदीके पुत्रोंका वध हुआ, अठारह अक्षौहिणी सेनाका नाश हुआ, महान्-महान् आचार्य काम आये, यादव-कुलका संहार हुआ, लेकिन श्रीकृष्ण रहे जैसे-के-वैसे — अक्षुब्ध, अविचलित और गंभीर ! मानो प्रलयकालके बादका महासागर !

*

*

*

क्या कोअी समर्थ चित्रकार अैसा अेक चित्र बना देगा, जिसमें भारतीय युद्धकी संग्राम-भूमिपर घायल हुअे हज़ारों मुमूर्षु योद्धा खूनके कीचड़में लोट रहे हैं, और अुनके बीच श्रीकृष्णकी कारुण्यमूर्ति हरअेकके माथे पर अपना शीतल, वरद हस्त फेरती हुअी घूम रही है ? अन्तिम घड़ीमें श्रीकृष्णका दर्शन ! यह अहोभाग्य जिस ज़मानेको मिला वह धन्य है ! अुस समयके कवियोंने 'मरणोन्मुख वीरोंका है यह मुरलीधर विश्राम महान्' — अिस प्रकारके भावपूर्ण गीत गाये होंगे ।

*

*

*

सामने भारी संकट देखकर आगे बढ़ना और सबके सम्मुख रहना, या अकेले अपने ही सिर सारे संकटका बोझ झुठा लेना, और जब राज्य-वैभव या कीर्ति मिलनेवाली हो, तब शरमीली बहूकी तरह पीछे-पीछे रहना — श्रीकृष्णका यह स्वभाव कितना शुदात्त-मधुर है ! गोकुलमें जितने भी राक्षस आये, उन सबको स्वयं श्रीकृष्णने मारा । यमुनामें कालिनाग आकर रहा और उसने सारे वृन्दावनमें आतंक फैलाया उस समय इस बातका विचार किये बिना कि मेरा क्या होगा, श्रीकृष्ण कदंबके पेड़ परसे संकटकी गहराओमें कूद पड़े । सब गोप-बालक भयभीत हुअे । कितने ही घर भागे, और कभी तो वहीं-के-वहीं मूढ़ बनकर खंभेके समान निश्चल रह गये । किसीको कुछ भी नहीं सूझा । अकेले श्रीकृष्णने कालियके साथ युद्ध किया, उसे हराया, झुकाया और जीवन-दान देकर छोड़ दिया । कंसवधमें वे आगे थे, जरासंधके वधमें भी वे ही अप्रसर थे । जहाँ कहीं संकट पैदा हुआ, वहाँ वे स्वयं उपस्थित हुअे, और सो भी मोहरे पर ।

*

*

*

जब अिन्द्रने प्रलयकालकी बारिश शुरू की, उस समय भी श्रीकृष्णने गोवर्धनको झुठाकर प्रजाकी रक्षा की । लेकिन उसके साथ जनताको यह भी सबक सिखाया कि गोवर्धनको ऊपर झुठानेमें जब प्रत्येक व्यक्ति मदद देगा, तभी प्रभु स्वयं अपनी अँगुली झुठायेंगे । शक्ति परमात्माकी, लेकिन प्रयत्न तुम्हारा ।

*

*

*

जन्माष्टमीके दिन श्रीकृष्णसे हम क्या माँगें ? हरअेक अपनी अपनी वृत्तिके अनुसार माँग ले । भारतकालीन प्रमुख व्यक्तियोंने श्रीकृष्णसे जो कुछ माँगा था, वह पांडव-गीतामें श्लोकबद्ध किया गया है । कृपण कृपणकी तरह माँगेंगा, भक्त भक्त-हृदयसे माँग लेगा, अभिमानी अैसे वचन कहेगा, जो उसके अभिमानको शोभा जी-८

दें, और वह अपना पाप भी परमात्माके मत्थे मढ़ देगा । लेकिन माँगना हो, तो वही माँगना चाहिये जो वीरमाता, धर्ममाता, तपस्विनी कुन्तीने माँगा था । भागवतमें कुन्तीकी प्रार्थना कितने सुन्दर शब्दोंमें दी गयी है ! कुन्तीमाता कहती हैं — ‘ हे भगवन्, मुझे वह वैभव नहीं चाहिये, जिससे तुम्हारा विस्मरण हो । मुझे वह आपत्ति दो, जिसके कारण हमेशा तुम्हारा स्मरण बना रहे, तुम्हारा चिन्तन हो और शरणागतता बढ़े । ’ भगवन् ! हमें आपत्ति दो — आपदः सन्तु नः शश्वत् । क्योंकि —

विपदो नैव विपदः सम्पदो नैव सम्पदः ।

विपद् विस्मरणं विष्णोः सम्पन्नारायण-स्मृतिः ॥

परमात्माको भूल जाना ही बड़ा भारी संकट है, और नारायणका अखंड स्मरण ही सर्व सम्पत्ति, वैभव, श्रेय, प्रेय, स्वाराज्य और साम्राज्य है !

जन्माष्टमी

वही-का-वही सूरज हर रोज़ अगता है, फिर भी वह हर रोज़ नया प्राण, नया चैतन्य और नया जीवन ले आता है ।

यह समझकर कि सूरज तो पुराना ही है, पक्षी निरुत्साह नहीं होते । कलका ही सूरज भाज आया है, यह कहकर द्विजगण चिरपरिचयके कारण भगवान् दिनकरका अनादर नहीं करते । जिस मनुष्यका जीवन शुष्क हो गया है, जिसकी आँखोंका तेज अुतर गया है, जिसके हृदयमें रक्तका अभिसरण रुक गया है, अुसीके लिअे सूरज पुराना है । जिसमें प्राणके चैतन्यका थोड़ा भी अंश बचा है, अुसकी दृष्टिसे तो भगवान् सूर्यनारायण नित्य नूतन हैं जन्माष्टमी भी हर साल आती है । प्रतिवर्ष हम वही-की-वही कथा सुनते हैं, अुसी तरह अुपवास रखते हैं, और अुसी तरह कृष्णजन्मका अुत्सव मनाते हैं । फिर भी हज़ारों साल हो गये, जन्माष्टमी हर साल अुस जगद्गुरुका अेक नया ही सन्देश हमें देती आयी है । कृष्ण पक्षकी अष्टमीके वक्र चन्द्रकी तरह अेक पाँव पर भार देकर और अेक पाँव टेढ़ा रखकर, शरीरको कमनाय बाँक देकर, वंकिमचन्द्र* मुरलीधरजीने जिस दिन दुनियामें प्रथम प्राण फूँका, अुस दिनसे आज तक प्रत्येक निराश्रित मनुष्यको आश्वासन मिला है कि ' न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति ' — जिस मनुष्यने सन्मार्गको पकड़ा है, जो धर्मसे चिपटा रहता है, अुसकी हे तात ! कभी दुर्गति नहीं होती ।

*

*

*

लोगोंको अैसा लगता है कि ' धर्म दुर्बलोंके लिअे है । बहुत हुआ तो वह व्यक्ति-व्यक्तियोंके सम्बन्धमें अुपयोगी साबित हो;

* वंकिमचन्द्र = वक्रचन्द्र = The Crecent Moon.

लेकिन राजा और सम्राट् जो कुछ करेंगे वही धर्म है। साम्राज्य-शक्ति धर्मसे श्रेष्ठ है। व्यक्तिका पुण्यकषय होता होगा; लेकिन साम्राज्य तो अलौकिक वस्तु है। अश्वरकी विभूतिकी अपेक्षा साम्राज्यकी विभूति श्रेष्ठतर है। साम्राज्य जब हाथमें विजयपताका लेकर दिग्विजय करने निकलता है, तब दिनके चन्द्रमाकी तरह अश्वर कहीं छिप जाता है।'

मथुरामें कंसकी धारणा ऐसी ही थी; मगध देशमें जरासंधको ऐसा ही लगता था; चेदि देशमें शिशुपालकी यही मनोदशा थी; जलाशयमें रहनेवाला कालिनाग ऐसा ही समझता था; द्वारिका पर हमला करनेवाले कालयवनकी फ़िलसूफी यही थी; महापापी नरकासुरको यही शिक्षा मिली थी, और दिल्लीका सम्राट् कौरवेश्वर अिसी वृत्तिमें पला था। ये सब महापराक्रमी राजा अन्धे या अज्ञान थे। अुनके दरबारमें अितिहासवेत्ता, अर्थशास्त्र-विशारद और राज-धुरन्धर अनेक विद्वान् थे। वे अपने-अपने शास्त्रोंको निचोड़कर, अुनका सार निकालकर, अपने-अपने सम्राटोंको सुनाया करते। लेकिन जरासंध कहता — “आपके अितिहासके सिद्धान्तोंको धरा रहने दीजिये! मेरा पुरुषार्थ तो अिसीमें है कि मैं अपने बुद्धिबल और बाहुबलसे आपके अिन सिद्धान्तोंका झूठा साबित कर दिखाऊँ।” कालयवन कहता — “मैं अेक ही अर्थनीति जानता हूँ — दूसरे देशोंको चूस-चूसकर अुनका धनहरण करना! धनवान होनेका यही अेकमात्र सीधा, सरल और अिसलिअे वैज्ञानिक मार्ग है।” शिशुपाल कहता — “न्याय-अन्यायकी बात प्रजाके आषसी लड़ाअी-झगड़ोंमें चल सकती है। हम तो सम्राट् ठहरे! हमारी जाति ही निराली। अिज्जत और प्रतिष्ठा ही हमारा धर्म है।” कौरवेश्वर कहता, — “जितने रत्न हैं, वे सब हमारी बपौती हैं; हमारे ही पास अुन्हें आ जाना चाहिये; ‘यतो रत्नभुजो वयम्’ (क्योंकि हम रत्न-भोगी हैं।) रत्नका अुपभोग करनेके लिअे ही हम पैदा किये

गये हैं । दुनियामें जितने तालाब हैं, वे सब हमारे ही विहारके लिये हैं । बिना लड़ाओके हम किसीको सूभीकी नोक पर टिकने जितनी भी भूमि न देंगे ।”

पक्षपातशून्य नारदने कंसको सचेत किया कि पराये शत्रुके विरुद्ध तू भले ही विजयी हुआ हो, लेकिन तेरे साम्राज्यके अन्दर — अरे, तेरे घरके ही अन्दर — तेरा शत्रु अुत्पन्न होगा । जिस सगी बहनको तूने अपनी आश्रित दासीकी स्थितिमें रखा है, उसीके पुत्रके हाथों तेरा नाश होगा; क्योंकि वह धर्मात्मा होगा । उसका तेजोवध करनेके तू जितने प्रयत्न करेगा, वे सब उसके लिये अनुकूल ही होंगे । कंसने मनमें विचार किया — “ ‘ Forewarned is forearmed ! ’ जो सावधान है वही सन्नद्ध है । समय पर अितनी चेतावनी मिलने पर भी हम पानीसे पहले पाल न बाँधे, तो अितिहासज्ञ कैसे ? हम सम्राट् कैसे ? ” नारदने कहा — “ यह तेरी ‘ विनाशकालकी विपरीत बुद्धि ’ है । मैं जो कुछ कह रहा हूँ, वह अितिहासका सिद्धान्त नहीं, बल्कि धर्मकी अनुभववाणी है । यह सनातन सत्य है । वसुदेव-देवकीके आठ अपत्योंमेंसे एकके हाथों तू ज़रूर मारा जायगा । तेरे लिये अब एक ही उपाय है । अब भी पश्चात्ताप कर और श्री विष्णुकी शरणमें जा । ” अभिमानी कंसने तिरस्कारयुक्त अट्टहासके साथ जवाब दिया — “ समरभूमि पर पराजित हुअे बिना सम्राट् पश्चात्ताप नहीं किया करते । ” तथास्तु कहकर निराश नारद चले गये । कंसने सोचा — “ आज तकके सम्राट् विजयी न हुअे, अिसका कारण उनकी गफलत थी । पूरी तरह सावधान रहना वे न जान सके । मैं भी अगर ग्राफल रह जाऊँ, तो मुझे भी हारना पड़ेगा । लेकिन कोअी बात नहीं । जो वीर है, उसे चाहिये कि वह हमेशा जयके लिये कोशिश करे और पराजयके लिये तैयार रहे । हार जानेमें कोअी हेठी नहीं, लेकिन धर्मके नाम पर पहले ही किसीकी शरण

जानेमें बदनामी है । धर्मका साम्राज्य साधु-संन्यासी, बाबा-बैरागी और देव-ब्राह्मणोंको ही मुबारक हो । मैं तो सम्राट् हूँ । मैं तो केवल शक्तिको पहचानता हूँ ।”

क्रूर होकर कंसने वसुदेवके सात निरपराध अर्भकोंका खून कर डाला । कृष्णजन्मके समय अीश्वरी लीला प्रवृत्त हुअी, और कृष्णपरमात्माके बदले कन्यादेहधारी शक्ति कंसके हाथमें आ गयी । कंसने अुसे ज़मीन पर पटककर मारना चाहा; मगर शक्ति थोड़े ही मरनेवाली थी ? वसुदेवने चुपकेसे श्रीकृष्णको गोकुलमें ला रक्खा; लेकिन परमात्माको कोअी भी बात छिपाकर नहीं रखनी थी । परमात्माको ‘प्रकटनाकी भीति’ (Sin of Secrecy) कहाँ थी ? शरमिन्दा हुअे कंससे शक्तिने अटूटहास करके कहा, “ तेरा शत्रु तो गोकुलमें दिन-दूना और रात-चौगुना बढ़ रहा है । ” मथुरासे गोकुल-वृन्दावन बहुत दूर नहीं है । चार-पाँच कोस भी न होगा । कंसने कृष्णको मारनेके जितने सूझे, अुतने सब प्रयत्न किये; लेकिन अुसको मालूम न हुआ कि श्रीकृष्णकी मृत्यु किस बातमें है । श्रीकृष्ण अमर तो थे नहीं; लेकिन मरणाधीन भी नहीं थे । धर्म-कार्य करनेके लिये वे आये थे । जब तक धर्मका राज्य प्रस्थापित नहीं होता, तब तक भला वे कैसे विरत हो सकते थे ? कंसने सोचा कि श्रीकृष्णको अपने दरवारमें बुलाकर अुन्हें मार डाला जाय । लेकिन वही अुमकी बाज़ी पलट गयी; क्योंकि अुसकी प्रजाने परमात्म-तत्त्वको पहचाना और वह परमात्माके अनुकूल हो गयी ।

कंसका नाश देखकर जरासंधका चेतना चाहिये था । लेकिन जरासंधने सोचा — “नहीं, कंसकी अपेक्षा मैं अधिक सावधान हूँ । अनेक जरा-जर्जरित, भिन्न-भिन्न अवयवोंको अेक जगह साँध — जोड़कर मैंने अपने साम्राज्य-शरीरको प्रबल बनाया है । मल्लयुद्धमें मेरे जोड़का कौन है ? मेरी नगरीका कोट दुर्भेद्य है । मुझे डर

काहेका ? ” लेकिन जरासंधकी भी दातुनके समान दो कमचियौ बन गयीं । कालिनाग तो अपने जलस्थानको सुरक्षितताका नमूना समझता था । उसका ज़हर असह्य था; केवल फूत्कारसे ही बड़ी-बड़ी सेनाओंको मार डालता था । उसके उस विषम विषका भी कुछ न चला । कालयवनने भी चढ़ाभी की, लेकिन सोये हुअे मुचकुन्दकी क्रोधाग्निसे वह बीचमें ही जल गया । नरकासुर अेक स्त्रीके हाथों पराभूत हुआ और मर गया । कौरवेश्वर दुर्योधन द्रौपदीकी क्रोधाग्निमें भस्म हो गया, और शिशुपालको अुसीकी की हुअी भगवन्नन्दाने मार डाला ।

षड्रिपुके समान ये छः सम्राट् अुस समय मर गये । सप्तलोक और सप्तपाताल सुखी हुंअे और जन्माष्टमी सफल हुअी । फिर भी, अितने सालोंके बाद भी, हर साल हम यह अुत्सव किस लिअे मनाते हैं ? अिसलिअे कि अभी हमारे हृदयोंमेंसे और सामाजिक जीवनमेंसे षड्रिपुओंका नाश नहीं हुआ है । वे हमें बहुत सताते हैं । हम लगभग निराश हो गये हैं । अैसे अवसर पर हमारे हृदयमें श्रीकृष्णचन्द्रका जन्म होना चाहिये । अिस आश्वासनका हमारे हृदयमें अुदय हो जाना चाहिये कि ‘ जहाँ पाप है, वहाँ पापपुंजहारी भी है ’ । जब मध्यरात्रिके अन्धकारमें कृष्णचन्द्रका अुदय हो जायगा, तभी निराश दुनिया आश्वासन पा सकेगी और धर्म पर दृढ़ रह सकेगी ।

जन्माष्टमीका कार्यक्रम

साधन बढी ८

१ दिन

जन्माष्टमी यानी गीता-गायक, गोपाल, श्रीकृष्णकी जयन्ती ।
अिस दिन गोसेवाका विचार प्रथम होना चाहिये; गौशाला-
सम्बन्धी कुछ-न-कुछ सेवा अिस दिन करनी चाहिये । लड़कियाँ
तो गायकी पूजा करेंगी ही ।

अिस दिन सब लोग अेक साथ बैठकर बारी-बारीसे अेक-
अेक अध्याय बोलकर गीताके अठारहों अध्यायोंका पाठ करें ।
गीता-शास्त्रका थोड़ा विवेचन हो । श्रीकृष्णने कालिय, कंस, जरासंध,
शिशुपाल, नरकासुर तथा दुर्योधन, अिन छः सम्राटोंके साम्राज्योंका
जो संहार किया, अुसका अितिहास आज कहा जाय । अिसमें थोड़ा
नाट्य-भाग भी मिलेगा, जिससे अेकाध नाट्य-प्रयोग रखा जा सकता
है । दोपहरको विद्यार्थी और शिष्यक मिलकर घूमने जायँ और
भोजन करें । रात भागवतकी कोअी कथा कही जाय ।

गणपति-अुपासना

हमारा हिन्दूधर्म अनेक छोटे-बड़े और नये-पुराने संप्रदायोंका
अेक अविभक्त कुटुंब है । मनुष्यकी शक्ति और वृत्तिके अनुसार
अुसे अेक ही सत्य अलग-अलग ढंगसे प्रतीत होता है । फिर
अुसमें अनुभवके अलावा मनुष्य अपनी कल्पना और काव्यशक्तिको
जोड़कर अुसकी विविधताको बहुत बड़ा देता है । कालके प्रवाहके कारण
मनुष्यके विश्वासोंमें जो परिवर्तन होते हैं, अुन सब परिवर्तनोंमेंसे
कालक्रमके तत्त्वको भूल जानेसे या अुसके मिट जानेसे भी कअी
झंझटें पैदा हुआ करती हैं । लेकिन मनुष्यप्राणी स्वभावसे अितना

पुराणप्रिय है कि परेशान करनेवाली अिन झंझटोंको भी हिफाजतके साथ रख लेनेकी अिच्छा अुसके मनमें अुत्पन्न होती है । लेकिन अैसा भी तो नहीं कहा जा सकता कि अिस वृत्तिसे कुछ फ़ायदा होता ही नहीं । अितिहासकी दृष्टि रखनेवाले समझदार लोगोंको अुसमेंसे अितिहास मिलता है, विकासका तत्त्व प्राप्त होता है, और मोटी अङ्गलवाले सामान्य जन तो जिस तरह भी आश्वासन प्राप्त किया जा सकता है, अुसे पाकर सन्तोष मानते हैं । विविध वृत्तियोंके लोग, जहाँ किसी तरहकी अेकवाक्यता नहीं है, वहाँ भी अैसी परिस्थितिमेंसे ही अेकताका अनुभव करने लगते हैं ।

गणेशचतुर्थीके अुत्सवको ही ले लीजिये । गणपतिकी अुपासना अेक या दूसरे रूपमें वेदकालसे चली आयी है । लेकिन यह कहना मुश्किल है कि आजकलका गणेशपूजाका पंथ वैदिक है । हिमालय पर्वतमें कभी स्थानोंसे छोटे-बड़े अनेक झरने निकलते हैं; और संयोगवशात् अेक होकर अेक नदीका नाम प्राप्त करते हैं, मालूम होता है, यही हाल अिस गणेशभक्तिका भी हुआ है । अिसकी पौराणिक कथाअें देखने लगें, तो वे कहीं भी मेल नहीं खातीं । जिस तरह आकाशके तारोंसे अुत्पन्न हुअी पौराणिक कहानियों और कल्पनाओंमें मेल जैसी कोअी चीज़ नहीं हुआ करती, अुसी तरह यहाँ भी हुआ है, अैसा दिखाअी देता है ।

और शायद गणपति भी आकाशकी किसी ज्योतिमेंसे ही बना कोअी देवता क्यों न हो ? रंगसे गणपति लाल होता है । अुसे लाल रंगके फूल भाते हैं । तो फिर वह आकाशका मंगल नामक ग्रह ही क्यों न हो ? गणपतिकी कभी चतुर्थियोंको 'अंगारिकी चतुर्थी' कहते हैं । अंगारक यानी मंगल । वह अंगारिकी चतुर्थी अगर मंगलवारके दिन आये, तो अुसका पुण्य अधिक समझा गया है । गणपतिको मंगलमूर्ति तो कहते ही हैं । ग्रहोंमें मंगलका नाम तो 'मंगल' है, मगर वह शुभ ग्रह नहीं समझा जाता । गणपतिका

परिचय विघ्नहर्ता, विघ्ननाशकके तौर पर कराया गया है। फिर भी मानवगृह्यसूत्रमें बताया है कि रुद्र तथा महादेवने विनायकको गणोंका प्रमुख नियुक्त किया, और मनुष्योंके कार्योंमें विघ्न अुपस्थित करनेका काम अुसे सौंपा गया। महाभारतमें शिव, स्कंद, विशाख आदि देवताओंका जिक्र बच्चोंको तकलीफ़ देनेवाले देवताओंके तौर पर किया गया है; वही हालत विनायककी भी है।

पुराने ज़मानेमें देवताओंके सम्बन्धमें जो कल्पना थी वह मिश्र थी। देवता यानी शक्ति; वह मनुष्यको हैरान भी करे और मदद भी दे। राजाकी खुशामद करके मनुष्य अुसका अनुग्रह प्राप्त कर सकता है, और राजाकी अवकृपा होनेसे मनुष्यका सत्यानाश होता है। अिसी तरहकी कल्पना अिन देवताओंके विषयमें भी थी। गणपति पहले तो विघ्नकर्त्ता होगा; बादमें भक्तोंने विनय-अनुनय करके अुसे विघ्नहर्ता बनाया होगा।

अेक जगह कहा गया है कि गजासुरको मारनेके लिये भगवान् विष्णुने पार्वतीजीके पेटसे जन्म लिया। दूसरे स्थान पर कहा गया है कि महादेवजीने गलतीसे अपने द्वारपाल गणका सिर धड़से अलग कर दिया और अपनी भूल ध्यानमें आते ही वास्तविक अपराधी गजासुरका सिर काटकर अुसे अुस गणके धड़ पर जोड़ दिया। अिस कहानीमें शायद किसी अनार्य पूजाके वैदिक पूजामें रूपान्तरित किये जानेका अुल्लेख होगा।

गणपति या गणेश अनेक देवताओंका सरदार होना चाहिये। पुराने ज़मानेमें कभी जनतन्त्रात्मक राज्य गणराज्यके नामसे पहचाने जाते थे। अुन गणराज्योंकी लोकसभाके देवताके तौर पर गणपतिकी स्थापना हुअी होगी। जिस तरह व्यक्तिके आत्मा होती है, अुसी तरह संगठित समाजके, समष्टिके भी आत्मा होनी चाहिये। यह सामाजिक आत्मा ही गणपति है। गणपतिकी पूजा करनेके मानी

हैं, सामाजिक जीवनको अपनी निष्ठा समर्पित करना — अैसा भी शायद पुराने समयका भाव होगा ।

कुछ भी हो, महादेव और विष्णुके बीचका विरोध टालनेके लिये गणपतिका अुपयोग अच्छा था । गणपति-शैव भी है और वैष्णव भी । किसी शुभ कार्यका प्रारंभ करना हो या घरका दरवाजा बनाना हो, तो वहाँ गणपतिको बैठा देनेसे सब झगड़े टल जाते हैं ।

जब हम लिखना सीखते हैं, तब 'अ, आ, अि, अी' से प्रारम्भ नहीं करते । महाराष्ट्रमें हम 'श्री गणेशाय नमः' से शुरू करते थे । आज 'श्रीगणेश' का अर्थ ही 'प्रारम्भ' हो गया है । संभव है कि आय लिपिकार कोअी गणेश नामका योजक होगा । चूँकि अुसने लिपिका आविष्कार किया था, अिसलिये लेखनका प्रारंभ कृतज्ञतापूर्वक अुसके नामसे ही करनेका रिवाज पड़ गया होगा । व्यासजीने पहले अपने मस्तिष्कमें महाभारत रचा पर अुसे लिखनेवाला कोअी क्रातिव (लेखक) न मिल सका । अाखिरकार गणेशजीने अुनकी कठिनाअीको दूर किया । पुराणोंमें कहा है कि त्रिविष्टप (तिब्बत)में 'लेखाः' नामके देवगण रहते थे । वे लेखनकलामें प्रवीण थे । अुनका अगुआ गणपति था । तो क्या हमारी लेखनकला फिनीशियासे न आकर तिब्बतसे यहाँ आयी होगी ? देववाणीकी ध्वनियोंकी व्यवस्था करनेवाली हमारी वर्णमाला वैज्ञानिक है । वर्णमालाकी योजना आर्यबुद्धिकी व्यवस्था सूचित करती है । हमारी लिपिमाला अिस तरहकी मालूम नहीं होती । वह वैज्ञानिक नहीं है । वह कहीं बाहरसे हमारे यहाँ आयी होगी । अगर वह तिब्बतसे आयी हो, तो कोअी आश्चर्यकी बात नहीं । लम्बे अरसे तक ब्राह्मण तो लेखनकलाकी अवगणना या अुपेक्षा ही करते आये । अन्तमें अुन्हें भी श्री गणेशजीकी ही शरण लेनी पड़ी ।

दूसरी अेक कल्पना यह है कि गणेशजी वास्तवमें गणेश नहीं बल्कि गुणेश हैं । भुपनिषत्कालके बाद जब तीन गुणोंकी व्यवस्था रची गयी, तब अिन तीन गुणोंके स्वामीके तौर पर ' अीश सर्वा गुणांचा ' (सब गुणोंका अीश्वर) गणपति स्थापित किया गया होगा ।

वेदान्तविद्या जब लोकसुलभ हुअी, तब बहुत-से अनार्य देवता और अुनकी अनार्य पूजा-पद्धति रूपकके तौर पर पहचानी जाने लगी । ॐकार या प्रणवमें सत्त्व, रज, तम तीनों गुण हैं । अिस ॐकारमें हाथीकी सूँड़ जैसी शकल है । अुस परसे गणेश या गुणेश गजानन समझा गया । अुसके माथे परका अर्धचन्द्र हाथीका दाँत बन गया । गणपति ज्ञानका, वेदान्तविद्याका स्वामी बन गया । मनको मारे बिना वेदान्त-ज्ञानका साक्षात्कार नहीं होता; अिसलिअे मनके देवता चन्द्रका दर्शन टालकर ही ज्ञानकी आराधना की जाय, तभी चतुर्थी यानी तुरीयावस्था कृतार्थ होगी । गणपति चूहे पर बैठता है । चूहा यानी काल । मनुष्य-जीवनके धागोंको काट खानेवाला काल यानी चूहा । वह जिसकी सवारी है, वह गणपति ही मोक्षदाता है ।

अिसी तरह कुछ लोग यह भी मानते हैं कि जंगली लोगोंकी या अनार्य लोगोंकी किसी पशु-पूजामेंसे अेक अुपासना अुत्पन्न हुअी, और वह बदलते-बदलते वेदान्त-विद्या तक पहुँच गयी ।

लेकिन आज जब हर साल खड़िया मिट्टीसे बनाये हुअे गणपति घर-घर पूजे जाते हैं, तब क्या अुन गणपतिके अुपासकके मनमें यह सब वेदान्तविद्या जाग्रत रहती है ? पुराने समयका गाणपत्य संप्रदाय बहुत भयावना था । मनुष्यकी खोपड़ियोंके आसन पर गणपतिकी स्थापना होती थी । जारण, मारण, अुच्चाटन, आदि गंदी विद्याओंको गणपतिकी अुपासनाके साथ जोड़ा गया था । गनीमत है कि अुन सबसे हम आज अुबर गये हैं ।

धर्म-व्यवस्थापक कहते हैं कि कलियुगमें बाक्री सब देवता सो गये हैं— सिर्फ चंडी और विनायक — अर्थात् काली और गणपति ये दो ही जाग्रत हैं । यह भी कहा गया है कि देवोंमें भी चातुर्वर्ण्य है । शंकरजीका वर्ण ब्राह्मण, विष्णुजीका क्षत्रिय, ब्रह्माजीका वैश्य और गणपतिका शूद्र है, और अिसमें आश्चर्य क्या ? शंकरजी अर्किंचन तथा तपस्वी योगी हैं, विष्णुजी लक्ष्मीपति, अैश्वर्यवान्, प्रजापालक हैं; ब्रह्मदेव तो निर्माणकर्ता हैं; लेकिन यह समझमें नहीं आता कि गणपतिको शूद्र क्यों समझा गया ? क्या अिसलिअे कि वे सामान्य जनताके देवता हैं ? कहीं-कहीं अैसी कोशिश हुअी है कि गणपतिको ब्रह्माका ही अेक रूप समझा जाय ।

महाराष्ट्रमें गणपतिको 'मोरया' कहते हैं । अिसका मूल पूनाके पासके अेक स्थानिक देवतामें है । मोरगँवके साधु मोरया गणपतिके अुपासक थे । अुन्हीको लोगोंने गणपतिका अवतार बना दिया । आजकल महाराष्ट्रमें कला और अुत्सवके नामसे कभी-कभी गणेशजीकी अैसी नखरेबाज़ और बेहूदी मूर्तियाँ बनायी जाती हैं, कि शायद हिन्दूधर्मके कट्टर विरोधी भी अुनकी अिससे अधिक विडम्बना न कर सकेंगे । अिस तरहकी मूर्तियोंको देखकर भक्तिभाव कैसे जाग्रत या पुष्ट हो सकेगा ?

मूर्ति-विधानके ग्रंथोंमें लिखा है कि पूजाके प्रमुख देवोंकी मूर्तियाँ शास्त्रोक्त 'ध्यान'के वर्णनके अनुसार ही प्रसन्न-गम्भीर बनानी चाहिये । ऋषुदेवों और यक्ष-किन्नरोंकी मूर्तियोंके बारेमें किसी तरहकी रोक-टोक नहीं लगायी गयी है ।

हिन्दूधर्मके धार्मिक विश्वासोंमें कुछ अितना गड़बड़घोटाला फैल गया है कि अुसमें अेक बार प्रवेश करनेके वाद बाहर निकलना आसान नहीं है । पुराने धर्मकारों और समाज-व्यवस्थापकोंने समाजमें उच्च वेदान्ती विचार रखनेवाले पंडितोंसे लेकर भूत-प्रेत-पिशाच आदि काल्पनिक और भयानक शक्तिअोंके अुपासकोंकी

प्राकृत पूजा तक सबको सूत्रबद्ध करनेका प्रयत्न किया। यह कहना कि ऐसा करनेके लिये अन्होंने जान-बूझकर धूर्तताका प्रयोग किया, ऐतिहासिक दृष्टिसे असत्य ही मालूम होता है। बिलकुल अलग-अलग ढंगकी दो वस्तुओंको जब अेक ही समय और अेक साथ सही समझकर स्वीकार करना पड़ता है, तब मनुष्यका कल्पना-समृद्ध मन अेक या दूसरे ढंगसे अुनका समन्वय करनेका प्रयत्न करता ही है। यह कहना धृष्टता समझी जायगी कि अुनमेंसे अेक कल्पना सच्ची है और दूसरी झूठी। परम सत्य तो मनुष्य-बुद्धिसे न मालूम कितनी दूर है। हमारी हालत तो वैसी ही है, जैसे अुस पत्थरकी, जो हिमालयके सामने खड़ा होकर कंकरसे कहता है — “तेरी अपेक्षा मैं हिमालयसे अधिक मिलता-जुलता हूँ”। अेक कल्पनाको जंगली कहें, दूसरीको सुधरी हुआ कहें, और समय बीतने पर अनुभव करें कि दोनों अेक-सी ही भ्रमात्मक थीं — ऐसी हालतमें लोगोंकी कल्पनाओं पर नुक़ताचीनी करते रहनेके बजाय अपने जीवनमें सदाचार, अनासक्ति, और निर्भयता लानेका प्रयत्न करें, तो लोग आप ही आप कल्पनाके काव्यका आनन्द लूटते हुआ भी अुसके प्रभावके नीचे दब न जायेंगे। जहाँ-जहाँ वहम और भ्रमात्मक कल्पनाअें मनुष्यको दुराचारकी ओर ले जाती हैं, वहाँ-वहाँ लोगोको जाग्रत करते जायँ, तो बाक़ी सब काम आप ही आप सिद्ध होगा।

दूसरी तरफ़ हमें लोगोको भौतिक विज्ञानोंके सिद्धान्तों तथा पद्धतियोंसे परिचित करानेकी जल्दी करनी चाहिये। भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान परस्पर विरोधी नहीं, बल्कि पोषक हैं। अेक ज्ञान दूसरे ज्ञानका विरोधी हो ही कैसे सकता है? दोनोंमेंसे तो सच्ची धार्मिकता जाग्रत होनी चाहिये। दोनोंकी अुपासना मानव-कल्याणकी दृष्टिसे ही करनी चाहिये, और सच कहें तो यही ज्ञानदाता-विघ्नहर्ता गणपतिकी सच्ची अुपासना है।

गणेश-चतुर्थी

भादों सुदी ४

१ दिन

ज्ञान-साधनाका दिन । अिस दिन किसी भी नये शास्त्रका अध्ययन शुरू किया जाय । भिन्न-भिन्न शास्त्रोंकी रूपरेखा देनेवाले व्याख्यान रखे जायँ । मोदक (पक्वान्नविशेष)का भोजन अिस दिनके लिये रूढ़िके अनुसार है ही । बहुत-सी जंगहोंमें रामनवमी, जन्माष्टमी, और गणेशचतुर्थी ये तीन दिन सामाजिक अुत्सवके तौर पर रूढ़ हैं । अुनके कारण समाज अेकत्र आ जाता है । अुससे लाभ अुठाकर धर्म संस्करणके अनेक प्रश्नोंकी चर्चा हो सके, तो अच्छा । अिस कामके लिये गणेशचतुर्थी विशेष अनुकूल दिन है । विद्यार्थी मिट्टीके गणपति बनायँ, दूसरी भी तरह-तरहकी मूर्तियाँ बनायँ, और अुन सबको अेक बड़े कमरेमें तरतीवसे सजाकर रखें । भौति-भौतिकी पत्तियाँ लाकर अुनकी रचनासे कमरेको सुशोभित करें ।

जनियोंके पर्युषणके बारेमें भी विवेचन होना चाहिये ।

मनोविज्ञान पर लिखे हुअे अैसे निबंध भी आज पढ़े जा सकते हैं, जिन्हें विद्यार्थी आसानीसे समझ सकें ।

चरखा-द्वादशी

भादों वदी १२

१

चरखा-द्वादशी अब प्रजाकीय त्यौहार बन चुका है । स्वराज्य जब मिलना होगा, तब मिलेगा । स्वर्गीय दादाभाअीसे लेकर लोकमान्य, दास और लाजपतराय तकके देशसेवकोंने अब तक अितनी कुछ तपश्चर्या की है, कि अब यदि स्वराज्य न मिले, तो ही आश्चर्य है । अगर हम बड़ी-बड़ी गलतियाँ न करें, फल-सिद्धिके समय

ही कहीं अड़ंगा न लगायें, और अपने-अपने हिस्सेका राष्ट्रकार्य दृढ़तापूर्वक और समय पर करनेसे न चूकें, तो घरकी गायकी तरह स्वराज्यको अपने आप हमारे दरवाजे चले आना है। लेकिन एक बड़ा भारी सवाल यह है कि यह स्वराज्य प्रजाका ही होगा या नहीं, और लोगोंके लिये वह पूरी तरह आशीर्वाद रूप होगा या नहीं। किसान जितना अनाज दुनियाको देता है, उसकी पूरी क्रीमत उसे नहीं मिलती। बीचके लोग ही उसका बड़ा भारी हिस्सा खा जाते हैं। हमें मिलनेवाले स्वराज्यकी अगर यही हालत हो जाय, तो उसे एक राष्ट्रीय आपत्ति ही समझना चाहिये। वैसा न होने पाये, एक हाथसे जिसे प्राप्त किया, उसे दूसरे हाथसे खो न बैठें, स्वराज्यका अर्थ गृहकलह न हो, इसीलिये गांधीजीने चरखा-धर्म शुरू किया है, और खादीका अितना आग्रह रक्खा है।

सहाराके मरुस्थलके बारेमें यह कहा जाता है कि कभी-कभी वहाँ आसमानसे मूसलधार बारिश आ जाती है, लेकिन मरुभूमिकी रेत अितनी अधिक गरम होती है कि भूमि तक पहुँचनेसे पहले ही पानी भाप बनकर आकाशमें उड़ जाता है। यदि हमने खादीकी वीक्षा न ली, तो गरीबोंकी दृष्टिसे हमारे स्वराज्यकी भी यही दशा होगी।

कुछ लोग कहते हैं कि बाहरसे खादी पहननेसे क्या होता है? अंदरसे जब हृदयपरिवर्तन हो जायगा, तभी वह सच्चा समझा जायगा। बात तो सही है। लेकिन यह किसने कहा कि बाह्य आचरणका हृदय पर असर नहीं पड़ता? आठों पहर शरीरके साथ सम्बन्ध रखनेवाली खादी अपना मूक सबक सिखाये बिना नहीं रहेगी। क्रियाकी शक्ति शब्दकी शक्तिकी अपेक्षा किसी भी हालतमें अधिक ही होती है।

चरखा-द्वादशीका यह माहात्म्य है। चरखा-द्वादशी यानी आम जनताके साथ हृदयकी एकता। चरखा-द्वादशी यानी स्वराज्यनिष्ठा।

चरखा-द्वादशी यानी निर्वैर स्थितिकी साधना । चरखा-द्वादशी यानी राष्ट्रीय संगठन ।

चरखा-द्वादशी मनानेकी पद्धति कुछ अंश तक निश्चित हो जानी चाहिये । पिछले छः-सात सालमें अुसका स्वरूप बहुत-कुछ तो निश्चित हो ही गया है । अब तक हम अुस दिन 'हिंदस्वराज्य'का पारायण करते थे । अब अुसके साथ 'आत्मकथा'के दोनों भाग आठ दिनमें पढ़नेकी कभी लोगों द्वारा सूचना की गयी है । अिस हीरकमहोत्सवके लिये वह भले ही ठीक हो, लेकिन यह विचारने योग्य है, कि हर साल 'आत्मकथा'का पारायण करना सरल होगा या नहीं । 'मंगलप्रभात'का वाचन शायद अधिक अपुयुक्त होगा ।

चरखा-द्वादशीके दिन हरिजनोंके साथ अपनी समरसताका हमें अनुभव करना चाहिये । सफ़ाभीका जो कार्य अंत्यज लोग करते हैं, अुसे आजके दिन स्वयं करके कुछ लोगोंने अिस बारेमें दिशा-सूचन किया है । जिन-जिन स्थानोंका हम अिस्तेमाल करते हैं, अुन सबको स्वयं सफ़ा रखकर हमें सामाजिक स्वच्छताका पाठ सीखना चाहिये, और प्रचलित प्रथामें सुधार करने चाहियें । हर साल यदि हम अिस तरह आगे बढ़ते जायेंगे, तो सारे राष्ट्रको बिना खर्चके और कम प्रयत्नसे अैसी शिक्षा मिलेगी, जो सैकड़ों बरससे नहीं मिली है ।

लेकिन चरखा-द्वादशीका प्रधान कार्य तो अुसके नाममें ही सूचित किया गया है । अिंग्लैंडके प्राण जिस तरह अुसके जहाज़ों पर निर्भर हैं, अुसी तरह हमारे प्रजाकीय प्राण चरखे पर निर्भर हैं । यह चरखा यदि चलने लगे, तो हमारा भाग्य भी चलने लगेगा । अगर यह रुक जाय, तो हमारा भाग्य भी रुक जायेगा । यह तो ज़रूरी है ही कि चरखा-द्वादशीके दिन सभी लोग चरखा कातें । लेकिन अुसके अलावा नये चरखे शुरू करना, जो कातना नहीं जानते, अुन्हें कातना सिखाना, जो पूनियाँ बनाना नहीं जानते, अुन्हें अुस

शास्त्रकी दीक्षा देना, यह चरखाद्वादशीका प्रधान कार्य है। चरखा चलानेकी जिन्हें आतुरता है, लेकिन चरखा खरीदनेकी हैसियत नहीं है, जैसे लोगोंको चरखा दिलानेके लिये धनिकोंको चाहिये कि वे कुछ पैसा राष्ट्रीय संस्थाओंके सिपुर्द करें। चरखा चलता रहे, इसके लिये चरखेको प्रधानपद देनेवाली संस्थाओं भी शुरू करनी चाहियें।

चरखेके महत्त्वको समझते हुअे भी और खादी पहनते हुअे भी बहुतसे लोगोंने अभी तक विदेशी कपड़ोंका मोह नहीं छोड़ा है। इस तरह संचित पापको जला डालनेका काम भी इस दिन प्रसन्नताके साथ किया जाना चाहिये। चरखा-द्वादशीके दिन विदेशी कपड़ोंकी जितनी होलियाँ कर सकें, उतने गरीबोंके आशीर्वाद मिलनेवाले हैं। चरखा-द्वादशीके दिन देशके भाभी-बहन आजीवन शुद्ध खादी ही पहननेका संकल्प करें, तो देशकी कितनी प्रगति होगी! इसमें आत्मोन्नति तो है ही।

हमें यह खयाल छोड़ देना चाहिये कि त्योहारके मानी यह हैं कि हम बीमार पड़ने तक खुद मिष्ठान और पक्वान्न खाना और दूसरोंको भी वैसा करनेका आग्रह करें। सोच-विचारकर देखनेसे मालूम हो जायगा कि इसमें न सुख है, न सामर्थ्यवृद्धि है, और न प्रसन्नता ही। यह असंस्कारी प्रथा हमें मिटा देना चाहिये। पेट्रपनका प्रचार कैसा? इसके विपरीत, उस दिनसे अितना और ऐसा आहार लेना शुरू करना चाहिये, जिससे आरोग्य तथा पुष्टि बढ़े, काम करनेका अुत्साह बढ़े, और शरीर और मन पर ठीक-ठीक क्राबू रहे।

चरखा-द्वादशी यानी स्वदेशीका प्रचार। उस दिन खेलोंमें खासकर देशीपन होना चाहिये। देशी संगीत, देशी चित्रकला, देशी भाषा आदिके पुनरुद्धारके लिये उस दिन कितने ही नये-नये कार्यक्रम रखने चाहियें। चरखा-द्वादशी राष्ट्रीय अेकताका भी त्योहार है। उस दिन किसीका भी बहिष्कार न हो। सभी जातियोंके, सभी धर्मोंके, तथा सभी पंथोंके स्त्री-पुरुष, बालक, और वृद्ध अेकत्र

आकर सामाजिक जीवनका अनुभव करें। चरखा-द्वादशी आत्मशुद्धिका त्योहार है। जीवनमें जिन-जिन व्यसनोंने घर कर लिया है, उन्हें निकाल बाहर करनेका प्रयत्न अिस दिन विशेष रूपसे होना चाहिये। आये दिन जिस कार्यका प्रारंभ आसान नहीं होता, उसे करनेकी शक्ति उस दिनके माहात्म्यके कारण मनुष्यमें शायद आ भी जाय। चरखा-द्वादशी दीनजनोंके दुःखोंका निवारण करनेका त्योहार है। उस दिन यथाशक्ति संकट-निवारणमें अपना हिस्सा अदा करना चाहिये। चरखा-द्वादशी स्वराज्यका त्योहार है। अिसलिये उस दिन अिस बातका अुप्र चिन्तन होना चाहिये कि परतंत्रताका अन्त किस तरह शीघ्रातिशीघ्र किया जाय।

२

गांधी-सप्ताह

भादों बदी १२ और दूसरी अक्टूबरको गांधीजीका जन्मदिन मनाया जाता है। देशी तिथि और अंग्रेज़ी तारीखके बीच जब अन्तर रहता है, तब वह अेक सप्ताहके तौर पर मनाया जाता है। मित्रोंने अिस द्वादशीको 'मोहन द्वादशी' नाम दिया; किन्तु गांधीजीको यह नाम पसन्द न आया। वे यह नहीं चाहते कि कोअी अुनकी जयन्ती मनाये। लेकिन किसी भी बहाने अगर लोग दरिद्रनारायणकी सेवामें लग जाते हों, तो दरिद्र-नारायण-हितैषी गांधीजी अुस मौक़ेको हाथसे जाने नहीं देते। अिसलिये गांधीजीने अिस दिनका नाम 'चरखा-द्वादशी' रखा है। गुजरातमें अिसे 'रेंटिया-बारश' कहते हैं। कभी खादी भक्त अिस दिन चौबीस घंटे चरखा चलाते थे। लेकिन शरीर-स्वास्थ्यकी दृष्टिसे यह तपश्चर्या कठिन मालूम होनेसे लोग आठसे लेकर सोलह घंटों तक द्वादशी या दूसरी अक्टूबरका दिन बिताते हैं। कुछ संस्थाओंके

सदस्य सब मिलकर, और बारी-बारीसे कातकर चौबीस घंटे अखंड चरखा चलाते हैं। खादी-बिक्रीका काम तो अिस सप्ताहमें बड़े जोशके साथ चलता ही है। अुत्साही विद्यार्थी और मध्यम श्रेणीके स्त्री-पुरुष खादी लेकर घर-घर जाते हैं, अुसकी बिक्री करते हैं, और साथ-साथ खादीका सन्देश भी सुनाते हैं।

जिनमें गांधीजीका सन्देश पूर्णतया मिल सकता है, अैसे दो ग्रंथोंका अिस दिन पारायण करनेवाले लोग भी बहुतसे हैं। ये दो ग्रंथ हैं — 'हिन्द स्वराज' और 'मङ्गल प्रभात'। अिन दोनों प्रबन्धोंमें गांधीजीकी कही हुअी सभी बातें सूक्ष्मरूपसे आ जाती हैं। अुनका विवेचन अिस दिन भाषणों द्वारा किया जाता है। अिस सप्ताहमें कअी सवर्ण लोग हरिजन सेवामें खास समय बिताते हैं, और अस्पृश्यता-निवारणके लिअे अपने गाँवमें घूम-फिरकर सफ़ाअीका काम करनेवाले दलका भी संगठन करते हैं। हरिजन-सेवक-संघ अिस सप्ताहमें अपना वार्षिक चन्दा अिकट्टा करता है। राष्ट्रभाषा-प्रेमी लोग अिस सप्ताहमें हिन्दी-हिन्दुस्तानीके सन्देशको घर-घर पहुँचानेके लिअे सभाओं, संभाषणों, चर्चाओं और वार्ता-लापोंका कार्यक्रम रखते हैं।

मूकभावसे लोगोंको राष्ट्रीयताका सन्देश सुनानेकी अिच्छा रखनेवाले लोग अिस सप्ताहमें खास राष्ट्रीय ध्वजके रंगके खादीके फूल बड़े आदरके साथ लगाते हैं। गोसेवामें राष्ट्रका हित तथा धर्म-पालन समझनेवाले लोग अिस सप्ताहमें गायका ही दूध और अुससे बननेवाली दही, घी आदि वस्तुओंका प्रयोग करनेका व्रत लेते हैं।

ये सभी बातें अच्छी हैं, और बरसोंसे चलती आयी हैं; अिसलिअे सप्ताहके कार्यक्रममें राष्ट्रीय संकल्प-शक्ति प्रतिष्ठित हुअी है।

अिनके साथ ही आत्मशुद्धिकी दृष्टिसे दूसरा भी बहुत-कुछ किया जा सकता है। गीता, धम्मपद, बाअिबल, कुरान, ग्रंथसाहब,

अवेस्ता गाथा आदि धर्मग्रंथोंसे चुने हुअे वचनोंका पठन तथा मनन अिस दिन किया जाय, तो सर्वधर्म-समभावकी भावनाको दृढ़ करनेमें बड़ी मदद मिलेगी । गांधी-सप्ताहके दिनोंमें भिन्न-भिन्न धर्मों,, पंथों और संप्रदायोंके लोग अगर अिकट्टे होकर कोअी सामुदायिक कार्यक्रम रख सकें, तो अिससे अच्छी बात और क्या हो सकेगी?

मनुष्य स्वभाव ही अैसा है कि अुसे सत्यका तथा अुसकी प्राप्तिका दर्शन अेकांगी होता है । अिसलिअे दुनियामें पक्षभेद, मतभेद और पंथभेद तो रहेंगे ही । जो व्यक्ति निःस्पृह, निर्वैर और सत्यधर्मी है, वह अपने सत्य-दर्शनके साथ निष्ठावान तो रहेगा ही, लेकिन अिस निष्ठाके कारण ही दूसरोंके सत्यदर्शनके प्रति वह अपना आदरभाव भी क्रायम रखेगा । अिस भावनाको बढ़ानेके लिअे गांधी-सप्ताहके दिनोंमें भिन्न-भिन्न पंथों, पक्षों, दर्शनों और साधनाओंके लोग अगर प्रेमादरभावसे अेक दूसरेसे मिलनेका सिलसिला शुरू करें, तो वह भी अिस छिन्न-भिन्न राष्ट्रकी अेक भारी सेवा समझी जायगी । लेकिन अिसमें तनिक भी कृत्रिमता और दंभ नहीं होने चाहियें । हार्दिक प्रेम और आदरसे ही यह काम हो सकेगा; और बहुतसे साधकोंका यह अनुभव भी है कि अुचित साधनों द्वारा हार्दिक प्रेमादरको बढ़ाना असंभव नहीं है ।

गांधी-जयन्तीके दिनको बहनोंने खास तौर पर अपनाया है । स्त्रीजाति मोक्षकी, स्वतंत्रताकी, ब्रह्मचर्यकी और राष्ट्र-सेवाकी संपूर्ण अधिकारिणी है — अिस सिद्धान्तको गांधीजीने देशके हृदय पर अितनी दृढ़ताके साथ अंकित किया है कि गांधीयुग स्त्री-अुद्धारका युग कहा जाता है । अिस सप्ताहमें शिक्षित और संस्कारी महिलाअें अपनी अपद बहनोंको कुछ ज्ञान देंगी और अुनसे नम्रताके साथ प्राचीन आर्यसंस्कारोंकी शिक्षा ग्रहण करेंगी, तो स्त्रीजातिका अुद्धार बड़ी आसानीसे हो सकेगा ।

गांधीजीने एक बहुत बड़ा और सूक्ष्म राष्ट्रकार्य खास स्त्री-जातिको ही सौंप दिया है । वह है मद्य-निषेध । मद्य-निषेध कोभी मामूली बात नहीं है । सत्त्वगुण और तमोगुणके बीच चलनेवाला वह एक भीषण युद्ध है । मद्यपान जैसे नरकासुरका संहार करनेको सत्यनिष्ठ सत्यभामा ही समर्थ हैं ।

अस तरहके संगीन कार्यक्रमके साथ राष्ट्रीय संगीत, चित्रकला, अुत्सवका समारोह, गरीबोंको अन्नदान आदि रोचक कार्यक्रमोंको भी हमें भूलना न चाहिये । सात्त्विक नृत्यकला तथा नाट्य अभिनय द्वारा हम भगवान्की अुपासना कर सकते हैं । अगर गांधी-सप्ताह द्वारा गरीबोंको अस बातका पूरा यकीन नहीं हो जाता है कि प्रत्येक खादीधारी अुनका संकट-निवारक और हितकर्ता सेवक है, तो समझना होगा कि वह गांधी-सप्ताह निष्फल ही साबित हुआ । गांधीजीने सबसे श्रेष्ठ बात यह सिखायी है कि सत्ययुग हो या कलियुग, निष्काम सेवा ही अलौकिक शक्ति है । अपने राष्ट्रके गरीबोंकी सेवा करके ही हम स्वाधीनताकी शक्ति प्राप्त कर सकेंगे ।

आसुरी संपत्तिका आज जितना अुत्कर्ष और प्रभाव है, अुतना शायद तीनों युगोंमें आज तक कभी नहीं हुआ था । अब दैवी संपत्तिको भी अपना अुतना ही, बल्कि अुससे भी अधिक अुत्कर्ष और प्रभाव दिखलाना चाहिये ।

अस सप्ताहमें गांधीजीके राष्ट्रकार्य और सामाजिक तथा व्यक्तिगत जीवनसे सम्बन्ध रखनेवाले सिद्धान्तोंके प्रचारके लिये जितने सार्वजनिक कार्यक्रमोंका आयोजन हम कर सकेंगे, अुतना ही वह अुपयुक्त साबित होगा । आत्मदर्शनका एक महत्त्वपूर्ण अुपाय अुसका श्रवण और कीर्तन भी है । महाराष्ट्रमें गणेश-अुत्सवमें जिस तरह ज्ञानचर्चा और विचार-प्रचारके सत्रका आयोजन किय

जाता है अुसी तरह अिस सप्ताहमें गांधीजीके विचारों, सिद्धांतों और नीतिका श्रवण तथा कीर्तन सामूहिक रूपसे होना जरूरी है ।

‘चरखा-द्वादशी’ हमारे लिये नव-संकल्प-पोषक और पूर्ण स्वातंत्र्यप्रेरक बने !

सं० १९९४

चरखा-द्वादशी

भादों बदी १२

१ दिन

अिस त्यौहारका नाम ‘मोहन-द्वादशी’ रक्खा गया था; मगर गांधीजीने सिफारिश की कि अिसे ‘चरखा-द्वादशी’ कहा जाय ।

अिस दिन ‘हिन्द स्वराज’का अेक पारायण करके, चरखेके सम्बन्धमें गांधीजीके कुछ लेख पढ़कर, सारा दिन धुनने और कातनेमें लगाना चाहिये । जिनसे हो सके वे फलाहार करके रहें । अिस दिनके अुत्सवमें हरिजनोंको विशेष रूपसे शामिल कर लेना चाहिये ।

[गांधीजीके धर्म-विचारोंको समझलेनेके लिये ‘मंगल प्रभात’का अध्ययन-विवेचन आज विशेष रूपसे किया जाय । अुनके धर्म-विषयक लेख दो भागोंमें प्रकाशित हुअे हैं । शिक्षक तथा प्रौढ़ विद्यार्थी अुन्हें आज अवश्य पढ़ें ।]

नवरात्रि

(कुआर सुदी १से १०)

महिषासुर साम्राज्यवादी था । सूर्य, अिन्द्र, अग्नि, वायु, चन्द्र, यम, वरुण आदि सभी देवताओंके अधिकार और महकमे वह स्वयं ही चलाता था । स्वर्गके देवोंको असुने भूलोककी प्रजा बना दिया था । किसीको भी अपने स्थानपर सुरक्षितताका अनुभव नहीं होता था । देव परमात्माके पास गये । परमात्माने सृष्टिकी जो व्यवस्था कर रखी थी, उसे महिषासुरने कितना बिगाड़ डाला है, अिस बारेमें अुन्होंने भगवान्को सब-कुछ कह सुनाया । सब हाल सुनकर विष्णु, ब्रह्मा, शंकर आदि सब देवोंके शरीरोंसे पुण्यप्रकोप जाग अुठा और असुसे अेक दैवी शक्ति-मूर्ति अुत्पन्न हुअी । सब देवोंने अिस सर्वदेवमयी शक्तिको अपने-अपने आयुधोंकी शक्तिसे मंडित (लैस) किया, और फिर अिस दैवी शक्ति और महिषासुरकी आसुरी शक्तिमें भीषण युद्ध ठन गया । कौन कह सकता है कि वह युद्ध कितने सालों तक चला ? लेकिन अैसा माना जाता है कि कुआर महीनेकी शुक्ला प्रतिपदासे लेकर दशमी तक यह युद्ध चलता रहा, और असुके अनुसार दैवी शक्तिकी विजयका नवरात्रि-अुत्सव हम मनाते हैं ।

दैवी शक्ति परमा विद्या है; ब्रह्मविद्या है; आत्मतत्त्व, विद्यातत्त्व, और शिवतत्त्वका शुद्ध रूप है । यह शक्ति ' शठं प्रति शुभं करी ' है; ' अद्वितेषु साध्वी ' है; दुश्मनके साथ भी वह दया प्रकट करती है । दुष्ट लोगोंके बुरे स्वभावको शान्त करना ही अिस दैवी शक्तिका शील है । ' दुर्वृत्तवृत्तशमनं तव देवि ! शीलम् '

असुर लोग अिस शक्तिको न समझ सके । भक्त लोग जब दैवी शक्तिकी जय बोलने लगे, तो असुर परेशान होकर चिल्ला अुठे, “अरे यह क्या ? अरे यह क्या ?” आखिर असुरोंका राजा स्वयं ही लड़ने लगा । असुने अनेक तरहकी नीतियाँ आज्ञमाकर देखीं, अनेक रूप धारण किये, लेकिन अन्तमें ‘निःशेष-देवगणशक्ति समूहमूर्ति’की ही विजय हुआ । वायु अनुकूल बहने लगी; वर्षाने भूमिको सुजला सुफला कर दिया, दिशाओं प्रसन्न हुआँ और भक्तगण देवीका मंगल गाने लगे । देवीने भक्तोंको आश्वासन दिया कि, ‘अिसी तरह फिर जब-जब आसुरी लोगोंके कारण आतंक फैल जायगा, तब-तब मैं स्वयं अवतार धारण करके दुष्टताका नाश करूँगी ।’

यह महिषासुर प्रत्येक मनुष्यके हृदयमें अपना साम्राज्य प्रस्थापित करनेकी भरसक कोशिश करता है, और अस-अस समय असके सब स्वरूपोंको पहचानकर असका समूल नाश करनेका कार्य दैवी शक्तिको करना पड़ता है । प्रत्येक व्यक्ति अपने अन्तःकरणकी जाँच-परख करने पर यह जान सकता है कि असके हृदयमें यह युद्ध कितने सालों तक चलता रहा है । नवरात्रिके दिनोंमें अपने हृदयमें दीपको अखंडरूपसे प्रज्वलित रखकर हमें दैवी शक्तिकी आराधना करनी चाहिये; क्योंकि जब यह दैवी शक्ति प्रसन्न होती है, तों वही हमें मोक्ष प्रदान करती है ।

सैषा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति मुक्तये ।

सरस्वती-पूजा

कुआर सुदी ८ और ९

२ दिन

यह अुत्सव अष्टमी और नवमी दो दिन चले । पुस्तकालयके ग्रंथोंको झाड़-पोंछकर तरतीबसे लगाने और संस्थाकी तथा अपनी निजी किताबें ढीली पड़ गयी हों, तो अुनकी ज़िल्दें ठीक करने आदि कामोंमें अेक दिन लगाया जाय । शारदा-मन्दिर (पुस्तकालय)को ठीक ढंगसे जमानेके बाद अुसे सजाया जाय और वहाँ शारदामाताकी पूजाके तौर पर संगीतका अेक जलसा रखा जाय ।

दूसरा दिन खास चित्रकलाके लिअे रखा जाय । अिस दिन कागज़की या दूसरी चीज़ोंकी तरह-तरहकी वस्तुअें बनायीं जायँ, चौक पूरे जायँ, और हो सके तो धार्मिक या दूसरी अुपयुक्त पुस्तकोंका दान किया जाय ।

शारदाका अुद्बोधन

हम नहीं जानते कि किस नवमीको सुरोंने शारदाका अुद्बोधन किया था । लेकिन वह अत्यन्त शुभ, सुभग और कल्याणकारी सुहूर्त्त होना चाहिये । समृद्धिदायी वर्षाके बाद जो शान्ति, जो निर्मलता, जो प्रसन्नता दृष्टिगोचर होती है, अुसीमें देवताओंको शारदाका दर्शन हुआ न धरतीने अभी हरा रंग नहीं छोड़ा है, परिपक्व धान्य सुवर्णवर्णकी शोभा फैला रहे हैं,— अैसे समय पर देवोंने शारदाका ध्यान किया । सज्जनोंके हृदयोंके समान स्वच्छ पानीमें विहार करनेवाले प्रसन्न कमल और आकाशमें अनन्त काव्यके फ़व्वारे छोड़नेवाला रसस्वामी चन्द्र, ये दोनों जब अेक-दूसरेका ध्यान कर रहे थे, अुसी समय देवोंने शारदाका आवाहन

किया । शारदा आयी और अुससे पृथ्वीके वदन-कमल पर सुहास्य फैला । शारदा आयी और वनश्रीका गौरव खिल अुठा । शारदा आयी और घरघर समृद्धि बढ गयी । शारदा आयी और वीणाका झंकार शुरू हुआ; संगीत और नृत्य ठौर-ठौर आरम्भ हुअे ।

शारदाका स्वरूप कैसा है ? वाला ? मुग्धा ? प्रौढा ? या पुरंध्री ? शारदा मंजुलहासिनी वाला नहीं है, मनमोहिनी मुग्धा नहीं है, विलासचतुरा प्रौढा नहीं है । वह तो नित्ययौवना किन्तु स्तन्यदायिनी माता है । वह हमारे साथ हँसती है, खेलती है; मगर वह हमारी सखी नहीं, माता है । हम अुसके साथ वालोचित क्रीड़ा कर सकते हैं; लेकिन हम यह न भूलें कि हम माताके सम्मुख खड़े हैं । माता अर्थात् पवित्रता, वत्सलता, कारुण्य और विश्रद्धता । माता अर्थात् अमृत-निधान । 'न मातुः परदैवतम् ।' यह वचन किसी अुपदेशप्रिय स्मृतिकारका गढ़ा हुआ नहीं है । यह तो किसी मातुः पुत्र धन्य बालककी अमृतवाणी है ।

चराचर सृष्टिकी अेकताका अनुभव करनेवाले हम आर्य सन्तान अेक ही शब्दमें अनेक अर्थोंको देखते हैं । शारदा यानी सरोवरमें विराजमान कमलोंकी शोभा । शारदा यानी शरत् पूनो और दीवालीकी कान्ति । शारदा यानी यौवनसहज ब्रीड़ा । शारदा यानी कृषिलक्ष्मी । शारदा यानी साहित्य-सरिता । शारदा यानी ब्रह्म-त्रिद्या, चिच्छक्ति । शारदा यानी विश्वसमाधि । अैसी ही यह हमारी माता है; हम अुसके बालक हैं । कितनी धन्यता ! कितनी स्पृहणीय पदवी ! कितना अधिकार ! और साथ ही कितनी बड़ी दीक्षा !

शारदाके स्तन्यका स्पर्श जिन होंठोंको हुआ हो, वे होंठ अपवित्र वाणीका अुच्चारण नहीं करेंगे; निर्बलताके वचन मुहसे

नहीं निकालेंगे; द्वेषका सूचन तक न करेंगे; पापको नहीं सँवारेंगे; पौरुषकी हत्या नहीं करेंगे, और मुग्धजनोंको धोखा न देंगे ।

शारदाके मन्दिरमें सर्वोच्च कला हो, कलाके नाम पर विचरनेवाली विलासिता नहीं । शारदाके भवनमें प्रेमका वायुमंडल हो, केवल सौन्दर्यका मोहन नहीं । शारदाके अपवनमें प्राणोंका स्फुरण हो, निराशाका निःश्वास नहीं । शारदाके लताकुंजोंमें विश्वप्रेमका संगीत हो, परस्पर अनुनयका मूर्खतापूर्ण कलकूजन नहीं । शारदाके विहारमें स्वतंत्रताकी धीरोदात्त गति हो, अुद्देश्यहीन और स्खलनशील पद-क्रम नहीं । शारदाके पीठमें ब्रह्मरसका प्रवाह हो, विषय-रसका अुन्माद नहीं ।

माता शारदा ! आशीर्वाद दे कि हमें तेरा स्मरण अखंड बना रहे ! जब हम अधिकारी बनें, तो तू हमें अपने दर्शन दे ! अगर हमारा ध्यान अविचल रहे, हमारी भक्ति अेकाग्र और अुत्कट बने, तो तू हमें अपनी दीक्षा दे ! और जब हम तेरी अखंड सेवाके लायक बन जायँ तब अितनी भिक्षा दे कि केवल तेरी सेवाकी ही धुन हमेशा हम पर सवार रहे ! तुझे कोटिशः प्रणाम हैं !

या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता ।

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमोनमः ॥

अक्टूबर, १९२४

विजयादशमी

१. सीमोल्लंघन पर्व

(कुआर सुदी १०)

आगरेमें मुगलकालकी जो भिमारतें हैं, उनमें अेक विशेषता यह है कि उनके निचले खंड लाल पत्थरके हैं और अूपरवाले सफेद पत्थरके । लाल पत्थरका काम जहाँगीरके समयका है, और सफेद पत्थरका शाहजहाँके समयका । हर भिमारतमें अिस तरहका कालक्रमका अितिहास वर्णभेदसे मूर्तिमन्त दिखाअी देता है । किसी भी पुराने बड़े शहरमें पुरानी बस्ती और नयी बस्ती अेक दूसरेसे सटी हुअी नज़र आती है; या बस्तियोंकी तहों पर तहें जमी हुअी दिखाअी देती हैं । भाषाकी कहावतोंमें भी भिन्न-भिन्न समयका अितिहास समाया हुआ होता है । हम घरमें ज़मीन पर गच करनेके लिये जो पत्थर बिछाते हैं, वे अैसे मालूम पड़ते हैं, गया वह समूचा अेक ही पत्थर हो; मगर उनमें भी प्रत्येक स्तरमें कअी बरसोंका अन्तर होता है । नदीके किनारे हर साल जो कीचड़की तहों पर तहें जम जाती हैं, अन्तमें अुन्हींसे धरतीकी भट्टीमें अेक पत्थर बन जाता है ।

दशहरेका त्योहार भी अेक ही त्योहार होते हुअे भिन्न कालके भिन्न-भिन्न स्तरोंका बना हुआ है । दशहरेके त्योहारके साथ असंख्य युगोंके असंख्य प्रकारके आर्य पुस्तार्थोंकी विजय जुठी हुअी है ।

मनुष्य-मनुष्यका संघर्ष जितना महत्त्वका है, अुतना ही या अुससे भी अधिक महत्त्वका संघर्ष मनुष्य और प्रकृतिके बीचक है । मानवको प्रकृति पर जो सबसे बड़ी विजय मिली है, वह

है खेती । जिस दिन जुती हुआ ज़मीनमें नौ प्रकारका अनाज बोकर, कृत्रिम जलका सिंचन करके उसमेंसे अपनी आजीविका तथा भविष्यके संग्रहके लिये पर्याप्त अनाज मनुष्य प्राप्त कर सका, वह दिन मनुष्यके लिये सबसे बड़ी विजयका था; क्योंकि उसके बाद ही स्थिरतामूलक संस्कृतिका जन्म हुआ । उस दिनकी स्मृतिको हमेशा ताज़ा रखना कृषि परायण आर्य लोगोंका प्रथम कर्तव्य था ।

बीसवीं सदी भौतिक तथा यांत्रिक आविष्कारोंकी सदी समझी जाती है, और वह उचित भी है । लेकिन मानवजातिके अस्तित्व और संस्कृतिके लिये जो महान् आविष्कार कारणरूप हुए हैं, वे सब आद्ययुगमें ही हुए हैं । ज़मीनको जोतनेकी कला, सूत कातनेकी कला, आग जलानेकी कला और मिट्टीसे पक्का घड़ा बनानेकी कला—ये चार कलाओं मानो मानवी संस्कृतिके आधारस्तंभ हैं । अिन चारों कलाओंका उपयोग करके विजया-दशमीके दिन हमने कृषिमहोत्सवका निर्माण किया है ।

अपने बचपनमें देखे हुए पहले नवरात्रिके अुत्सवकी याद मुझे आज भी बनी हुआ है । मेरे भाभी प्रतिपदाके दिन शहरके बाहर जाकर खेतोंसे अच्छी-से-अच्छी साफ़ काली मिट्टी ले आये । मैं स्वयं नौ अनाजोंकी फ़ेहरिस्त बनाकर उनमेंसे जो अनाज हमारे घरमें न मिले, उन्हें अपने नानाके यहाँसे ले आया । मेरी दादीने छोटीसी धुनकीसे रूआ धुनकर उसकी ९६ अंगुल लम्बी बत्ती बनायी । मेरी माँने सूत कातकर (चरखे पर नहीं बल्कि लोटे पर) उस सूतकी अेक हज़ार छोटी छोटी वातियाँ बनायीं । मैं बाज़ारसे नारियल तथा पंचरत्न ले आया । पंचरत्नमें सोना, मोती, हीरा, प्रवाल, और नीलम या माणिक थे । अिन पंचरत्नोंके टुकड़े बहुत ही छोटे थे । मेरी भतीजी बगोचेसे फूल और तरह-तरहके पत्ते लायी । पिताजीने स्नान करके देवगृहमें गायके गोबरसे लिपी हुआ भूमि पर उस काली मिट्टीको फैलाकर उससे अेक सुन्दर

चौक बनाया । यह हुआ हमारा खेत । उसके बीचोंबीच एक लोटा रख दिया । उस लोटेमें पानी भरा हुआ था । उसके अन्दर एक साबुत सुपारी, दक्षिणा, पंचरत्न आदि चीज़ें डाली गयीं थीं । ऊपर आमके पेड़की एक पौंच पत्तोंवाली छोटीसी टहनी रखकर उस पर एक नारियल रखा था । सुन्दर आकारके लोटेमेंसे बाहर निकले हुअे आमके हरे-हरे पौंच पत्ते और उन पर शिखरके समान दिखायी देनेवाले नारियलका आकार देखकर हम बेहद खुश हुअे । पूजाकी तैयारी हुअी, चौकिया खेतमें नौ अनाज बोये गये । उन पर पानी छिड़का गया । बीचमें रखे हुअे घट (लोटे)की चन्दन, केसर और कुंकुमसे पूजा की गयी । यथाविधि सांग षोडशोपचार पूजा हुअी । ९६ अंगुल लम्बी बत्तीवाला दीपक जलाया गया । फिर भारती हुअी और घरमें सब कहने लगे कि आज हमारे यहाँ नवरात्रिकी घटस्थापना हुअी है । उस नन्दादीपको नौ दिन तक अखंड जलता रखना था । उसका बीचमें बुझ जाना, महा अशुभ माना जाता था । दूसरे दिन पूजामें एकके बदले दो मालाअें लटकायी गयीं; तीसरे दिन तीन; चौथे दिन चार — अिस तरह मालाअें बढ़ती गयीं । ऊपर मालाअें बढ़ीं और नीचेके खेतमें अंकुर फूट निकले । कअी अंकुर तो अपने दलोके छाते बनाकर ही बाहर निकल आये थे । हमें हर रोज़ मिष्टान्न मिलता था; लेकिन पिताजी तो सिर्फ़ एक ही समय भोजन करते, और सारा दिन पीताम्बर पहनकर उस नन्दादीपकी देखभाल करते । बत्ती न टूटे, तेल कम न पड़े, और दीया बुझने न पाये — अिस बातकी बड़ी फ़िकर रखनी पड़ती थी । रातको भी दो चार बार अुठकर तेल डालना, ऊपर जमी हुअी कालिखको बड़ी सावधानीसे झटकना, आदि काम उनको करने पड़ते थे ।

जव नौ अनाजोंके अंकुर पूरी तरह फूट निकले, तो उस समयकी खेतकी शोभा बहुत अवरुणनीय थी । कुछ अनाज जल्दी

अुगे, कुछ देरीसे । मैं यह अच्छी तरह याद रखता कि कौनसे अनाज पहले अुगे हैं, और कौनसे बादमें । सभी अंकुर बिलकुल सफ़ेद थे; क्योंकि नवरात्रिका यह 'खेत' घरके अन्दर था, और सूर्य प्रकाशके बिना हरा रंग तो आ नहीं सकता । फिर पिताजी खेत पर हल्दीका पानी छिड़कने लगे । मैंने पूछा - "यह किस लिये ?" जवाब मिला - "अिसलिये कि अुगा हुआ अनाज सोनेके समान दिखायी दे !"

सातवें दिन सरस्वतीका आवाहन हुआ । घरमें जितनी धार्मिक और संस्कृतकी किताबें और पोथियाँ थीं, अुन सबको अेक रंगीन पटे पर रखकर हमने अुनकी पूजा की । हमें पढ़ाअीसे छुट्टी मिल गयी । अिसे अनध्याय कहते हैं । सरस्वतीका आवाहन, पूजन और विसर्जन तीन दिनमें हुआ । नवें दिन 'खंड' पूजन हुआ । 'खंड' पूजन यानी शस्त्रास्त्रोंका पूजन । अिस दिन हाथी-घोड़ों जैसे युद्धोपयोगी जानवरोंकी भी पूजा की जाती है । अिस तरह नवरात्रि पूरी हुअी और दसवें दिन दशहरा आया । दशहरेके दिन होम, बलिदान और सीमोल्लंघन, ये तीन प्रमुख विधियाँ थीं । वह विद्यारंभका भी दिन था ।

विजयादशमीके त्योहारमें चातुर्वर्ण्य अेकत्र हुआ दीखता है । ब्राह्मणोंके सरस्वती पूजन तथा विद्यारंभ; क्षत्रियोंके शस्त्रपूजन, अश्वपूजन तथा सीमोल्लंघन और वैश्योंकी खेती. ये तीनों बातें अिस त्योहारमें अेकत्रित होती हैं । और जहाँ अितनी बड़ी प्रवृत्ति चलती हो, वहाँ शूद्रोंकी परिचर्या तो समाविष्ट है ही । जब देहाती लोग नवरात्रिके अनाजकी सोने-जैसी पीली-पीली कोंपलें तोड़कर अपनी पगड़ियोंमें खोंसतें हैं, और बढ़िया पोशाक पहनकर गाते-बजाते सीमोल्लंघन करने जाते हैं, सा दृश्य आँखोंके सामने आ खड़ा होता है मानो सारे देशका पौरुष अपना पराक्रम दिखलानेके लिये बाहर निकल पड़ा हो ।

दशहरेका अुत्सव जिस तरह कृषिप्रधान है, अुसी तरह वह क्षात्रमहोत्सव भी है । जिन दिनों भाड़ेके सिपाहियोंको मुर्गोंकी तरह लड़ानेका तरीका प्रचलित नहीं था, अुन दिनों क्षात्रतेज तथा राजतेज किसानोंमें ही परवरिश पाते थे । किसान यानी क्षेत्रपति-क्षत्रिय ! जो सालभर भूमिमाताकी सेवा करता हो, वही मौका आने पर अुसकी रक्षाके लिये निकल पड़ेगा । नदियों, नालों, टेकरियों और पहाड़ोंके साथ जिसका रात-दिनका सम्बन्ध रहता है; घोड़ा, बैल-जैसे जानवरोंको जो अनुशासन सिखा सकता है, और सारे समाजको जो खाना खिलाता है, अुसमें सेनापति और राजत्वके सब गुण आ जायँ, तो आश्चर्यकी क्या बात है ? राजा ही किसान है, और किसान ही राजा है ।

ऐसी हालतमें कृषिका त्योहार क्षात्र-त्योहार बन गया । अिसमें पूरी तरह अैतिहासिक औचित्य है । क्षत्रियोंका प्रधान कर्तव्य तो स्वदेश-रक्षा ही है । परन्तु बहुत बार, शत्रुके स्वदेशमें घुसकर देशका बरबाद करनेसे पहले ही अुसके दुष्ट हेतुको पहचानकर स्वयं — सीमोल्लंघन करना — अपनी सीमा यानी सरहदको लँघना और खुद शत्रुके मुल्कमें लड़ाही ले जाना, होशियारीकी और वीरोचित्ता बात मानी जाती है ।

थोड़ा-सा सोचने पर मालूम होगा कि अिस सीमोल्लंघनके पीछे साम्राज्यवृत्ति है । अपनी सरहद लँघकर दूसरे देश पर अधिकार जमाना और वहाँसे धन-धान्य लूट लाना, अिसमें आत्म-रक्षाकी अपेक्षा महत्त्वाकांक्षाका ही अंश अधिक है । अिस तरह लूटकर लाया हुआ सोना अगर पराक्रमी पुरुष अपने ही पास रखे, तो वर्त्तमान युगके षत्रप्रकोप (Militarism)के साथ विट्प्रकोप (Industrialism)के मिल जानेकी भयानक स्थिति पैदा होगी ।*

* ' षत्रप्रकोप ' तथा ' विट्प्रकोप ' अिन दो नये नामोंकी सार्थकता मुझे सिद्ध करनी चाहिये । चातुर्वर्ण्यका सन्तुलन या सामंजस्य तो समाज-

जहाँ प्रभुत्व और धनिकत्व अेकत्र आ जाते हैं, वहाँ शैतानको अलग न्योता देनेकी जरूरत नहीं रहती। अिसीलिअे दशहरेके दिन लूटकर लाये हुअे सोनेको सब रिश्तेदारोंमें वितरित करना अुस दिनकी अेक महत्त्वकी धार्मिक विधि तय की गयी है।

सुवर्ण-वितरणकी अिस प्रथाका संबंध रघुवंशके राजा रघुके साथ जोड़ा गया है।

रघुराजाने विश्वजित् यज्ञ किया। समुद्रवल्यांकित पृथ्वीको जीतनेके बाद सर्वस्वका दान कर डालना विश्वजित् यज्ञ कहलाता है। जब रघुराजाने अिस तरहका विश्वजित् यज्ञ पूरा किया, तब अुसके पास वरतन्तु अृषिका विद्वान् और तेजस्वी शिष्य कौत्स जा पहुँचा। कौत्सने गुरुसे चौदहों विद्याओं प्रहण की थी; अुसकी दक्षिणाके तौर पर चौदह करोड़ सुवर्ण मुद्राओं गुरुको प्रदान करनेकी अुसकी अिच्छा थी। लेकिन सर्वस्वका दान करनेके बाद बचे हुअे मिट्टीके बर्तनोंसे ही राजाको आदरातिथ्य करते देख् कौत्सने राजासे कुछ भी न माँगनेका निश्चय

शरीरकी स्वाभाविक स्थिति है। समाजके लिअे अिन चारों वर्णोंकी आवश्यकताको स्वीकार कर लिया गया है। जिस तरह, जब व्यक्तिके शरीरमें वात, पित्त और कफ ये तीन धातु अुचित अनुपातमें रहते हैं, तभी शरीर नीरोगी रहता है, अुसी तरह समाज-शरीरमें चातुर्वर्ण्य अुचित अनुपातमें होना चाहिये। शरीरमें पित्तकी मात्रा बढ़ जाती है, तो अुसे पित्तप्रकोप कहते हैं। पित्तप्रकोपसे सारा शरीर खराब हो जाता है। यही हालत वातप्रकोप और कफप्रकोपके विषयमें है। समाज-शरीरमें कषत्रवर्गका अतिरेक या प्राबल्य हो जाय, तो अुस स्थितिको कषत्रप्रकोप कहना ही अुचित है। यही बात विट्प्रकोप या वैश्यप्रकोपकी भी है। शरीरका नाश होनेका समय आने पर तीनों धातुओंका प्रकोप हो जाता है। अिसे त्रिदोष कहते हैं। यूरपमें आज कषत्रिय, वैश्य और शूद्र अिन तीनों वर्णोंका अेक साथ प्रकोप हुआ है, अैसा साफ़-साफ़ नजर आ रहा है; और वहाँके ब्राह्मण अिन तीनों वर्णोंके किंकर बन गये हैं।

किया । राजाको आशीर्वाद देकर वह जाने लगा । रघुने बड़े आग्रहके साथ उसे रोक रखा, और दूसरे दिन स्वर्ग पर धावा बोलकर अिन्द्र और कुबेरके पाससे धन लानेका प्रबन्ध किया । रघुराजा चक्रवर्ती था । अतः अिन्द्र और कुबेर भी उसके माण्डलिक थे । ब्राह्मणको दान देनेके लिये अुनसे कर लेनेमें संकोच किस बातका था ? रघुराजाकी चढ़ाअीकी बात सुनकर देवता लोग डर गये । अुन्होंने शमीके अेक पेड़ पर सुवर्णमुद्राओंकी शृष्टि की । रघुराजाने सुबह अुठकर देखा, तो जितना चाहिये अुतना सुवर्ण आ गया था । अुसने कौत्सको वह ढेर दे दिया । कौत्स चौदह करोड़से ज्यादा मुद्रा लेता न था, और राजा दानमें दिया हुआ धन वापस लेनेको तैयार न था । अखिर अुसने वह धन नगर-वासियोंको लुटा दिया । वह दिन अश्विन शुक्ला दशमीका था; अिसीलिये आज भी दशहरेके दिन शमीका पूजन करके लोग अुसके पत्ते सोना समझकर लूटते हैं और अेक दूसरेको देते हैं । कुछ लोग तो शमीके नीचेकी मिट्टीको भी सुवर्ण समझकर ले जाते हैं ।

शमीका पूजन प्राचीन है । अैसा माना जाता है कि शमीके पेड़में अृषियोंका तपस्तेज है । पुराने ज़मानेमें शमीकी लकड़ियोंको आपसमें घिसकर लोग आग सुलगाते थे । शमीकी समिधा आहुतिके काम आती है । पाण्डव जब अज्ञातवास करने गये थे, तब अुन्होंने अपने हथियार शमीके अेक पेड़ पर छिपा रखे थे; और वहाँ कोअी जाने न पाये, अिसके लिये अुन्होंने अुस पेड़के तनेसे अेक नरकंकाल बाँध रखा था ।

रामचन्द्रजीने रावण पर जो चढ़ाअी की, सो भी विजयादशमीके मुहूर्त्त पर । आर्य लोगोंने—हिन्दुओंने—अनेक बार विजयादशमीके मुहूर्त्त पर ही धावे बोलकर विजय प्राप्त की है । अिससे विजयादशमी राष्ट्रीय विजयका मुहूर्त्त या त्योहार बन गया है । मराठे और राजपूत अिसी मुहूर्त्त पर स्वराज्यकी सीमाको बढ़ानेके हेतु शत्रु-प्रदेश पर आक्रमण

करते थे । शस्त्रास्त्रोंसे सजकर, और हाथी-घोड़ोंपर चढ़कर, नगरके बाहर जुद्धस ले जानेका रिवाज आज भी है । वहाँ शमीका और अपराजिता देवीका पूजन सीमोल्लंघनका प्रमुख भाग है ।*

ऐसा माना जाता है कि शमी और अश्मन्तक वृक्षमें भी शत्रुका नाश करनेका गुण है । अस्तुरेके पेड़को अश्मन्तक कहते हैं । जहाँ शमी नहीं मिलती, वहाँ अस्तुरेके पेड़की पूजा होती है । अस्तुरेके पत्तेका आकार सोनेके सिक्के की तरह गोल होता है, और जुड़े हुअे जवाबी कार्ड (Reply Card)की तरह अुसके पत्ते मुड़े हुअे होते हैं, जिससे वे ज्यादा खूबसूरत दिखायी देते हैं ।

दशहरेके दिन चौमासा लगभग खत्म हो जाता है । शिवाजीके किसान-सैनिक दशहरे तक खेतीकी चिन्तासे मुक्त हो जाते थे । कुछ काम बाक़ी न रहता था । सिर्फ़ फ़सल काटना ही बाक़ी रह जाता था । पर अुसे तो घरकी औसत, बच्चें और बूढ़े लोग कर सकते थे । अिससे सेना अिकट्टी करके स्वराज्यकी सीमाको बढ़ानेके लिये सबसे नज़दीक मुहूर्त दशहरेका ही था । अिसी कारण महाराष्ट्रमें दशहरेका त्योहार बहुत ही लोकप्रिय था और आज भी है ।

हम यह देख सके हैं कि विजयादशमीके अेक त्योहार पर अनेक संस्कारों, अनेक संस्करणों और अनेक विश्वासोंकी तहें चढ़ी हुअी हैं । कृषि-महोत्सव कषात्र-महोत्सव बन गया; सीमोल्लंघनका परिणाम दिग्विजय तक पहुँचा; स्व-संरक्षणके साथ सामाजिक प्रेम और धनका विभाग करनेकी प्रवृत्तिका सम्बन्ध दशहरेके साथ जुड़ा ।

* महिषासुर नामके अेक प्रबल दैत्यने बड़ा आतंक फैलाया था । जगदंबाने नौ दिन तक अुससे युद्ध करके विजयादशमीके दिन अुसका वध किया था । अिस आशयकी अेक कहानी पुराणोंमें मिलती है । अिसीलिये अपराजिताका पूजन करने और महिष यानी भैसेकी बलि चढ़ानेका रिवाज पड़ा है ।

लेकिन अेक अैतिहासिक घटनाको दशहरेके साथ जोड़ना अभी हम भूल गये हैं, जोकि अिस ज़मानेमें अधिक महत्त्वपूर्ण है । “ दिग्विजयसे धर्मजय श्रेष्ठ है । बाह्य शत्रुका वध करनेकी अपेक्षा हृदयस्थ षड्रिपुओंको मारनेमें ही महान् पुरुषार्थ है । नवधान्यकी फ़सल काटनेकी बनिस्बत पुण्यकी फ़सल काटना अधिक चिरस्थायी होता है । ” सारे संसारको अैसा अुपदेश देनेवाले मारजित, लोकजित, भगवान् बुद्धका जन्म विजयादशमीके शुभ मुहूर्त्त पर ही हुआ था । विजयादशमीके दिन बुद्ध भगवान्का जन्म हुआ, और वैशाखी पूर्णिमाके दिन अुन्हें चार शान्तिदायी आर्यतत्त्वोंका और अष्टांगिक मार्गका बोध हुआ, यह बात हम भूल ही गये हैं । विष्णुका वर्त्तमान अवतार बुद्ध अवतार ही है । अिसलिअे विजयादशमीका त्योहार हमें भगवान् बुद्धके मार-विजयका स्मरण करके ही मनाना चाहिये ।

अक्टूबर, १९२२

क्या यही दशहरा है ?

शं नो अस्तु द्विपदे, शं चतुष्पदे । — वेदवचन

द्विपदों (दो पाँववालों)का कल्याण हो; चतुष्पदों (चौपायों)का भी कल्याण हो !

दो पाँव और चार पाँववाले अपने बालकोंसे भूमि-माताने कहा — “ मेरे बच्चो ! मेरी घास और अनाज तुम्हारे-लिअे ही हैं । वही मेरा दूध है । जो पियेगा वह पुष्ट होगा । ”

दो पाँववाले मनुष्य बड़े भाभी और चार पाँववाले पशु छोटे भाभी थे । बड़े छोटोंकी देखभाल करते; छोटे बड़ोंकी आज़ामें रहते । दोनोंने ज़मीन पर मेहनत की, और सब जगह मलयजशीतला और सुजला धरती सुफला और शस्य श्यामला हो गयी; सर्वत्र आनन्द छा गया ।

मनुष्य बोला — “ चलो, हम बँटवारा करके अुत्सव मनायें ! ”
पशुओंने कहा — “ ठीक तो है ! अुत्सव मनाना ही चाहिये ! ”

मनुष्यने अनाज लिया और पशु घास चरने लगे । अुत्सव शुरू हो गया । लेकिन जीभके लालचमें पढ़कर धर्मबुद्धि भ्रष्ट हुअे मनुष्यको अचानक कुछ सूझा । मनुष्यने पशुको खींचा और अुसकी गर्दन पर छुरी चलाते हुअे कहा — “ अुत्सवका यह भी अेक आवश्यक भाग है । ”

धरती काँप अुठी; आकाश रोने लगा; और दिशाअें बोल अुठीं — “ क्या यही अुत्सव है ? ”

दशहरा

कुआर सुदी १०

१ दिन

यह त्योहार वीरताका है । कुश्ती, गजग्राह (टग् ऑफ वॉर) पटा, आदि मूर्दाने खेल खेलनेका रिवाज जारी रखने लायक है । दशहरेके दिन शहरसे बाहर जाकर वहाँ सामाजिक अुत्सव मनाना चाहिये । अपनी कमाअीमेंसे जितने पैसे बचाये जा सकें, अुतने बचाकर दशहरेके दिन वे किसी अच्छे कामके लिअे दानमें दिये जायँ ।

सालभरमें कोअी महत्कृत्य करनेका संकल्प दशहरेके दिन किया जाय । यह सीमोल्लंघनका दिन है । अिस दिन अेकाध कदम आगे बढ़ना चाहिये ।

दशहरेके दिन सिर्फ वाद्योंका जलसा रखा जाय । यदि विद्यार्थियोंने क़वायद सीखी हो, तो अिस दिन अुसका भी प्रदर्शन किया जा सकता है ।

यह नहीं भूलना चाहिये कि दशहरेका प्रारंभ मातृपूजामेंसे हुआ है । देवीपूजाका रहस्य अिस दिन समझाया जाना चाहिये ।

सावेभौम धम

कुआर सुदी १५

ग्रीष्मकी असह्य गरमीके बाद जब वृष्टि होती है, तब सब जगह कीचड़ ही कीचड़ फैल जाता है। आखिर जब सृष्टि तृप्त हो जाती है, तभी उस कीचड़को दबाकर या सुखाकर ज़मीन और जलाशयको अनाविल (निर्मल) करनेकी ओर उसका ध्यान जाता है।

महान् आपत्तिके साथ जूझते हुअे मनुष्यको धर्माधर्मका क्यादा खयाल नहीं रहता। इस स्थितिको समझकर ही बुद्धिमान लोगोंने यह पुरानी सिखावन दी है कि किसी भी धर्मका आश्रय करके काम चलाया जाय, और आपत्तिसे बच जानेके बाद 'समर्थो धर्ममाचरेत्'।

स्वतंत्र, स्वायत्त होनेके बाद सूझनेवाला शान्तिका, समृद्धिका और निर्मल प्रसन्नताका अेक सार्वभौम धर्म होता है, वही शरद है।

अिसी धर्मको जिसने अपना हमेशाका, निरपवाद धर्म बनाया, वही धर्मराट् हो गया। ग्रीष्मकी गरमीसे और वर्षाके पानीसे जो अच्छी तरह बच निकले और शरदकी प्रसन्नताको जिन्होंने पा लिया, वे ही जिये, वे ही जीते।

अिसीलिअे अृषियोंने प्रार्थना की —

अजिता स्याम शरदः शतम् ।

१९३५

शरद् पूर्णिमा

कुआर सुदी १५

१ दिन

ब्रह्माण्ड पुराणमें कहा गया है कि शरद पूनोके दिन शहरके रास्तोंको साफ़ करके अुन्हें सुगंधित जलसे सम्मार्जित किया जाय; स्थान-स्थान पर फूल बिछाये जायँ और चंदोवे लगाये जायँ।

शरद् पूनो प्रकृतिके काव्यका अनुभव करनेका दिन है । अिस दिन लक्ष्मी सर्वत्र घूमती हैं । लक्ष्मीके मानी धन-दौलत नहीं, बल्कि प्रकृतिकी शोभा, तारोंमें विराजमान चन्द्रकी शोभा, और अुसकी चाँदनीका हृदय पर होनेवाला जादुअी असर । शरद् पूनो कलाका दिन है । अिस दिन सुन्दर प्रदर्शिनियोंका आयोजन किया जाय; तरह-तरहके काव्योंकी रचना की जाय ।

नया धान आया हो, तो अुसका चिअुड़ा बनाकर नारियलके साथ खाया जाय । नारियल अर्थात् प्रकृतिका दूध न मिले, तो गौमाताका दूध तो है ही ।

समाज-सेवकोंको चाहिये कि वे आज लोगोंको राजा नल और युधिष्ठिरकी कहानियाँ सुनाकर द्यूत-क्रीड़ाका निषेध करें ।

छोटे-बड़े सब मिलकर चाँदनीमें कबड्डी खेलें । छिर्यौँ और लड़कियाँ गरबा (रास) खेलें । वृद्ध अपने जीवनके बोधरसिक प्रसंगोंका वर्णन करें ।

हो सके तो रातको दो बजे अुठकर मध्यरात्रिकी नीरव शान्तिमें तारोंका दिव्य संगीत सुना जाय । च्रौमासेके बादल-भरे आकाशके बाद यह सबसे पहली निरभ्र, निर्मल पूर्णमासी है; और ज्योतिःशास्त्रज्ञोंके कथनानुसार अिस दिन चन्द्र पृथ्वीके अधिक-से-अधिक नज़दीक आ जाता है ।

वैदिक कर्मकाण्ड परसे जिनका विश्वास अुठ गया है, अैसे लोग भी वैदिक ब्राह्मणोंको बुलाकर अुनसे मंत्रजागर (पारायण) करावें । वेदमंत्रोंका शुद्ध, सस्वर अुच्चारण तो आजकल सुननेको भी नहीं मिलता । पुरानी संस्कृतिका यह अवशेष निश्चित रूपसे टिकाये रखने लायक है । अिस पूर्णिमाको गायनका जलसा तो होना ही चाहिये ।

धन-तेरस

कुआर बदी १३

१ दिन

यह त्योहार दीवालीकी तैयारीका है । लोक-कथाके अनुसार यह युवकोंकी अपमृत्युसे भुत्पन्न दयाका त्योहार है । रात कागज़ या पत्तोंकी छोटी-छोटी नावें बनाकर, और उनमें अेक-अेक दीया जलाकर, उन नावोंको नदीमें तैरनेके लिअे छोड़ देना अिस दिनका प्रमुख आनन्द है । जहाँ नदी न हो, वहाँ तालाबमें भी दीपक छोड़े जा सकते हैं । हाँ, शान्त पानीको कुछ हिलाना होगा । युवकोंकी असमय-मृत्युकी संख्या समाजमें बढ़ती जा रही है । अिसके कारणोंकी खोज करनेकी योजनाके बारेमें समाजके नेता आज विशेष रूपसे चर्चा करें; और युवकोंको जो शिक्षा देनी हो, दें ।

गायोंके समूह (रेवड़)की पूजा भी अिस दिनके लिअे कही गयी है; अिस विषयमें जो संभव हो, किया जाय ।

दीवाली

१. बलिका राज

कुआर बदी ३०

बलि राजाने दानका व्रत लिया था । जो याचक जो वस्तु माँगता, राजा उसे वह वस्तु दे देता । बलिके राज्यमें जीव-हिंसा, मद्यपान, अगम्यागमन, चोरी और विश्वासघात — अिन पाँच महापापोंका कहींनाम तक न था । सर्वत्र दया, दान और अुत्सवका बोलबाला रहता था । अन्तमें बलिराजाने वामन-मूर्ति श्रीकृष्णको अपना सर्वस्व अर्पण किया । बलिकी अिस दानवीरताके स्मारकके रूपमें श्रीविष्णुने बलिके नामसे तीन दिन-रातका त्योहार निश्चित किया । यही हमारी दीवाली है । बलिके राज्यमें आलस्य, मलिनता, रोग और दारिद्र्यका अभाव था । बलिके राज्यमें या लोगोंके हृदयमें अंधकार न था । सभी प्रेमसे रहते थे । द्वेष, मत्सर या असूयाका कारण ही न था । बलिका राज्य जन-साधारणके लिअे अितना लोकोपकारी था कि अुसके कारण प्रत्यक्ष श्रीविष्णु अुसके द्वारपाल बनकर रहे । अिसी कारण यह निश्चित किया गया कि बलिराजाके स्मारकस्वरूप अिस त्योहारसे पहले लोग कूड़ा-कचरा, कीचड़ और गंदगीका नाश करें; जहाँ-जहाँ अँधेरा हो, वहाँ दीपावलिकी शोभा करें; लोगोंके प्राण लेनेवाले यमराजका तर्पण करें; पूर्वजोंका स्मरण करें; मिष्टान्न भक्षण करें, और सुगन्धित धूप-दीप तथा पुष्प-पत्रोंसे सुन्दरता बढ़ावें । अिन दिनों सायंकालकी शोभा अितनी मनोहारी होती है कि यक्ष, गंधर्व, किन्नर, ओषधि, पिशाच, मंत्र और मणि सभी अुत्सवका नृत्य करते हैं । बलि-राज्यका स्मरण करके लोग तरह-तरहके रंगोंसे चौक पूरते हैं; सफेद चावल लगाकर भँति-भँतिके सुन्दर चित्र बनाते हैं; गाय, बैल आदि गृह-पशुओंको सजा-धजाकर

अनुका जुलूस निकालते हैं; श्रेष्ठ और कनिष्ठ सब मिलकर यष्टिका-कर्षणका खेल खेलते हैं। यष्टिकाकर्षण युरोपीय लोगोंके रस्सी खींचनेके 'टग ऑफ़ वॉर'—जैसा अेक खेल है। अिसीको हमने 'गजप्राह'का नया नाम दिया है। पुराने ज़मानेमें राजा लोग दीवालीके दिन अपनी राजधानीके सभी लड़कोंको सार्वजनिक रूपसे आमंत्रण देते थे और अनुसे खेल खेलाते थे।

सुगंधित द्रव्योंकी मालिश करके नहाना, तरह-तरहके दीये क़तारमें जलाना और अिष्ट-मित्रोंके साथ मिष्टान्नका भोजन करना दीवालीका प्रधान कार्यक्रम है। बलिके राज्यमें प्रवेश करना हो, तो द्वेष, मत्सर असूया, अपमान आदि सब भूलकर सबके साथ अेकदिल हो जाना और अिस तरह निष्पाप- होकर नये वर्षमें प्रवेश करना हमारा प्राचीन रिवाज है।

अिसी दिन सत्यभामाने श्रीकृष्णकी मददसे नरकासुरका नाश करके सोलह हज़ार राजकन्याओंको मुक्त किया था।

दीपावलिके अुत्सवमें स्त्रियोंकी अुपेक्षा नहीं की गयी है। स्त्री-पुरुषोंके सब सम्बन्धोंमें भाअी-बहनका संबंध शुद्ध सात्विक प्रेम और समानताके अुल्लासका होता है। पति-पत्नीका या माता-पुत्रका सम्बन्ध अितना व्यापक और अितना सात्विक अुल्लासयुक्त नहीं होता।

धन-तेरससे लेकर भाअी-दूज तकके पाँचों दिनोंके साथ यम-राजका नाम जुड़ा हुआ है। भला, अिसका अुद्देश्य क्या होगा ?

अिन्द्रप्रस्थका राजा हंस मृगयाके लिये घूम रहा था। हैम नामक अेक छोटेसे राजाने अुसका आतिथ्य किया। अुसी दिन हैमके यहाँ पुत्रोत्सव था। राजा आनन्दोत्सव मना ही रहा था कि अितनेमें भवितव्यताने आकर कहा कि विवाहके बाद चौथे ही दिन यह पुत्र सर्प-दंशसे मर जायगा। हंस राजाने अुस पुत्रको बचानेका निश्चय किया। अुसने यमुना नदीके दहमें अेक सुरक्षित घर बनवाकर हैमराजाको वहाँ आकर रहनेका निमंत्रण दिया।

सोलह साल बाद राजपुत्रका विवाह हुआ। विवाहसे ठीक चौथे ही दिन अुस दुर्गम स्थानमें भी सर्प प्रकट हुआ और राजपुत्र मर गया। आनन्दकी घड़ी अपार शोकमय बन गयी। क्रूर यमदूतोंको भी अिस करुण अवसरपर दया आयी, और अुन्होंने यमराजसे यह वर माँग लिया कि दीवालीके पाँच दिनोंमें जो लोग दीपोत्सव मनायें, अुन पर अिस तरहकी आपत्ति न आवे।

यह तो हुअी धनतेरसकी कहानी। नरक-चतुर्दशीके दिन तो यमराजका और भीष्मका तर्पण विशेषरूपसे कहा गया है। दीवाली तो अमावास्याका दिन। अुस दिन यमलोकवासी पितरोंका पूजन और पार्वण श्राद्ध तो करना ही पड़ता है। प्रतिपदाके दिन यमराजसे सम्बन्ध रखनेवाली कोअी कथा नहीं कही गयी है; लेकिन अैसा मान लेनेमें कोअी हर्ज़ नहीं कि यमराज भी अुस दिन अपना नया बहीखाता खोलते होंगे। भैयादूजके दिन यमराज अपनी बहन यमुनाके घर भोजन करने जाते हैं। दीवालीकी स्वच्छन्दताके साथ यमराजका स्मरण रखनेमें अुत्सवकारोंका अुद्देश्य चाहे जो रहा हो, लेकिन अिसमें शक नहीं कि अुसका असर बहुत अच्छा होता होगा। जिसने अुत्सवमें भी संयमका पालन किया होगा, वही यमराजके पाशसे मुक्त रह सकेगा।

नवम्बर, १९२१

२. दीवाली

दीवानखानेमें अेकाध सुन्दर चीज़ रखनेका रिवाज प्रत्येक घरमें होता है। बाहरका कोअी व्यक्ति आता है, तो सहज ही अुसकी नज़र अुस तरफ़ जाती है और वह पूछ बैठता है — “वाह ! कैसी बढ़िया चीज़ है ! यह आपको कहाँसे मिली ?” लेकिन अजायब-घरमें तो जहाँ देखिये वहाँ सुन्दर ही सुन्दर चीज़ें दिखायी देती

हैं । अन्हें देखकर मनुष्य बहुत खश होता है । लेकिन साथ ही वह अतना ही पसोपेशमें भी पड़ जाता है । वह भिसी सोचमें रहता है कि क्या देखूँ और क्या न देखूँ ?

हमारी दीवाली त्योहारोंका अेक अैसा ही अजायब-घर है । अिसे सब त्योहारोंका स्नेह-सम्मेलन भी माना जा सकता है । दीवालीका त्योहार पाँच दिनोंका माना जाता है । लेकिन सच पूछिये तो ठेठ नवरात्रिके त्योहारसे अिसका प्रारंभ होता है, और भाभीदूजकी भेंटमें अिसका आनन्द अपनी परिसीमा तक पहुँच जाता है ।

शास्त्रोंमें प्रत्येक त्योहारका माहात्म्य और कथा दी गयी है । दीवालीके बारेमें अितनी कहानियाँ हैं कि यदि 'दीवाली माहात्म्य' लिखा जाय, तो वह अेक बड़ा पोथा बन जायगा । धनतेरसकी कथा अलग, नरक चौदसकी कहानी अलग, और अमावस (दीवाली) की अपनी अेक कहानी अलग । अिसके बाद नया साल शुरू होता है । और दूजके दिन बहनके घर भाभी अतिथि बनकर जाता है । दीवाली गृहस्थाश्रमी त्योहार है; जनताका त्याहार है । श्रावणीके दिन धर्म और शास्त्र प्रधान होते हैं; दशहरेके दिन युद्ध और शस्त्रास्त्र प्रमुख रहते हैं, दीवालीके दिन लक्ष्मी और धनको प्राधान्य प्राप्त होता है, और होली तो खेल और रंग-रागका त्योहार है । जिस तरह मनुष्योंमें चार वर्ण हैं, अुसी तरह त्योहारोंमें भी चार वर्ण हो गये हैं ।

पुरातन कालमें लोग श्रावणीके दिन जहाजोंमें बैठकर समुद्र पार देश-देशान्तरमें सफ़र करने जाते थे । दशहरेके दिन राजा लोग और योद्धागण अपनी सरहदोंको पार करके शत्रु पर चढ़ाभी करने निकलते थे, और दीवालीके दिन राजा लोग और व्यापारीगण स्वदेश वापस आकर कौटुम्बिक सुखका अुपभोग करते थे ।

पुराणोंमें कथा है कि नरकासुर नामका अेक पराक्रमी राजा प्राग्ज्योतिषमें राज्य करता था । भूटानके दक्षिण तरफ़ जो प्रदेश

है, उसे प्राग्ज्योतिष कहते थे । आज वह असम प्रान्तमें सम्मिलन है नरकासुरका दूसरे राजाओंसे लड़ना तो घड़ीभरके लिये सहन कर लिया जा सकता था; किन्तु उस दुष्टने स्त्रियोंको भी सताना शुरू किया । उसके कारागारमें सोलह हजार राजकन्यायें थीं । श्रीकृष्णने विचार किया कि यह स्थिति हमारे लिये कलंकरूप है । अब तो नरकासुरका नाश करना ही होगा । सत्यभामाने कहा—“ आप स्त्रियोंके अुद्धारके लिये जा रहे हैं, तो फिर मैं घर कैसे रह सकती हूँ ? नरकासुरके साथ मैं ही लड़ूंगी । आप चाहे मेरी मददमें रहें ! ”

श्रीकृष्णने यह बात मान ली । उस दिन रथमें सत्यभामा आगे बैठी थीं और श्रीकृष्ण मददके लिये पीछेकी तरफ़ बैठे थे । चतुर्दशीके दिन नरकासुरका नाश हुआ । देश स्वच्छ हो गया । लोगोंने आनन्द मनाया । यह बतानेके लिये कि नरकासुरका बड़ा भारी जुल्म दूर हुआ, लोगोंने रातको दीपोत्सव मनाया और अमावसकी रातमें भी पूर्णिमाकी शोभा दिखलायी ।

लेकिन यह नरकासुर अेक बार मारनेसे मरनेवाला नहीं है । उसे तो हर साल मारना पड़ता है । चौमासेमें सब जगह कीचड़ हो जाता है, उसमें पेड़के पत्ते, गोबर, कीड़े वगैरा पड़ जाते हैं, और अिस तरह गाँवके आस-पास नरक — गंदगी — फैल जाता है । वर्षाके बाद जब भादोंकी धूप पड़ती है, तो अिस नरककी दुर्गंध हवामें फैल जाती है, जिससे लोग बीमार पड़ते हैं । अिसलिये बहादुर लोगोंकी आरोग्य-सेना कुदाली-फावड़ा वगैरा लेकर अिस नरकके साथ लड़ने जाय, गाँवके आस-पासके नरकका नाश करे, और घर आकर बदन पर तेल मलकर नहाये । गौशाला तो साफ़ की हुअी होती ही है; उसमेंसे मच्छरोंको निकाल देनेके लिये रात वहाँ दीया जलाये, धुँआँ करे और फिर प्रसन्न होकर मिष्ठानों और पक्वानोंका भोजन करे ।

दीवालीके बाद नया वर्ष शुरू होता है, और घरमें नया अनाज आता है । हिन्दुओंके घरोंमें वेदकालसे लेकर आज तक अिस नवान्नकी विधिका श्रद्धापूर्वक पालन होता है । महाराष्ट्रमें अिस भोजनसे पहले अेक कडुअे फलका रस चखनेकी प्रथा है । अिसका अुद्देश्य यह होगा कि कडुअी मेहनत किये बिना मिष्ठान्न नहीं मिल सकता । भगवद्गीतामें भी लिखा है कि आरंभमें जो ज़हरके समान है, और अन्तमें अमृतके समान, वही सात्त्विक सुख है । गोआमें दीवालीके दिन चिथुड़ेका मिष्ठान्न बनाते हैं, और जितने भी अिष्ट-मित्र हों, अुन सबको अुस दिन निमंत्रण देते हैं । अर्थात् प्रत्येक व्यक्तिको अपने प्रत्येक अिष्ट-मित्रके यहाँ जाना ही चाहिये । प्रत्येक घरमें फलाहार रखा रहता है, अुसमेंसे अेकाध टुकड़ा चखकर आदमी दूसरे घर जाता है । व्यवहारमें कटुता आयी हो, दुश्मनी बँधी हो, या जो भी कुछ हुआ हो, दीवालीके दिन मनसे वह सब निकाल देते हैं, और नया प्रीति-सम्बन्ध जोड़ते हैं । जिस प्रकार व्यापारी दीवाली पर सब लेन-देन चुका देते हैं, और नये बहीखातोंमें बाक़ी नहीं खींचते, अुसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति नये वर्षके प्रारंभमें हृदयमें कुछ भी बैर या ज़हर बाक़ी नहीं रहने देता । जिस दिन बस्तीमेंसे नरक — गंदगी — निकल जाय, हृदयसे पाप निकल जाय, रात्रिमेंसे अन्धकार निकल जाय और सिर परसे क़र्ज़ दूर हो जाय, अुस दिनसे बढ़कर दूसरा पवित्र दिन कौनसा हो सकता है ?

३०-११-'२१

३. मृत्युका अुत्सव

जो सोलहों आने पकी है, जिसके बारेमें तनिक भी शक नहीं, अैसी चीज़ जिन्दगीमें कौनसी है ? सिर्फ़ अेक; और वह है मृत्यु !

राजा हो या रंक, वूढ़ी कुब्जा हो या लावण्यवती अिन्दुमती, शेर हो या गाय, बाज़ हो या कबूतर, मृत्युकी भेंट तो हरअेकसे होने ही वाली है। अब सवाल यह है कि अिस निश्चित अतिथिका स्वागत हम किस तरह करें ?

हम जिस प्रकार अुसे पहचानते हो, अुसी प्रकार अुसका स्वागत करें। मृत्युका स्वरूप कटहल-जैसा है। अूपर तो सब काँटे ही काँटे होते हैं; अन्दरका स्वाद न मालूम कैसा हो ! मृत्यु अर्थात् घड़ीभरका आराम; मृत्यु अर्थात् नाटकके दो अंकोके मध्यावकाशकी यवनिका; मृत्यु अर्थात् वाणीके अस्खलित प्रवाहमें आनेवाले विराम-चिह्न। अंप्रेज़ कवि दूजके चाँदका स्वागत करते समय 'बालचन्द्रकी गोँदमें वृद्ध चन्द्र' कहकर अुमका वर्णन करते हैं। अमावस तक पुराना चन्द्र सूख जाता है, कर्षण हो जाता है। अब वह अपने पैरो पर कैसे खड़ा होगा ? अिसलिअे अुमसे पैदा हुआ बालचन्द्र अपनी बारीक भुजाअे फैलाकर अुस वूढ़े काले चन्द्रको अुठा लेता है, और दूसरे दिन पश्चिमके रंगमच पर ले आता है, और यो सारी दुनिया द्वारा तालियँ बजाकर किये जानेवाले स्वागतको स्वीकार करता है। मुसलमान लोग 'अीदका चाँद' कहकर अिसीका स्वागत करते हैं। मृत्यु तो पुनर्जन्मके लिअे ही है। प्रत्येक नयी पीढ़ी पुरानी पीढ़ीका तेज लेकर जवानीक जोशमें आगे बढ़ती रहती है; और पुरानी पीढ़ी बुढ़ापेके परावलंबनको महसूस करती हुआ लुप्त हो जाती है। यह कैसे भुलाया जा सकता है कि वूढ़ा, ढूँटा, जाडा प्रफुल्ल नववसन्तको अँगली पकड़कर ले आता है ? अिस बातको भुलानेसे काम न चलेगा कि हेमन्तकी काटनेवाली ठंडकमें ही वसन्तका प्रसव है।

दीवालीके दिन वसन्तकी अपेक्षासे, वसन्तकी मार्ग-प्रतीक्षासे, अगर हम दीपोत्सव कर सकते हैं, मिष्ठान्न भोजन कर सकते हैं, आनन्द और मंगलताका अनुभव कर सकते हैं, तो हम मृत्युसे क्यों न खुश हों ?

दीवाली हमें सिखाती है कि मौतका रोना मत रोओ, मृत्युमें ही नवयौवन प्रदान करनेकी, नवजीवन देनेकी शक्ति है, दूसरोमें नहीं ।

दीवालीका त्योहार मौतका अुत्सव है, मृत्युका अभिनन्दन है, मृत्यु परकी श्रद्धा है । निराशासे अुत्पन्न होनेवाली आशाका स्वागत है ।

रुद्र ही शिव है, मृत्युका दूसरा रूप ही जीवन है ।

यह किसे अच्छा न लगेगा कि यमराज अपना बहनके घर जायँ ? मृत्यु नित्यनूतनताके घर अुत्सव मनाये ?

मृत्यु अग्नि नहीं, बल्कि तेजस्वी रत्नमणि है, जिसे छूनेमें कोअी खतरा नहीं ।

अक्टूबर, १९२५

४. छोटे भाओके बिना दीवाली ?

दीवालीके दिन घरके सब कुटुंबीजन अिकट्टा होते हैं ।

दूर देशोंमें गये हुअे लोग भी, जहाँ तक हो सके, दीवालीके अवसर पर अपने घर वापस जानेके लिअे आतुर रहते हैं । दीवाली यानी मिश्रान्नका दिन । अिस दिन सभी अिष्टजन अिकट्टे न हुअे हो, तो मिश्रान्न मिष्ट कैसे लगे ? अगर अपना भाओ रूठ गया हो, तो अिस दिन हम अुसे मनाकर वापस घर लाते हैं । अगर अपने भाओके साथ हमने बुरा बरताव किया हो, तो अुससे माफ़ी माँगकर, और अुसे प्रेमकी रस्सीसे बाँधकर खीँच लाते हैं । हमारी सबसे बड़ी अिच्छा यह रहती है कि दीवालीके दिन अेक भी भाओ हमसे दूर न रहे ।

हमने अपने अेक भाओको — और वह भी सबसे छोटे (अन्त्य-ज) भाओको — अेक अरसेसे दूर रखा है; जान-बूझकर दूर रखा है, अुसका

तिरस्कार करके उसे दूर रखा है । फिर भी वह रूठा नहीं है । बेचारा कुछ निराश-सा हुआ है; कुछ आशाभरी दृष्टिसे घरकी ओर देख रहा है । अभी तक वह अपना हिस्सा नहीं माँग रहा है, किसी तरहका हक़ नहीं जता रहा है । तुम जिस हालतमें रखोगे, उस हालतमें रहनेको तैयार है; सिर्फ़ उसे घरके अन्दर स्थान चाहिये । वह अिसी बातका भूखा है कि भाभी कहकर हम उसे पुकारें । उसके बग़ैर हमारी दीवाली कैसे मनायी जायगी ? उसके बिना मिष्ठान्नमें रस कहाँसे आयेगा ? दीवालीके दिन हम अन्नकूट भले ही करें, लेकिन अीश्वर उसके अँचे शिखरकी तरफ़ देखता तक नहीं । वह तो छोटे भाभीकी प्रेमप्यासी आँखोंसे हमारी तरफ़ देख रहा है । जब तक हम छोटे भाभीको 'भैया' कहकर प्रेमसे अन्दर न बुलायेंगे, तब तक अीश्वरको 'त्वमेव माता च पिता त्वमेव' कहनेका हमें कोअी अधिकार नहीं ।

अक्टूबर, १९२५

नरक चतुर्दशी

अिस दिन कतवारखानोंसे कचरा निकालकर उसे खादके तौर पर खेतमें डाला जाय या किसी गढ़ेमें गाड़ दिया जाय । उसके बाद तेलसे मालिश करके गरम पानीसे नहाया जाय । पहलेसे तैयारी करके सफ़ेदी लगाये हुअे मकानपर चूना-हल्दी मिलाकर या किसी दूसरे रंगकी बारीक लकीरें खींची जायँ । दीवालोंपर तस्वीरें बनायी जायँ ।

नरकासुरकी कथा पढ़ी जाय ।

दीवाली

यह त्योहार अितना जाग्रत है कि अिसके संबंधमें कोअी खास नअी सूचनाअें देनेकी ज़रूरत नहीं । लड़के घर जाकर अपने

माँ-बापसे मिलें । अिष्ट-मित्र अेक-दूसरेसे मिलकर दिलोंकी सफ़ाभी करें । अेक-दूसरेको प्यारी चीज़ें भेंटमें भेजें ।

प्रत्येकको चाहिये कि वह रात सोनेसे पहले अिस बातकी जाँच करे कि सारे वर्षके संकल्पोंमेंसे कितने संकल्प पूरे हुअे । नये वर्षमें जीवनमें कौनसी नयी बातें दाख़िल की जा संकती हैं, पुरानी बातोंमेंसे कौनसी छोड़ देने लायक़ हैं, आदि सब बातोंका विचार करके सो जाय ।

दीवाली अर्थात् दीपावली, दीपोत्सवी । अिस दिन दीपोंका अुत्सव करना ही चाहिये ।

नया वर्ष

कार्तिक सुदी १

१ दिन

यह दिन प्रधानतया मित्रोंसे मिलने तथा गुरुजनोंके दर्शन करके अुनके आशीर्वाद प्राप्त करनेका दिन है । नये सालका नया संकल्प और सारे वर्षकी कुछ निश्चित योजना भी अिस दिन बनायी जाय । जो सोच सकते हैं वे अेक दो घंटे शांतिसे अेकान्तमें बैठकर प्रार्थनापूर्वक नये वर्षका संकल्प और अुसे पूरा करनेका विस्तृत कार्यक्रम मनमें तैयार करें, और जिनके सामने अिस तरहका संकल्प प्रकट करना अिष्ट हो; अुनको वह सुनायें तथा अपने पास अुसे अवश्य लिख रखें ।

कहाँ है भैयादूज ?

(कार्तिक सुदी २)

हिन्दू समाजमें स्त्रियोंकी स्थिति जैसी होनी चाहिये वैसी नहीं है । अितने सालोंसे चर्चाअें चल रही हैं; बहुत-से कुटुंबोंमें तब्दीलियाँ हुअी हैं, लोकमतमें भी काफ़ी परिवर्तन हुआ है; फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि आज स्त्रियोंकी हालत सन्तोषजनक है ।

परिस्थितिके दबावसे लाचार हुअे बिना जीवनमें कोअी हेरफेर न करनेकी मुमूर्धु जड़ताको समाज जब तक त्याग नहीं देता, तब तक यही हालत रहेगी ।

‘यही हालत’के क्या मानी ? ‘यही हालत’के मानी हैं, स्वभाव की परतंत्रता, हृदयकी दुर्बलता और सामाजिक भुन्नतिके श्रेष्ठ तत्त्वोंके विषयमें नास्तिकता । प्रचलित परिस्थितिसे भूबा हुआ मन प्रसन्नता प्राप्त करनेके लिअे हिन्दू आदर्शके वैभवकालकी तसवीरोंको दृष्टिके सामने खड़ा करनेको छटपटाता है, और अिस व्यापारमें हमें आज तक निराश नहीं होना पड़ा है । मदालसा, मैनावती, सुमित्रा, विदुला या जीजाबाअी जैसी आदर्श माताअें हमारे यहाँ हैं । आदर्श पत्नीके बारेमें तो हिन्दुस्तान हमेशा दुनियाके सब देशोंके अग्रभागमें ही रहेगा । अुनकी नामावलि सीता-सावित्रीसे शुरू करना आसान है, लेकिन अुस नामावलिका अन्त कहाँ होगा ?

आदर्श माता और आदर्श पत्नीकी मिसालें तो हमारे पास ढेरों पड़ी हुअी हैं । लेकिन आदर्श ब्रह्मचारिणियोंके विषयमें वैसा नहीं कहा जा सकता । प्राचीन युगमें नारीको अुपवीत दिया जाता था, अिस आशयके अिनेगिने वचन, और सुलभा, गार्गी, शबरी और मैत्रेयीके लोकविश्रुत अुदाहरण ही हमारे सामने हैं । वेदवती, धृतव्रता, वडवा, शुतावती आदि नाम तो नाम ही रह गये हैं । मोक्षको ही परमपुरुषार्थ माननेवाली ब्रह्मचारिणी स्त्रियोंके अितने कम अुदाहरण हों, यह कोअी शोभास्पद स्थिति नहीं ।

जहाँ स्त्रियोंकी सामाजिक स्वतंत्रताको भी स्वीकार नहीं किया गया है, वहाँ पारलौकिक स्वतंत्रता अर्थात् मोक्षके विषयमें कौन अुत्साह रखे ? हिन्दू, अीसाअी, बौद्ध और अिस्लाम् धर्ममें स्त्रियोंकी शक्तिके विषयमें न्यूनअधिक मात्रामें शंका ही दिखायी गयी है । जब आर्य आनन्दने बुद्धभगवान्से सीधे सवाल पूछे, तब अन्तमें बुद्धभगवान्ने

स्वीकार किया—‘निर्वाण प्राप्त करना स्त्रियोंके लिये अशक्य नहीं है।’ इस घटनाके सम्बन्धमें कुमारस्वामी-जैसे आधुनिक संस्कारी पुरुष हमसे पूछते हैं—“क्या यह बात सही नहीं है कि दुनियादारीकी वृत्ति पुरुषोंकी अपेक्षा स्त्रियोंमें अधिक है ?” बंकिमचन्द्रजीने भी ‘आनन्दमठ’में अस्पष्ट रूपसे इस बातका सूचन किया है कि मोक्षधर्मके साथ स्त्रियोंकी घोर दुश्मनी है।

जहाँ इस तरहकी धारणा हो, वहाँ आदर्श ब्रह्मचारिणियोंकी संख्या कम ही रहेगी। और, मोक्ष-प्राप्तिकी अिच्छा ही जहाँ मन्द हो, वहाँ ब्रह्मचर्य-जैसी कठिन दीक्षा लेनेकी बात किसे सूझेगी ? (यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति।)

‘तेऽपि यान्ति परां गतिम्’ कहकर गोपीजनवल्लभ श्रीकृष्णने शूद्रोंके साथ स्त्रियोंको भी आश्वासन दिया। लेकिन भगवान्ने कोअी आदर्श ब्रह्मचारिणी तैयार की हो, तो पुराणकारोंने उसका कहीं अल्लेख नहीं किया है।

वीरमाता, वीरांगना, वीरकन्या, जैसे बहादुरीके आदर्श हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रामें न सही, फिर भी बहुत हैं। तेजस्वितामें हमारे सामने सिर्फ द्रौपदी और झाँसीकी रानी लक्ष्मीबायी हों, तो भी हमारे समाजके मुखको अुज्ज्वल करनेके लिये वे काफी हैं।

आदर्शोंके प्रकारोंमें एक त्रुटि ऐसी है, जो हमें चुभे बिना नहीं रहती। गृहस्थाश्रम और संन्यास, बड़े-बड़े संघ और अविभक्त कुटुंब, किसीका भी वर्णन पढ़ें, और आदर्शोंको जाँचें, सबको देखकर यही कहा जा सकता है कि हमारे यहाँ आदर्श भाओ-बहनोंके चित्र हैं ही नहीं। श्रीकृष्ण भगवान्ने सुभद्राकी अपेक्षा द्रौपदीके बन्धुत्वका अधिक खयाल रखा। इस अेक अुज्ज्वल दृष्टान्तको छोड़ दें, तो बाक्री क्या रहता है ? महेन्द्र और संघमित्राको आदर्श मिशनरी कहा जा सकता है; मगर यह नहीं कह सकते कि अुन्होंने आदर्श बन्धु-भगिनीकी कोअी मिसाल पेश की हो।

आदर्श बन्धु-भगिनीका विचार करते समय भावावेशके साथ उनका स्मरण नहीं हो आता । आद्य और आर्ष कवि वाल्मीकिको भी मानव-जीवनके सभी सम्बन्ध सूझे, लेकिन अेक भाभी-बहनके आदर्शका चित्रण करनेकी न सूझी । अितना ही नहीं, बल्कि अुस बेचारी शान्ता (श्रीरामचन्द्रजीकी बहन)का भी वे अुपयोग न कर सके । पौराणिक तथा अैतिहासिक साहित्यमें कहीं भी बन्धु-भगिनीका आदर्श रूढ़ हुआ दिखायी नहीं देता । यही क्यों, कल्पित साहित्यमें भी हमारे कवियोंने भाभी-बहनके अुज्ज्वल आदर्शका चित्रण करनेमें कहीं अपनी प्रतिभाका अुत्कर्ष नहीं दिखाया । सम्राट् श्रीहर्ष अपनी बहन राज्यश्रीको छुड़ानेके लिअे जंगलकी तरफ़ दौड़ा — अगर यह प्रेमपूर्ण प्रसंग अन्य देशोंके कवियोंके हाथ आता, तो न मालूम अुसे लेकर अुन्होंने कितने ही अमर काव्य लिखे होते !

हमारे कवियोंने यह अकषम्य प्रमाद क्यों किया होगा ? जिसके भाभी नहीं है, अुप कन्याके साथ ब्याह भी न करना चाहिये—यहाँ तक कह देनेवाले हमारे शास्त्रकारोंने भी भाभी-बहनके सम्बन्ध पर अपनी धर्मबुद्धि खर्च नहीं की । अिसका कारण ? बाल-विवाह ? जहाँ आठ-दस सालकी होनेसे पहले ही लड़की विवाहित होकर पीहर जाती हो, वहाँ भाभी-बहनके सम्बन्धके विकासको अवकाश ही कहाँ ? लेकिन हमारे यहाँ बाल-विवाह आदि कालसे नहीं होता था । वेदमें यम-यमीके विख्यात यमल (जोड़ी)का काव्यमय अुल्लेख है । यमके मरने पर यमीके अँसू किसी तरह रुकते न थे । सभी देवोंने यमीको शान्त करनेकी चेष्टा की, किन्तु अुसका सांत्वन न होता था । अन्तमें देवोंने रात्रिका निर्माण किया । रात बीत गयी, और यमी भाभीकी मृत्युका दुःख कुछ भूल-सी गयी । अुस रातके बाद ही आज और कलका भेद शुरू हुआ । अुससे पहले तो हमेशा 'आज' ही 'आज' रहता था ।

वेदोंने यम-यमीके बन्धु-भगिनी प्रेमका वर्णन तो बहुत बढ़िया किया है; लेकिन अन्होंने इस रूपकको बिलकुल बिगाड़ डाला है। संभव है, इसी कारण हमारे कवियोंकी रुचि इस विषयसे हट गयी हो, और उसके बाद अुनमें भाभी-बहनके काव्यमय तथा आध्यात्मिक सम्बन्धका चित्रण करनेका अुत्साह ही न रहा हो। कच और देवयानीके बारेमें भी मामला इसी तरह बिगड़ गया है। इसीलिअे भाभी-बहनके पवित्र सम्बन्धके विषयमें कविगण नास्तिक बन गये होंगे। अनेक युगोंसे भारतवासी हर साल भाभीदूजका त्यौहार मनाते आये हैं; फिर भी किसी कविके मनमें यह विचार न आया कि वह भाभी-बहनके सम्बन्धको प्राधान्य देकर कोअी महाकाव्य लिखे।

अिस तरह निराश मन जब अपनी हताश दृष्टि लोक-साहित्यकी ओर डालता है, तो वह आनन्दाश्चर्यसे आर्द्र हो जाती है। भाभी-बहनका सम्बन्ध अनादि है, हृदयसहज है, सार्वभौम है। अुसे लोक-हृदय कैसे भूले? लोक-गीतों और लोक-कथाओंमें जहाँ देखिये वहाँ भाभी-बहनके मीठे सम्बन्धकी स्मृतियाँ बिखरी पड़ी हैं। भविष्यके सामाजिक आदर्शको गढ़नेवाले आजके कवियो! अिस बिन जुते षपेत्रकी ओर दृष्टि डालिये, और स्त्री-पुरुषके बीचके अिस अेकमात्र निर्विकार, निष्काम, और समानतापूर्ण सम्बन्धका चित्रण करनेमें अपना शक्तिसर्वस्व खर्च कीजिये।

भैयादूज

कार्तिक सुदी २

१ दिन

सब त्योहारोंमें अिस त्योहारका काव्य कुछ अनूठा ही है। जिन स्कूलोंमें लड़कोंके साथ लड़कियोंको भी स्थान हो, वहाँ तो यह दिन विशेषरूपसे मनाया जा सकेगा। अिस दिनका नास्ता या पूरा भोजन लड़कियाँ ही बनायें, और वे सब लड़कोंको परोसें।

यह रिवाज भी अच्छा है कि लड़के अपने हाथसे बनायी हुयी कोयी भी भुपयोगी वस्तु बहनोंको भेंट-स्वरूप दें । अपने हाथसे काते हुये सूतकी खादीका टुकड़ा, कोयी किताब, दवात या अिसी तरहकी कोयी वस्तु दी जा सकती है ।

भायी-दूजके दिन प्रत्येक विद्यार्थी अपनी बहनको पत्र तो ज़रूर लिखे । अिस तरहके पत्रोंकी नक़लें जमा करके व्यक्तिगत रूपसे पढ़ी जायँ, तो भुसमें कोयी हज़र्न नहीं । लेकिन अिसमें कृत्रिमता न आनी चाहिये । कोयी कृष्ण-द्रौपदीकी कथा लिखे या भुस पर कविता करे ।

संस्थामें तो सब विद्यार्थी सभी विद्यार्थिनियोंके भायी हैं । उनमें अैसा भेद नहीं होना चाहिये कि वे किसी खास भायी या बहनको चुनें ।

महा अेकादशी

कार्तिक सुदी ११

०॥ दिन

अिस दिन देव-शयन और देव-प्रबोधनका रहस्य कोयी शिष्यक समझायें । चातुर्मास्यका अुद्यापन करें । तुलसीकी कहानीके सम्बन्धमें थोड़ा-बहुत विवेचन हो । महा अेकादशीके दिन सब लोग सवेरे चार बजे नहाकर प्रार्थनामें अुपस्थित रहें । कार्तिक-स्नानका माहात्म्य विशेष समझा गया है । प्रार्थनामें गीताका पंद्रहवाँ अध्याय पढ़ा जाय । पेड़ोंकी क्यारियाँ साफ़ करके अुन्हें पानी देनेमें सभी लोग अिस दिन थोड़ा-थोड़ा समय व्यतीत करें । यह अिस दिनका महायज्ञ है । महा अेकादशीका फलाहार तो है ही । हो सके तो दशमीकी शामको कुछ न खाया जाय । महा अेकादशीके दिन संगीतयुक्त भजनको अधिक समय देना चाहिये ।

अेकादशियाँ दो आयें, तो संस्थामें दूसरीको पसन्द किया जाय । वैष्णव धर्ममें भक्ति, चारित्र्यकी शुद्धि और मनुष्य-मनुष्यके बीचकी समानता, अिन तीन बातों पर विशेष ज़ोर दिया गया है । छात्रोंको यह बात अच्छी तरह समझा दी जाय ।

युद्ध-गीताकी जयन्ती

आज धर्मयुद्धकी अखंड प्रेरणा देनेवाली भगवद्गीताकी जयन्ती है। गीता ग्रंथ नहीं, बल्कि राष्ट्र-माता है। आज उसका सन्देश भारत द्वारा सारी दुनियाके लिये है। जब गीता पहले-पहल गायी गयी, उन दिनों वर्षका प्रारम्भ मार्गशीर्ष महीनेसे होता था। मार्गशीर्षको वैदिक लोग अग्रहायण कहते थे। आज भी हमारे देहाती लोग उसे अग्रहन कहते हैं। गीतामें भगवान् कहते हैं — 'महीनोंमें मैं श्रेष्ठ महीना मार्गशीर्ष हूँ।' और, इस महीनेमें भी मोक्षदा अेकादशीके दिन गीता-माताका स्मरण होना स्वाभाविक है। गीताका स्मरण आते ही यह कहा जा सकता है कि गीताने हृदयमें जन्म लिया है। वहीं उसका मन्दिर बनानेके लिये हम गीताजयन्ती मनाते हैं। भला, गीतामाताके लिये भीट-पत्थरका मन्दिर कैसे बनाया जाय? गीताकी स्थापना तो हृदय-मन्दिरमें ही की जा सकती है। गीताकी पूजा चावल, फूलों या पत्तोंसे नहीं की जा सकती। गीताको तो तभी सन्तोष होगा, जब हम अपना सारा जीवन उसके लिये अर्पण कर दें।

गीता कहती है कि अितने कच्चे मत बनो कि सुख-दुःख तुम्हें आसानीसे दबा लें। तुम्हें जय-पराजयकी भी परवाह न होनी चाहिये। जो निश्चयी हैं, आग्रही हैं, हठी हैं, वे मनमें आयी हुअी चीजको आखिरकार प्राप्त कर ही लेते हैं। इसलिये निर्मल बनो, वीर बनो। लम्बी यात्राके लिये निकले हुअे लोगोंको रास्तेमें जाड़ा भी सहना पड़ता है, और गरमी भी बरदाश्त करनी पड़ती है। रास्तेमें दिन भी निकल आता है, और रात भी हो जाती है। पर यात्रा तो चलानी ही चाहिये। समग्र जातिकी अैसी जीवन-यात्रा व्यक्तिगत स्वार्थके लिये न हो, संकुचित स्वार्थके लिये

न हो, अिस यात्राके लिये निकले हुअे लोगोंको 'सर्वभूतहितेरताः' होना चाहिये । अुनके मनमें किसीके प्रति द्वेषभाव तो होना ही न चाहिये । गीताधर्मी लोग सिर्फ अीश्वरको पहचानते हैं । सभी जीव अीश्वरके ही बालक होनेसे वे किसीका द्वेष नहीं करते । अुनका युद्ध तो पाप, अनाचार और अत्याचारके विरुद्ध ही अखंड रूपसे चलता रहेगा । कामरूपी, वासनारूपी, दुरासद शत्रुका असहकारके दृढ़ शस्त्रसे छेदन करके वे ज़रूर अविचल पद प्राप्त करेंगे । जो लोग अिस युद्धकी दीक्षा लेते हैं, अुनके लिये गीताजयन्ती है । धर्मयुद्धसे अिनकार नहीं किया जा सकता । अिनकार करनेसे स्वधर्म और कीर्ति दोनोंका नाश होता है, और पल्लेमें सिर्फ पाप और थुक्का-फ़ज़ीहत ही आ पड़ती है । धर्मयुद्धमें गँवाने-जैसा कुछ है ही नहीं । जीत जायँ, तो भी धर्मकी विजय; मारे जायँ, तो भी धर्मकी ही विजय ।

गीता कहती है कि अिस बातकी फ़िकर कभी मत करो कि हम मुट्ठीभर ही हैं । हम अपना हृदय अुन्नत करें; हम श्रेष्ठ बन जायँ । लोग तो आप ही आप हमारे पीछे आ जायँगे । जिधर श्रेष्ठ व्यक्ति प्रयाण करेंगे, अुधर आम लोग तो जायँगे ही । अगर हम आलसी बन गये, रुक गये, तो जनताको नष्ट करनेका पाप हमारे मत्थे पड़ेगा ।

गीताजीने यह भी कहा है कि धर्मवीरकी शिक्खा कैसी होनी चाहिये । धर्मवीर अिन्द्रियोंके लालचमें नहीं फँसेगा, सुख-दुःखमें बह न जायगा; न लाभ-हानिसे ललचायेगा, और न दबेगा । वह तो वीर है । ओछे कामोंमें वह अपने जीवनको फ़.जूल खर्च न करेगा । वह अीश्वरका सैनिक है । जब वह धर्मकी ग्लानि देखता है, अधर्मका अभ्युत्थान देखता है, तब अिस विश्वासको मनमें धारण करके कि भगवान् स्वयं आनेवाले हैं, भगवान्के धर्म-संस्थापनाके सन्देशको सुननेके लिये वह तैयार रहता है । जिनकी करतूतें

दुष्ट हैं, अुनके पास वह नहीं फटकता । साधुओंकी रक्षार्थके लिये वह हमेशा कटिबद्ध रहता है । अिस विचार या भीतिसे वह कर्मका त्याग नहीं करता कि कर्मके पीछे कष्ट हैं । सर्दी-गर्मीको भूलकर, लाभ-हानिका तनिक भी विचार किये बिना, मनमें किसी प्रकारके मत्सरको स्थान न देते हुअे, यहच्छासे जो कुछ मिलता है, अुसीमें सन्तोष मानकर वह लड़ता ही रहता है । बड़े यज्ञका प्रारम्भ करनेके बाद वह जो कुछ भी करता है, यज्ञके लिये ही करता है । यज्ञके बाद जो कुछ बचे, वही खानेका अुसे अधिकार है, अिसे समझकर वह अुतना ही लेता है । महाप्रबल शत्रुका छेदन करनेसे पहले अपने हृदयकी दुर्बलता और संशय वृत्तिका ही वह छेदन करता है । जब संशयवृत्ति चली जाती है, अविश्वास नष्ट हो जाता है, तब सहज श्रद्धाके कारण वह वज्रकाय बन जाता है । अीश्वरका कार्य करनेमें संशय किस बातका ? चिन्ता किस बातकी ? धर्मवीर कहता है कि मैं तो कुछ करता ही नहीं, परमेश्वर जैसी प्रेरणा देता है, वैसा करता हूँ । और, अैसा करते हुअे मर भी जाऊँ तो क्या ? अेक जन्मके बाद दूसरा तो आने ही वाला है । अिस जन्ममें अच्छा काम किया हो और वीरकी मृत्यु पायी हो, तो नया जन्म आजकी अपेक्षा बुरा तो होगा ही नहीं; कुछ अच्छा ही होगा । हमेशा अीश्वरका स्मरण रखकर लड़ना है । अीश्वरका ध्यान क्रायम रहेगा, तो अन्तमें अीश्वरके पास ही पहुँचा जा सकेगा ।

गीता कहती है कि लोगोंका जीवन-मरण, कल्याण-अकल्याण, काल-पुरुष परमात्माके हाथमें है । अुसे जो करना होगा, वही होगा । हम अुसके हाथके निमित्तमात्र हैं, खिलौने हैं । भूतमात्रके कल्याणको मनमें रखकर, किसी प्रकारके राग-द्वेषको मनमें स्थान न देकर, हम प्रभुके वचनका पालन करें । जब हम निर्वैर रहेंगे, तभी प्रभुके पास पहुँच सकेंगे । हम अुसका ध्यान धरें; वह हमारा अुद्धार करेगा ।

तमाम दुनियाकी सत्ता और सहूलियतोंको अपने ही हाथमें रखनेके आग्रहसे प्रवृत्ति करनेवाले राक्षस कभी होते हैं । वे तो विलासितामें ही विश्वास रखते हैं । अुसके लिअे वे न्याय-अन्यायका भी विचार नहीं करते, और दुनियाका धन जहाँ-तहाँसे खींच लाते हैं । वे अपने मनमें हवाभी किले बनाते हैं — “ देखो, आज अितना मिला; ये मेरे मनोरथ अब तृप्त होंगे; अितना धन तो मेरे पास है ही, अितना और मिल जायगा; अितने शत्रुओंको मैंने मारा, दूसरोंको भी मार डालूँगा; मैं दुनियाका स्वामी हूँ; भोगोंका अुपभोग करना मैं ही जानता हूँ; सुख-सामर्थ्य मेरे ही हैं । मेरी जाति सबसे श्रेष्ठ है; मेरे-जैसा कोअी नहीं; दुनियाका भला मैं ही कहूँगा; मैं दुनियाका अगुआ हूँ । ” अिस तरहके खयालोंमें मश-गूल रहनेवाले, दंभसे दुनियाको ठगनेवाले, और दीनोंकी देहमें बसनेवाले अीश्वरका अपमान करनेवाले तो कअी पड़े हैं ।

शैतान अिस दुनियाको हज़म करके बैठा है । यदि अुसकी जगह हम अीश्वरका राज्य प्रस्थापित कर सकें, तो हमारा काम बन जाय । अिस अनित्य और दुःखपूर्ण दुनियामें सुखका अुपभोग कौन करे ? यह अीश्वरी सेवा मिली है, अिसीलिये तो जीवन रसे भरा हुआ है ।

२०-१२-३१

गीताजयन्ती

अगहन सुदी ११

१॥ दिन

यह नव आविष्कृत त्योहार है । गीताके ‘ मासानां मार्गशीर्षोऽहम् ’, वचन परसे यह दिन निश्चित किया गया है । अत्यन्त प्राचीन कालमें मार्गशीर्ष महीनेसे वर्षारंभ होता था । अिस दिन पूरा गीतापाठ होना चाहिये । लोकमान्य तिलककी अग्रहायण सम्बन्धी कल्पना तथा ज्योतिष-शास्त्रका अयनचलन अिस दिन समझाया जा सकता है । अिस दिन गीताके सन्देशका विवेचन और श्रीकृष्णकी विभूतिके बारेमें चार्चा की जाय ।

दत्त-जयन्ती

अगहन सुदी १२

१ दिन

दत्तात्रेयकी अुपासना अुत्तर भारतमें विशेष रूपसे प्रचलित नहीं है ! फिर भी अगर यह दिन थोड़ा पैदल प्रवास करनेमें बिताया जाय, तो वह अिष्ट है । अगहन महीनेमें बहुत त्योहार नहीं पड़ते । पूर्णमासीके दिन सवेरे अेक गाँवमें नहाना, दूसरे गाँवमें जाकर भोजन करना, और तीसरे गाँवमें जाकर निवास करना, अिस तरह अवधूतके समान कार्यक्रम रखा जा सकता है ।

• अीसाअी धर्म अेक तरहकी गुरु-पूजा है । अिसलिअे आज Imitation of Christ (अीसाका अनुसरण) नामकी किताब भी पढ़ी जाय ।

सिक्ख लोग अेक तरहसे गुरु-उपासक कहे जा सकते हैं । अुन्होंने शुद्ध भक्ति और सदाचार पर हमें बहुत-सा धार्मिक साहित्य दिया है । अुसमेंसे कुछका आज पारायण किया जाय । अुदाहरणके लिअे, सुखमनी, जपजी आदिका । अिसके अलावा, सिक्ख गुरुओंने सात्विक बलिदानका जो लोकोत्तर आदर्श साध्य करके दिखाया, अुससे सम्बन्ध रखनेवाली बातें भी विद्धारथियोंसे कही जा सकती हैं । गुरुपूर्णिमा और दत्त-जयन्तीके अिन दो त्योहारों पर सिक्ख सम्प्रदाय और गुरुभक्तिके विषयमें बहुत-कुछ कहा जा सकता है ।

संक्रान्ति

(पौष मास)

पूस महीनेमें जब अेक महाराष्ट्रीय दूसरे महाराष्ट्रीय व्यक्तिसे मिलता है, तो 'तिलगुड़' ज़रूर देता है । हम अेक दूसरेको तिलगुड़ देते हैं, और कहते हैं — 'तिलगुळ ध्या, गोड बोला' (तिलगुड़ लीजिये और मीठी बातें कीजिये); क्योंकि तिलमें स्नेह है और गुड़में मिठास । यह अिस संकल्पका चिह्न है कि सबके साथ प्रेम और मिठास रहे । वेदमें अेक मंत्र है —

मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम् ।

मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे ।

मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे ।

[अर्थात् — सब प्राणी मेरी ओर अवैरसे, स्नेहभावसे, देखें । मैं सब प्राणियोंकी ओर स्नेहकी दृष्टिसे देखता हूँ । हम सब स्नेहकी दृष्टिसे देखें ।]

* महाराष्ट्रके श्रद्धावान् लोगोंने अिस वैदिक मंत्रका ही यह मजेदार और मीठा रूपान्तर किया है ।

जिस तरह मनुष्योंका मनुष्यों पर असर पड़ता है, अुसी तरह प्रकृतिका भी मनुष्यों पर असर पड़ता है — अुनके शरीर पर ही नहीं, बल्कि अुनके मन पर, अुनकी रहन-सहन पर, अुनके आदर्श पर, और अुनके सामाजिक जीवन पर भी ।

,जिस तरह श्रेष्ठ और पूज्य विभूतियोंका असर हमारे जीवन पर पड़ता है, अुसी तरह प्रकृतिकी घटनाओंका भी पड़ता है । किसी रिश्तेदारकी मृत्युसे जिस तरह हम हतोत्साह हो जाते हैं, अुसी तरह सूर्यके खग्रास ग्रहणको देखकर भी हम विमनस्क हो जाते हैं । महायुद्ध और अकाल दोनोंका हम पर अेक-सा ही असर पड़ता है ।

कौन कह सकता है कि पुत्रोत्सव और वसन्तोत्सवमें समानता नहीं है ? श्रीकृष्णने कंस पर, रामने रावण पर, और बुद्धने मार पर जो विजय प्राप्त की, उसे हजारों साल हो चुके हैं, फिर भी जब-जब उस विजयका दिन आता है, तब-तब उस विजयका सन्देश हमें पुनः पुनः मिलता है । प्रभावकी दृष्टिसे जाड़े पर धूपकी पायी हुयी विजय अिससे कुछ कम नहीं होती । चूँकि वह हर सालकी बात है, अिसलिअे वह कुछ कम असर करनेवाली नहीं होती । सूर्योदय प्रतिदिन होता है, फिर भी सब देशों और सब भाषाओंके कवियों और रसिकोंको सूर्योदयकी शोभा और उसकी अुपमा अुत्साहप्रद ही प्रतीत होती है ।

मकरसंक्रान्ति, दिनकी रात पर, धूपकी जाड़े पर, और प्रवृत्तिकी निद्रा पर विजय सूचित करती है । असाढ़ महीनेसे दीर्घतमा रात्रिकी विजय हो रही थी । दिन-प्रति-दिन प्रवृत्ति कम हो रही थी । सर्वत्र अेक तरहकी ग्लानि छायी हुयी थी । सूर्यकी किरणें कम हो रही थीं । दीपोत्सव करके हमने किसी तरह नये सालका अुत्सव मनाया, लेकिन जाड़ेकी कठोरता तो बढ़ती ही गयी । महात्मा सविता मानों दक्षिणके कैदखानेमें बन्द हो गये । कब छूटेंगे ?

आपत्तिका भी अन्त तो होता ही है । सूर्यका दक्षिणकी तरफका संक्रमण पूरा हुआ, और अुत्तरायणका आरंभ हुआ । सविताकी किरणें अधिकाधिक फैलने लगीं । दिनके पल बढ़ने लगे, रात्रिके पल घटने लगे । अिस बातके चिह्न स्पष्ट दृष्टिगोचर होने लगे कि रात्रिके साम्राज्यका षषय शुरू हुआ है, और अिसका पूरा यक्रीन होने लगा कि महात्मा सविता दक्षिण दिशाके बन्धनसे अब ङरूर मुक्त होंगे । बस, यह भावि मुक्तिका आनन्द ही मकर-संक्रमण है ।

यह मकर-संक्रमण हम किस तरह मनायें ? गंगाके किनारे जाकर देखिये । वहाँ असंख्य श्रद्धावान् लोग गंगाके पान्नमें स्नोपड़ियाँ बनाकर कभी दिनोंसे वहीं रह रहे हैं । जहाँ गंगा और

यमुनाका हिन्दूधर्मकी सरस्वतीके साथ संगम होता है, वहाँ हजारों लोगोंको प्रयाग-स्नानके लिये आते देखकर मैं अभी लौटा हूँ । सूर्योदयसे पहले थुठकर नाम स्मरण करते हुअे और भीष्म-माता गंगाकी या धर्मभगिनी जमुनाकी जय बोलते हुअे वे नहाने जाते हैं । क्या यमुनामें नहानेवाला यमसे डरेगा ? गंगामें स्नान करने-वालेकी दृढ़ता क्या भीष्म पितामह जैसी नहीं होनी चाहिये ? प्रयागका स्नान तो निर्भयता और दृढ़ताकी दीक्षा ही है ।

मकर-संक्रमण जितना विजयका उत्सव है, श्रुतना ही स्नेह और मिठासकी वृद्धिका भी उत्सव है । भूख और जाड़ेसे कषीण लोग भेड़ियोंकी तरह अक-दूसरेसे लड़ें, तो अिसमें आश्चर्यकी कोअी बात नहीं, लेकिन प्रकाश और समृद्धिके समय तो अुन्हें या सब भूल जाना चाहिये । अिसीलिये हिन्दुस्तानके अनेक प्रान्तोंमें श्रुत्तरायणके प्रारम्भमें अेक दूसरेको तिल और गुड़ देनेका रिवाज है । सिर्फ अिसीलिये नहीं कि जाड़ेके दिनोंमें वह अेक पुष्टिकारक खुराक है, बल्कि स्नेह और मिठासकी वृद्धिका सूचन करनेके लिये भी । (तिलमें स्नेह है — संस्कृतमें स्नेहके मानी हैं, तेल और गुड़में मिठास है ।) सब अनाजोंमें तिलकी अुपज सबसे अधिक होती है, अिसीलिये अुसका यानी प्रेमका लेन-देन कल्याणकर माना गया है ।

मकर-संक्रान्तिके दिन परस्पर तिल और गुड़ देकर आपसके पुराने अपराधोंकी कषमा माँगनेका रिवाज दिलसे अपना लिया जाय, तो समाजमें अैक्य और अुत्साहकी वृद्धि अवश्य होगी, और बढ़ते हुअे सूर्यकी तरह देशका सौभाग्य भी बढ़ेगा ।

श्रुत्तरायणका यह सन्देश अुन्नतिकारक है । स्वराज्यके दिनोंमें हमें अिसे भूलना न चाहिये ।

भुत्तरायणके बाद वसन्त पंचमी, फिर रथ सप्तमी करके अन्तमें भोगविलासोंको जला डालकर संयमधर्मका स्वीकार करनेके लिये होलिकोत्सव मनाना होता है । अतु-चक्रके परिवर्तनमें भी धर्म है । प्रकृतिके साथ जिसका सहकार नहीं टूटा है, वही अुसे प्राप्त कर सकता है ।

१८-१-२३

मकरसंक्रान्ति

पौष मास

अब यह झगड़ा शुरू होनेवाला है कि मकर-संक्रमणका दिन कौनसा हो ? सायन पंचांगवाले तो दिसम्बरकी २३ वीं तारीखसे ही चिमटे रहेंगे, और सामान्य पत्रे जनवरीकी १३वीं या १४ वीं तारीख तक राह देखेंगे ।

मकरसंक्रान्तिका दिन हमारी पंचांग पद्धतिको समझने और समझानेके लिये अनुकूल है । महाराष्ट्रका रिवाज स्वादिष्ट लगता हो, तो इस दिन तिल-गुड़का प्रचार करने जैसा है । सारे पूस महीनेमें तिल खायें, तो भी ठीक ही है । जाड़के मौसिमके अुत्तरार्धमें स्निग्ध अन्न पौष्टिक होता है । लेकिन प्रधान प्रवृत्ति तो पतंग अुड़ानेकी ही हो, बशर्ते कि अुसका धागा स्वदेशी ही हो । अगर लड़के बाजारसे बने-बनाये पतंग लायें, तो यह त्योहार रखनेमें कुछ मतलब ही नहीं रहता । पतंग तो घर पर ही बनाये जायें, और साथ मिलकर अुड़ाये जायें । पतंग बनानेकी अेक खास वैज्ञानिक कला होती है ।

अितिहास और समाज-विज्ञानके रसिक अध्यापक इस दिन जीवन-संक्रमण या राष्ट्रीय संक्रमणके बारेमें व्याख्यान दें, तो अुसे सुननेके लिये तैयार रहना चाहिये ।

वसन्त

(माघ सुदी ५)

वसन्त पंचमी अर्थात् ऋतुराजका स्वागत !

माघ शुक्ला पंचमीको हम वसन्त पंचमी कहते हैं, लेकिन प्रत्येक व्यक्तिके लिये अुसी दिन वसन्त पंचमी नहीं होती । ठण्डे खूनवाले मनुष्यके लिये वह अितनी जल्दी नहीं आती ।

वसन्त पंचमी प्रकृतिका यौवन है । जिसकी रहन-सहन प्रकृतिसे अलग न पड़ गयी हो, जो प्रकृतिके रंगमें रंग गया हो, वह मनुष्य बिना कहे ही, वसन्त पंचमीका अनुभव करता है । नदीके क्षीण प्रवाहमें अेकाअेक आयी हुअी ज़ोरकी बाढ़को जिस प्रकार हम अपनी आँखोंसे साफ़ देखते हैं, अुसी प्रकार हम वसन्तको भी आता हुआ देख सकते हैं । अलबत्ता, वह अेक ही समय पर सबके हृदयोंमें प्रवेश नहीं करता ।

जब वसन्त आता है तो यौवनके अुन्मादके साथ आता है । यौवनमें सुन्दरता होती है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि अुसमें हमेशा कषेम भी होता है । यौवनमें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्यकी रक्षा करना बहुत ही कठिन हो जाता है । यही हालत वसन्तमें भी होती है । तारुण्यकी तरह वसन्त भी मनमौजी और चंचल होता है । अिन दिनों कभी जाड़ा मालूम होता है, कभी गरमी; कभी जी अूबने लगता है, तो कभी अुल्लास मालूम होने लगता है । खोयी हुअी शक्तिको जाड़ेमें फिरसे प्राप्त किया जा सकता है । मगर जाड़ेमें प्राप्त की हुअी शक्तिको वसन्तमें संचित कर रखना आसान नहीं है । वसन्तमें संयमका पालन किया जाय, तो सारे वर्षके लिये आरोग्यकी रक्षा हो जाती है ।

वसन्तऋतुमें जीवमात्र पर अेक चित्ताकर्षक कान्ति छा जाती है; पर वह अुतनी ही खतरनाक भी होती है ।

वसन्तके अुल्लासमें संयमकी भाषा शोभा नहीं देती; सहन भी नहीं होती; परन्तु अिसी समय अुसकी अत्यन्त आवश्यकता होती है । अगर कषीण मनुष्य पथ्यसे रहे, तो अुसमें कौन आश्चर्यकी बात है ? अुससे लाभ भी क्या ? किसी तरह जीवित रहनेमें क्या स्वारस्य है ? सुरक्षित वसन्त ही जीवनका आनन्द है ।

वसन्त अुड़ाअू होता है । अिसमें भी प्रकृतिका तारुण्य ही प्रकट होता है । कितने ही फूल और फल मुरझा जाते हैं । मानो प्रकृति जाड़ेकी कंजूसीका बदला ले रही हो । वसन्तकी समृद्धि कोअी शाश्वत समृद्धि नहीं । जितना कुछ दिखाअी देता है, अुतना टिकता नहीं ।

राश्रूका वसन्त भी अक्सर अुड़ाअू होता है । कितने ही फूल और फल बड़ी-वड़ी आशाअें दिखाते हैं; लेकिन परिपक्व होनेसे पहले ही मुरझाकर गिर पड़ते हैं । सच्चे वही हैं, जो शरद ऋतु तक कायम रहते हैं । राश्रूके वसन्तमें संयमकी वाणी अप्रिय मालूम होती है, परन्तु वही पथ्यकर होती है ।

अुत्सवमें विनय, समृद्धिमें स्थिरता, यौवनमें संयम — यही सफल जीवनका रहस्य है । फूलोंकी सार्थकता अिसी बातमें है कि अुनका दर्प फलके रसमें परिणत हो ।

वसन्त पंचमीके अुत्सवकी सृष्टि न तो शास्त्रकारों द्वारा हुआ है, और न धर्माचार्यों ने अुसे स्वीकार ही किया है । अुसे तो कवियों और गायकों, तरुणों और रसिकोंने जन्म दिया है । कोयलने अुसे आमंत्रण दिया है, और फूलोंने अुसका स्वागत किया है । वसन्तके मानी हैं, पक्षियोंका गान, आम्र-मंजिरियोंकी सुगन्ध, शुभ्र अुभ्रोंकी विविधता और पवनकी चंचलता । पवन तो हमेशा ही चंचल होता है; लेकिन वसन्तमें वह विशेष भावसे

क्रीड़ा करता है । जहाँ जाता है, वहाँ पूरे जोश-खरोशके साथ जाता है; जहाँ बहता है, वहाँ पूरे वेगसे बहता है; जब गाता है, तब पूरी शक्तिके साथ गाता है, और थोड़ी देरमें बदल भी जाता है ।

वसन्तसे संगीतका नया सत्र शुरू होता है । गायक आठों पहर वसन्तके आलाप ले सकते हैं । वे न तो पूर्व रात्रि देखते हैं, न शुत्तर रात्रि ।

जब संयम, औचित्य और रस तीनोंका संयोग होता है, तभी संगीतका प्रवाह चलता है । जीवनमें भी अकेला संयम स्मशानवत् हो जायगा, अकेला औचित्य दंभरूप हो जायगा, और अकेला रस कृषणजीवी विलासितामें ही खप जायगा । भिन तीनोंका संयोग ही जीवन है । वसन्तमें प्रकृति हमें रसकी बाढ़ प्रदान करती है । अैसे समय संयम और औचित्य ही हमारी पूँजी होने चाहियें ।

फरवरी, १९३३

मंगलमूर्ति भीष्म

[माघ सुदी ८]

आज भीमाष्टमीका पवित्र दिन है । भारतीय युद्धके बाद बाणोंकी शय्या बनाकर उत्तरायणकी राह देखनेवाले, और बीचके अिस समयमें "मानवजातिको धर्मकी प्रतिष्ठाकी रक्षा कर सकनेवाली राजनीतिका उपदेश" देनेवाले अखंड ब्रह्मचारी भीष्माचार्यका यह पुण्यदिन है । ▼

महाभारतकी मंगलमूर्तियाँ तीन हैं — भीष्म, कृष्ण और व्यास । अिस त्रिमूर्तिमें भी प्रधान स्थान तो भीष्मका ही है । कृष्णकी विभूति तो आखिर दिव्य ही ठहरी; अिसलिअे अुसे भव्य नहीं कहा जा सकता । व्यास किसी वानप्रस्थकी तरह दूर-दूर ही रहते हैं । समस्त भारतपर अपनी मंगल छाया फैलानेवाले तो धर्मात्मा भीष्म ही हैं । वे सागरके समान गंभीर, हिमालयके समान अुत्तुंग-प्रचण्ड और अनन्त आकाशकी तरह शान्त-निर्मल हैं ।

भीष्म कृष्णके अुत्तम भक्तोंमेंसे अेक हैं —

प्रहाद-नारद-पराशर-पुण्डरीक—

व्यासाम्बरीष-शुक-शौनक-भीष्म-दाल्भ्यान् ।

रुक्मांगदारुन-वसिष्ठ-विभीषणादीन्

पुण्यान् अिमान् परम-भागवतान् स्मरामि ॥

अिस तरह हर रोज़ सवेरे अुठकर हम जिन-जिन परम-भागवतोंका स्मरण करते हैं, अुनमें भी भीष्मका स्थान कुछ निराला ही है । दूसरे भागवत भगवान्के अधीन रहकर अुनकी प्रेरणाके अुत्तरूप अपना बरताव रखते हैं । भीष्मके भाग्यमें अपने परम

प्रभुका अखंड विरोध करना ही बदा था । और ऐसा होते हुअे भी अुनकी वह भक्ति विरोधी भक्ति नहीं थी ।

भीष्म और कृष्णका राष्ट्र-पुरुषके रूपमें विचार करते समय भी अुनका आत्यंतिक स्वभावमेद स्पष्ट रूपसे दिखायी देता है । दोनों धर्मनिष्ठ, धर्मपरायण और धर्मकार थे; किन्तु दोनोंका जीवन-दर्शन बिलकुल भिन्न था । भीष्मका जीवनतत्त्व बहुत-कुछ प्रभु रामचन्द्रके जीवनतत्त्व-जैसा है । दोनों मर्यादा-पुरुषोत्तम, अपनेको धर्म-परतंत्र समझनेवाले और धर्म-पालनके लिये बड़े-से-बड़ा त्याग शीतल वृत्तिसे करनेवाले थे । मानवजातिके सामने आदर्श प्रस्तुत करनेवाले ये दो ही हैं । दूसरी तरफ़ श्रीकृष्ण हैं — जैसे प्रतिष्ठा-भंजक जैसे ही मर्यादा-भंजक ! अुन्होंने तो मानो यह दिखानेके लिये ही अवतार धारण किया था कि धर्म-मार्गके प्रत्येक नियमके लिये अपवाद कैसे हो सकते हैं । बाबू बंकिमचन्द्रने श्रीकृष्णका अेक जीवनचरित्र लिखा है । वह चरित्र नहीं, बल्कि श्रीकृष्ण पर किये जानेवाले आक्षेपोंका अेक बड़ा खंडन ही है । यदि न्याय-निपुण लोग अपना बुद्धिसर्वस्व लगाकर श्रीकृष्णकी पैरवी न करें, तो श्रीकृष्णके अेक भी कामका औचित्य ध्यानमें न आये । मृत्यु-समयकी असह्य वेदनाओंसे पीड़ित बछड़ेको मृत्युके हवाले करके जिस तरह गांधीजीने अहिंसा-धर्मका पालन किया था, अुसी तरहका कोभी काम करके श्रीकृष्णने हर बार धर्मका पालन किया होगा, अैसा भास होता है । धार्मिक सिद्धान्तोंके मूलमें पहुँचकर अुनके तत्त्वार्थका पालन करनेके लिये शब्दार्थका विरोध किस तरह किया जाय, अिसीका अध्ययन श्रीकृष्णने किया होगा ।

देवव्रत (भीष्माचार्य)ने अैम जवानीमें अेक भीष्म-प्रतिज्ञा करके राज्य और स्त्रीका त्याग किया । अिस अेक प्रतिज्ञा-पालनके लिये अुन्होंने सब तरफ़से अपनी हाति होने दी । प्रतिज्ञा-पालनका

प्रयोजन पूरा होनेके बाद भी अन्होंने अुस प्रतिज्ञाका त्याग नहीं किया । और अुनका नसीब भी कैसा अजीब था ? हालाँकि अुन्होंने राज्यका स्वीकार नहीं किया, फिर भी अुसका सारा भार तो अुन्हींको ढोना पड़ा । भाभी-भाभीमें होनेवाले झगड़ोंको टालनेके लिअे अुन्होंने ब्याह करना टाला; लेकिन अुन्हें कभी नियोग और कभी ब्याह कराने पड़े । अधिक क्या कहें ? स्वयंवरोंमें भाग लेकर यौवन-सम्पन्न लड़कियोंको भी वे जीत लाये ! और भाओ-भाओके बीचके जिस झगड़ेको टालनेके लिअे अुन्होंने अखंड ब्रह्मचर्यका स्वीकार किया था, अुसी झगड़ेके कारण अपनी अिच्छाके विरुद्ध असत्पक्षके लिअे लड़कर और लाखों लोगोंका संहार करके अुन्हें अपने प्राण त्यागने पड़े । जिस तरह भीष्म-प्रतिज्ञा जगतके लिअे आदर्शभूत है, अुसी तरह अुनका ब्रह्मचर्य भी उतना ही अलौकिक है । अिस ब्रह्मचर्यके बल पर वे परमज्ञानी, परमसमर्थ और धर्मज्ञ बने; यही नहीं, बल्कि अिच्छा-मरणवाले भी बन गये । लेकिन अुनकी अुस प्रतिज्ञासे कौरवकुलको या आर्य-संस्कृतिको क्या लाभ हुआ ? और नहीं, तो कम-से-कम अितना सन्तोष तो अुन्हें मिलना चाहिये था कि “ मैं सत्यके लिअे युद्ध कर रहा हूँ ! ” अुन्होंने राज्य-विषयक अपना अधिकार छोड़ दिया, और स्वयं राजाके सेवक बने । अपनी सारी वफ़ादारी अुन्होंने राजगद्दीको अर्पित कर दी । ‘ मैं अिस गद्दीका अन्न खाता हूँ, इसलिअे गद्दीकी जो आज्ञा हो, वह मुझे सिरमाये चढ़ानी चाहिये । ’ अिस तरहकी वैधानिक वृत्ति अुन्होंने धारण की । सचमुच भीष्म-जैसा कट्टर विधानवादी (Constitutional) शायद ही कोभी हुआ होगा । लेकिन विधानको ही देवता समझकर आचरण करनेसे अुन्होंने राष्ट्र-हितका तो सत्यानाश ही होने दिया ।

महाभारतके धर्म-धुरंधर दो— श्रीकृष्ण और भीष्म । श्रीकृष्णका उपदेश भगवद्गीतामें समाया हुआ है । भीष्मका उपदेश कहीं अकेल किया हुआ नहीं मिलता । उनका विख्यात राज-धर्म शान्तिपर्वमें है । लेकिन भीष्मने अपनी सिखावनका सारा निचोड़ देह-त्याग करते समय कही गयी तीन ही पंक्तियोंमें दे दिया है । महाभारतने भीष्माचार्यको अिच्छामरणी कहा है । भीष्मको राजा युधिष्ठिरसे जो कुछ कहना था, वह सब अन्होंने कह दिया । उसके बाद भगवान् श्रीकृष्णकी ओर मुड़कर अन्होंने भगवान्से देह-त्यागकी अनुज्ञा माँगी । पितृभक्त और निष्पाप भीष्मको श्रीकृष्णने अनुज्ञा दे दी । सभी पांडव पितामहके आस-पास जमा हुअे । अुप्र समय अुनको और अुनकी मारफत सब भारतवासियोंको भीष्माचार्यने नीचे लिखे वचन कह सुनाये —

सत्येषु यतितव्यं वः सत्यं हि परमं बलम् ॥

आनुशंस्यपरैर्भाव्यं सदैव नियतात्मभिः ।

ब्रह्मण्यैर्धर्मशीलैश्च तपोनित्यैश्च भारताः ॥

“ सत्यके लिअे निरन्तर प्रयत्न करो । सत्य ही सबसे श्रेष्ठ बल है । हमेशा अपने मनपर, हृदयपर क्राबू रखकर दयाभावको अपनाओ । दुष्ट वृत्तिके अधीन मत होओ । जनताको ज्ञान और चारित्र्यकी शिक्षा देनेवाले वर्गका हमेशा पोषण करते रहो । धर्मकी प्रेरणाके अनुसार चलो, और हमेशा अपनी सारी शक्तियोंका विकास करते रहो । ”

आज भी भारतवासियोंके लिअे दूसरा कौनसा उपदेश हो सकता है ?

भीष्माष्टमी

माघ सुदी ८

१ समय

यह पुराना त्योहार क़रीब-क़रीब भुलाया जा चुका था । अब कहीं-कहीं अिसका पुनरुज्जीवन होने लगा है । हमारे यहाँ भी वैसे प्रयत्न होना चाहिये । भीष्म ब्रह्मचारी, दृढ़व्रत, भगवद्भक्त और नीतिज्ञ थे । महाभारतसे भीष्मकी जीवनीका निचोड़ निकालकर वह गंगा-प्रसाद विद्यार्थियोंको देना चाहिये; खासकर कर्ण और भीष्मका अंतिम संवाद । शुद्ध, सात्त्विक आहार करके अिस दिन प्रार्थनापूर्वक ब्रह्मचर्यका व्रत लेना चाहिये । अगर यह त्योहार समाजमें जड़ पकड़े, तो अिसमें बहुत-सी बातें जोड़ी जा सकती हैं । आदर्श ब्रह्मचारियोंकी नामावली तैयार करके आजके दिन अुनकी जीवनियोंका परिचय कराया जाय । अुदाहरणके लिये, रामकृष्ण परमहंस और शारदादेवी, अीसा, शुकदेव, योगवासिष्ठकी चुड़ाला, हनुमान, वनवासी लक्ष्मण, रामदास आदि ।

अिस दिन लाठी, क़वायद और संघ-व्यायाम रखा जा सकता है ।

महाशिवरात्रि

[माघ बदी १४]

१. अेक पत्र

यही बात बार-बार मनमें अुठ रही है कि आज आप लोग महाशिवरात्रिका त्योहार किस तरह मना रहे होंगे ? शिवरात्रिका त्योहार अुत्सव नहीं, बल्कि व्रत है । शिवरात्रिका त्योहार व्रत समझा जाता है, अिसलिये वैष्णव लोग अुसके बारेमें अुदासीन रहते हैं । शैव-वैष्णवोंका यह मेद अेक जमानेमें हमारे देशमें बहुत ही तीव्र था । जब तक मनुष्यमें लड़नेकी श्रुति है, तब तक चाहे जिस मेदको आगे करके वह लड़ेगा । दक्षिण हिन्दुस्तानके शैव-वैष्णवोंने पुराने जमानेमें अेक-दूसरेका कुछ कम खून नहीं बहाया है ।

शिवरात्रिका माहात्म्य तो आप सब लोग जानते ही हैं । 'हरिणोंकी स्मृति' के सम्बन्धमें आपने मेरी किताबमें पढ़ा और सुना ही है । वचन-पालनकी टेक, मातृवात्सल्य और दूसरोंके लिये स्वात्मार्पण — यंह सिखावन अिस कहानीसे आपने ली ही होगी । लेकिन आज मेरे मनमें शिवरात्रिका महत्त्व दूसरी दृष्टिसे स्फुरित हो रहा है ।

हमारे धर्ममें जीव-दयाकी सिखावन सर्वोच्च और शुद्ध भूमिका परसे दी गयी है । तिर्यच यानी मनुष्येतर जीव भी अीश्वरके ही बालक हैं । अीश्वरके हृदयमें अुनके प्रति भी अुतना ही वात्सल्य रहता है, जितना हमारे प्रति । मूक पशु-पक्षियोंमें भी हमारी ही तरह भावनायें होती हैं । अुन्हें दुःखी बनाना अधमता है । पशुओंको पीड़ा पहुँचानेसे अीश्वर विशेष रूपसे नाराज होता है, आदि बातोंकी सीख हमारे धर्ममें अनेक सुन्दर और प्रभावकारी ढंगोंसे दी गयी है । हमारा यह धर्म-सद्दांत है कि पशु हमारी दयाके

पात्र नहीं, वरन् प्रेमके अधिकारी हैं। जीव-दया नहीं, बल्कि जीवके प्रति आत्मौपम्यवाली प्रेमकी भावना हमारे धर्मको अभीष्ट है, पसन्द है।

जीव-प्रेमके प्रथम हिमायती हैं, हमारे वाल्मीकि। अन्होंने रामायणकी कथामें देवता, राक्षस, मनुष्य आदिके साथ पशु-पक्षियोंको भी बराबरीका स्थान दिया है। तिर्यक् योनिमें भी वीर, मुत्सद्दी, (कूटनीतिज्ञ), साधु और प्रेम-सेवक होते हैं, अिसुके बारेमें वाल्मीकिने कुछ ऐसे ढंगसे गीत गाये हैं, मानों वे कौभी नयी बात कहते ही न हों — मानो बिलकुल स्वाभाविक बातें लिख रहे हों ! भक्त शिरोमणि हनुमान, अुप्रशासन सुग्रीव, आर्त्तत्राण जटायु और सेनापति जाम्बुवानके विषयमें मनमें दयाभाव नहीं, आदरभाव ही अुत्पन्न होता है। हम यह भी भूल जाते हैं कि वे पशु-पक्षी हैं। यह समभाव ही जीव-प्रेमकी सच्ची बुनियाद है।

वसिष्ठ और कामधेनु, दिलीप और नन्दिनी, नेवला और राजसूय यज्ञ, गज और ग्राह, वेदकी सरमा और चोरी करनेवाले पणि लोग (फिनीशियन्स), धर्मराजका श्वान, नल-दमयन्तीके हंस और कर्कोटक, भगवान् मनुको बचानेवाला मत्स्य, प्रभु रामचन्द्रकी मदद करनेवाली गिलहरी, ऐसी अेक-दो नहीं, बल्कि असंख्य घटनाओंके वर्णन हमारे धर्मग्रंथोंमें किये गये हैं। अुनसे प्राणियोंके प्रति सम-भाव दृढ़ होता है। हमारे कभी अवतार भी मनुष्येतर हैं। जातक-कथाओं, पंचतंत्र, हितोपदेशकी कहानियाँ आदि सब अिसी दिशामें काम करती हैं। 'हरिणोंका स्मरण' भी हममें मनुष्येतरोंके प्रति प्रेम और समभाव अुत्पन्न कराता है।

तो शिवरात्रिके दिन हम क्या करें ? सिद्धैया कहेंगे — "गोरक्षाके लिअे २,००० गज सूत कातें।" किशोरलाल भाभी कहेंगे — "अपने आश्रमके लावारिस कुत्तोंको हम क्यों न पालें ?

अगर हरभेक कुत्तेको यह महसूस होने लगे कि अुसे अपना समझकर खिलाने-पिलानेवाला यहाँ कोभी है, तो वह भार्य बनेगा और नालायक कुत्तोंको यहाँ आने न देगा ।” डाह्याभाभी कहेंगे — “सबसे पहले, जहाँ तक हो सके, ग्राडीमें न बैठनेका और अुसमें कम-से-कम बोझ लादनेका नियम बनायें, तो हमारा जीव-प्रेम सार्थक हो ।” मगनलाल भाभी कहेंगे — “लड़के कुत्तोंके पीछे पड़कर अुन्हें मारते हैं; अगर अुन्हें रोका जाय, तो वह काफ़ी होगा ।” ठाकोर भाभी कहेंगे — “कमरे साफ़ रखकर मकड़ी वगैराके जाले बनने ही न दिये जायँ, तो वह जीव-दयाका अेक सुंदर अंग होगा ।” मुझ-जैसा कहेगा — “रातके समय नदीके पानीमें जाकर अुसके अन्दर सोयी हुअी मछलियोंको तकलीफ़ न दी जाय, तो शिवरात्रिके दिन मछलियोंके लिअे भी शिव-रात्रि रहेगी ।” शंकर कहेगा — “गरमीके दिनोंमें चिड़ियोंके लिअे पीनेका पानी रखना ज़रूरी है ।” प्रत्येक प्रस्तावमें कुछ-न-कुछ सुन्दरता है, और ये सभी नियम आश्रम-जीवनमें शोभा देनेवाले हैं ।

तो कहिये, शिवरात्रिका स्मरण करके आप कौनसा नया व्रत लेंगे ? यह काम प्रेमका है, और अिसे प्रेमसे करना है । यह ज़रूरी नहीं कि लिया हुआ व्रत प्रकट किया ही जाय । आप स्वयं अुसे चुन लें, और अुसके अनुसार अुत्साहके साथ बरताव करने लगें ।

२. हरिणोंका स्मरण

अेक विशाल वन था । बीस-बीस, तीस-तीस कोस तक न झोंपड़ीका पता था, न मुसाफ़िरोंके कामचलाअू चूल्होंका । वनमें अेक रमणीय तालाब था । तालाबके पास कुछ हरिण रहते थे । तालाबके किनारे बेलका अेक पेड़ था । अुस पेड़के नीचे पाषाण-रूपमें महादेवजी बिराजमान थे । हरिण रोज़ तालाबमें नहाते,

महादेवजीके दर्शन करते, और चरने जाते। दोपहरको आकर बेलके पेड़के नीचे विश्राम करते; शामको तालाबका पानी पीकर महादेवजीके दर्शन करते और सो जाते। बिना कोअी शास्त्र पढ़े ही हरिणोंको धर्मका ज्ञान हुआ था। असलिये वे सन्तोष-पूर्वक अपना निर्दोष जीवन व्यतीत करते थे।

माघका महीना था। कृष्णपक्षकी चतुर्दशीके दिनकी बात है। अेक विकराल व्याध अुस बनमें घुसा। शाम हुआ ही चाहती थी। व्याध बहुत ही भूखा था। व्याधोंकी भूख अैसी-वैसी भूख नहीं होती। अगर अुन्हें कुछ न मिले, तो वे कच्चा मांस ही खाने बैठ जाते हैं। लेकिन हमारे अस व्याधको अपनी भूखका दुःख न था—“घरमें बाल-बच्चे भूखे हैं, अुन्हें क्या खिलाऊँ? क्या मुँह लेकर घर जाऊँ? अगर शिकार न मिला, तो खाली हाथ घर जानेकी अपेक्षा रात बनमें ही रह जाना अच्छा होगा—शायद कुछ हाथ लग जाय।” अस तरह सोचता हुआ वह तालाबके किनारे आया और बेलके पेड़ पर चढ़कर बैठ गया।

अपने बाल-बच्चोंके भरण-पोषणके लिये स्वयं बहुत कष्ट अुठाने और खतरोंका सामना करनेको ही वह अपना धर्म समझता था। अससे अधिक व्यापक धर्मका ज्ञान अुसे नहीं था।

रात हुअी। कृष्णपक्षकी घोर अँधेरी काली रात। कुछ दिखाअी न पड़ता था। व्याधने तालाबकी ओर देखनेमें रुकावट डालनेवाले बेलके पत्तोंको तोड़-तोड़ कर नीचे फेंक दिया। अितनेमें वहाँ दो-चार हरिण पानी पीने आये। पेड़ पर बैठे व्याधको देखकर वे चौंक पड़े और निराशाभरे स्वरमें बोले—“हे व्याध, अपने धनुष्य पर बाण न चढ़ा। हम मरनेको तैयार हैं, पर हमें अितना समय दे दे कि हम घर जाकर अपने बाल-बच्चों और सगे-सम्बन्धियोंसे मिल आयें। सूर्योदयसे पहले ही हम यहाँ हाज़िर हो जायँगे।”

व्याध खिलखिलाकर हँस पड़ा। बोला — “क्या तुम मुझे बुद्धू समझते हो? क्या मैं इस तरह अपने हाथ आये शिकारको छोड़ दूँ? मेरे बाल-बच्चे तो अधर भूखों तड़प रहे हैं।”

“हम भी तेरी तरह बाल-बच्चोंका ही खयाल करके अितनी छुट्टी चाह रहे हैं। अेक बार आजमाकर तो देख कि हम अपने वचनका पालन करते हैं या नहीं?”

व्याधके मनमें श्रद्धा और कौतुक जाग अुठा। ठीक सूर्योदयसे पहले लौट आनेकी ताकीद करके अुसने अुन हरिणोंको घर जाने दिया, और खुद बेलके पत्तोंको तोड़ता हुआ रातभर जागता रहा। श्रद्धावान् व्याधके हाथों अपने सिर पर पड़े बित्त्वपत्रोंसे महादेवजी संतुष्ट अुअे।

ठीक सूर्योदयका समय हुआ, और हरिणोंका अेक बड़ा दल वहाँ आ पहुँचा।

हरिण घर गये, बाल-बच्चोंसे मिले, अपने सींगोंसे अेक-दूसरेको खुजलाया, नन्हें बच्चोंको प्रेमसे चाटा, अुन्हें व्याधकी कहानी कह सुनाअी और बिदा माँगी।

“दुष्ट व्याधके साथ वचन-पालन कैसा? ‘शठं प्रति शाठ्यं कुर्यात्।’ पैरोंमें जितना ज़ोर हो अुतना सब ज़ोर लगाकर यहाँसे चुपचाप भाग जाओ!” अैसी सलाह देनेवाला अुनमें कोअी न निकला। सगे-सम्बन्धियोंने कहा — “चलो, हम भी साथ चलते हैं। स्वेच्छासे मृत्यु स्वीकार करने पर मोक्ष मिलता है। आपके अपूर्व आत्म-यज्ञको देखकर हम पुनीत अुगेगे।”

बाल-बच्चे साथ हो लिये। मानो सब व्याधकी हिंस्रताकी परीक्षा करने ही निकले हों।

सूर्योदयसे पहले ही सारा दल वहाँ आ पहुँचा। रातवाले हरिण आगे बढ़े और बोले — “लो भाअी, हम वधके लिअे

तैयार हैं ।” दूसरे हरिण भी बोल अुठे — “हमें भी मार डालो ! अगर हमें मारनेसे तुम्हारे बाल-बच्चोंकी भूख शान्त होती है, तो अच्छा ही है ।” व्याधकी हिंसावृत्ति रात्रिकी तरह लुप्त हो गयी । सारे दिनका अुपवास और सारे रातके जागरणसे अुसकी चित्तवृत्ति अन्तर्मुख हुअी थी । तिस परं अिन प्रतिज्ञा-पालक हरिणोंका धर्माचरण देखकर वह दंग रह गया । अुसके हृदयमें नया प्रकाश फैला । अुसे प्रेम-शौर्यकी दीक्षा मिली । वह पेड़से अुतरा और हरिणोंकी शरण गया । दो पैरवालेने चार पैरवाले पशुओंके पैर छुअे । आकाशसे श्वेत पुष्पोंकी वृष्टि हुअी । कैलाशसे अेक बड़ा विमान अुतर आया । व्याध और हरिण अुसमें बैठे, और कल्याणकारिणी शिवरात्रिका महात्म्य गाते हुअे शिवलोक सिधारे । आज भी वे दिव्य रूपमें चमकते हैं ।*

महाशिवरात्रिका दिन मानो अिन धर्मनिष्ठ, सत्यव्रत हरिणोंके स्मरणका ही दिन है ।*

मार्च, १९२२

* मृगनक्षत्र और व्याध

* अेकादशी, अष्टमी, चतुर्थी और शिवरात्रि ये सब हिन्दू महीनेमें हमेशा आनेवाले त्योहार हैं । वैष्णवोंने अेकादशीको सबके लिअे लोकप्रिय बना दिया है । गणपतिके अुपासक विनायकी और संकष्टी चतुर्थीका व्रत रखते हैं । देवीके अुपासक अष्टमीका व्रत रखते हैं । शिवरात्रि हर महीने कृष्णपक्षकी चतुर्थीके दिन आती है । शैव लोग शिवरात्रिका व्रत रखते हैं । जिस तरह अेकादशियोंमें आषाढी और कार्तिकी अेकादशियाँ महा-अेकादशियाँ हैं, अुसी तरह भाष महीनेकी शिवरात्रि महाशिवरात्रि है ।

प्रत्येक मासके प्रत्येक त्योहारका अपना महात्म्य और अुसकी अपनी अेक कथा होती है । अुनमेंसे महाशिवरात्रिकी कथा अुपर दी गयी है ।

कहानीके अिस पुरातन कषेत्रकी ओर लोक-कथाओंका संग्रह करनेवाले संशोधकोंका ध्यान जाना चाहिये ।

महाशिवरात्रि

माघ बदी १४

०॥ दिन

यह अपरिग्रह और जीव-दयाका त्योहार है। महाशिवरात्रिके दिन अकेले शिव-अुपासक ही नहीं, वरन् सभी लोग अुपवास रखें, और अिम् वान पर विचार करें तो अच्छा हो कि अपने रोज-रोजके जीवनमेंसे अनावश्यक चीज़ोंका कितना त्याग किया जा सकता है। हमारा सबसे बड़ा परिग्रह लोभ और आलस्यका है। अुसे कम करनेका अिलाज खोजनेमें आजका कुछ समय खर्च किया जाय, तो वह अिष्ट होगा। अपरिग्रही महादेवजीके दर्शनोंको जानेका रिवाज ङरूर ही जारी रखने जैसा है। महादेवजीका द्वार हमेशा मुक्तद्वार रहता है। आजके दिन शिक्पक महादेवजीकी कोअी अच्छी धर्म-बोधक कहानी लड़कोंको सुनायें। वे अुन्हें कारण देकर समझायें कि क्यों महादेवको आमके मौर चढ़ाना ठीक नहीं।

.गुलामोंका त्योहार

प्रत्येक त्योहारमें कुछ-न-कुछ ग्रहण करने योग्य अवश्य होता है। लेकिन क्या आजकलकी होलासे भी कुछ शिवपा मिल सकती है? पिछले बीस-पचीस बरसोंमें यह त्योहार जिस ढंगसे मनाया गया है, अुसे देखते हुअे तो अिसके विषयमें किसी तरहका अुत्साह अुत्पन्न नहीं हो सकता। न अिसका प्राचीन अितिहास, और न पौराणिक कथाओं ही अिस त्योहार पर कोअी अच्छा प्रकाश डालती हैं। फिर भी यह तो स्वीकार करना ही चाहिये कि होली अेक प्राचीनतम त्योहार है। जाड़ेके समाप्त होनेपर अेक ङवरदस्त होली जलाकर आनन्दोत्सव मनानेका रिवाज हरअेक देशमें और हरअेक ङमानेमें मौजूद रहा है। अिस अुत्सवमें लोग संयमकी लगाम ढीली छोड़कर स्वच्छंदताका थोड़ा आस्वाद लेना चाहते हैं।

हिन्दुओंमें अकेले मनुष्योंकी ही जाति नहीं होती. वल्कि देवताओ, पशु-पक्षियों और त्योहारोंकी भी अपनी जातियाँ होती हैं। स्वर्गके अष्टावसु जातिके वैश्य हैं, नाग और कबूतर ब्राह्मण होते हैं, और तोता बनिया माना जाता है। इसी तरह होलीका त्योहार शूद्रोंका त्योहार है। क्या इसीलिअे किसी ज़मानेके बिगड़े हुअे शूद्रों द्वारा होलीका यह कार्यक्रम बनाया गया था, और अुनके हक़ोंको क्रायम रखनेके लिअे दूसरे वर्णोंने अुसे स्वीकार कर लिया था ? पुराणोंमें अेक नियम है कि होलीके दिन अद्वुतोंको छूना चाहिये। भला असका क्या अुद्देश्य रहा होगा ? द्विज लोग संस्कारी अर्थात् संयमी और शूद्र स्वच्छन्दी हैं, क्या इसी विचारसे होलीमें अितनी स्वच्छंदता रखी गयी है ? होलीके दिन राजा-प्रजा अेक होकर अेक-दूसरे पर रंग अुड़ाते हैं। क्या असका आशय यह है कि सालमें कम-से-कम चार पाँच दिन तो सब लोग समानताके सिद्धान्तका अनुभव करें ?

होली यानी काम-दहन; वैराग्यकी साधना। विषयको काव्यका मोहक रूप देनेसे वह बढ़ता है। अुसीको वीभत्स स्वरूप देकर, नंगा करके, समाजके सामने अुसका असली रूप खड़ा करके, विषयभोगके प्रति घृणा अुत्पन्न करनेका अुद्देश्य तो असमें नहीं था न ? जाड़ेभर जिसके मोहपाशमें फँसे रहे, अुसकी दुर्गति करके, अुसे जलाकर और पश्चात्तापकी राख शरीर पर मलकर वैराग्य धारण करनेका अुद्देश्य तो असमें नहीं था न ?

अिसकी जड़में प्राचीन कालकी लिग-पूजाकी विडम्बना तो नहीं थी न ?

लेकिन होलीकाका अर्थ वसन्तात्सव भी तो है। जाड़ा गया, वसन्तका नूतन जीवन वनस्पतियोंमें भी आ गया। अतः जाड़ेमें जमा करके रक्खी हुअी तमाम लकड़ियोंको अेकत्र करके आखिरी बार आग जलाकर ठण्डको विदा करनेका तो यह अुत्सव नहीं है

न ? और यह दुण्डा राक्षसी कौन है ? कहते हैं कि यह नन्हें बच्चोंको सताती है । होलीके दिन जगह-जगह आग सुलगाकर, शोर-गुल मचाकर उसे भगा दिया जाता है । इसमें कौन-सी कवि-कल्पना है ? क्या रहस्य है ?

लोगोंमें अश्लीलता तो है ही । वह मिटाये मिट नहीं सकती । कुछ लोगोंका खयाल है कि 'तुष्यतु दुर्जनः' न्यायके अनुसार उसे सालमें अेक दिन दे देनेसे वह हीन वृत्ति वर्षभर काबूमें रहती है । अगर यह सच है, तो वह अेक भयंकर भूल है । आगमें घी डालनेसे वह कभी काबूमें नहीं रहती । पाप और अग्निके साथ स्नेह कैसा ? वसन्तका अुत्सव अीश्वर स्मरण-पूर्वक सौम्य रीतिसे मनाना चाहिये । क्या दीवालीमें अुत्सवका आनन्द कम होता है ? क्या लकड़ियोंकी होली जलानेसे ही सच्चा वसन्तोत्सव मनाया जा सकता है ? यदि यह माना जाय कि होलिका अेक राक्षसी थी और उसे जलानेका यह त्योहार है, तो हम उसे चुराकर लायी हुअी लकड़ियोंसे नहीं जला सकते । होलिका राक्षसी तो प्रहादकी निर्वैर पवित्रतासे ही जल सकती है ।

हमें यह सोचना चाहिये कि हमारे त्योहार हमारे राष्ट्रीय जीवन और हमारी संस्कृतिके प्रतिबिम्ब हैं या नहीं ? मनुष्यमात्र अुत्सवप्रिय है । परन्तु स्वतंत्र मनुष्योंका अुत्सव जुदा होता है, और गुलामोंका जुदा । जो स्वतंत्र होता है, जिसके सिर जिम्मेदारी होती है, जिसको अधिकारका अुपयोग करना होता है, उसकी अभिरुचि सादी और प्रतिष्ठित होती है । जो परतंत्र होता है, जिसे अपने अुत्तरदायित्वका ज्ञान नहीं, जिसके जीवनमें कोअी महत्त्वाकांक्षा नहीं, उसकी अभिरुचि बेढंगी और अतिरेकयुक्त होती है । अेक ग्रंथकारने लिखा है कि स्त्रियोंको तरह-तरहके रंग जो पसन्द आते हैं, और रंग-बिरंगी व चित्र-विचित्र पोशाककी ओर अुनका मन जो दौड़ा करता है, उसका कारण अुनकी

परवशता है । यदि स्त्री स्वाधीन हो जाय, तो उसका पहनावा भी सादा और सफ़ेद हो जायगा । स्त्रियोंके सम्बन्धमें यह बात सच हो या न हो, मगर जनता पर तो यह भलीभाँति चरितार्थ होती है । जिस ज़मानेमें जनता अधिकार-हीन, परतन्त्र, बाल-वृत्तिवाली और ग़ैरज़िम्मेदार रही होगी, उसी ज़मानेमें मूर्खतापूर्ण कार्यों द्वारा इस त्योहारको मनानेकी यह प्रथा प्रचलित हुई होगी ।

रोमन लोगोंमें सैटर्नेलिया नामसे .गुलामोंका एक त्योहार मनाया जाता था । उस दिन .गुलाम अपने मालिकके साथ खाना खाते, जुआँ खेलते, आज्ञादीसे बोलते-चालते और .खुशियाँ मनाते । उस दिन अितना आनन्द मनानेके बाद फिर एक साल तक .गुलामीमें रहनेकी हिम्मत उनमें आ जाती थी ।

स्वराज्यवादी जनताको अधिक गंभीर बनना चाहिये । अपनी योग्यता क्या है, अपनी स्थिति कैसी है, आदि बातोंका विचार करके उसको ऐसा जीवन बिताना चाहिये, जो उसे शोभा दे । अगर वसन्तोत्सव मनाना है, तो समाजमें नया जीवन पैदा करके यह त्योहार मनाना चाहिये । अगर काम-दहन करना है, तो ब्रह्मचर्यव्रत धारण करके पवित्र बनना चाहिये । यदि होलिकोत्सव .गुलामोंके लिये एकमात्र सांत्वनाका साधन हो, तो स्वराज्यकी खातिर उसे तुरन्त ही मिटा देना चाहिये । अगर भाषाके भण्डारमेंसे गालियोंकी पूँजी कम हो जाय, तो उसके लिये शोक करनेकी कोभी ज़रूरत नहीं । होलीके दिनोंमें शहरों और गाँवोंकी सफ़ाई करनेमें हम अपना समय बिता सकते हैं । लड़के कसरत करने और बहादुरीके मरदाने खेल खेलनेमें तथा शराबके व्यसनमें फँसे हुअे लोगोंके मुहल्लोंमें जाकर उन्हें शराबखोरी छोड़ देनेका व्यक्तिगत उपदेश देनेमें इस दिनका उपयोग कर सकते हैं । स्त्रियाँ स्वदेशीके गीत गा-गा कर खादीका प्रचार कर सकती हैं ।

प्रत्येक त्योहारका अपना अेक स्वराज्य-संस्करण अवश्य होना चाहिये, क्योंकि स्वराज्यका अर्थ है, आत्मशुद्धि और नवजीवन ।

१२-३-'२२

होली

फागुन पूनो

१ दिन

होलीका त्योहार है तो हटा देने लायक । क्योंकि अिस दिनके पुराने कार्यक्रममें अनुत्तिका अेक भी अंश नहीं । फिर भी यह त्योहार सारे देशमें अितना अधिक रूढ़ और लोकप्रिय है कि अगर हम अिसका अुपयोग न कर सकें, तो वह हमारा ही दोष समझा जायगा । आज तक होलीके दिन, संस्कारी समझे जानेवाले लोग भी असंस्कारी बनते रहे हैं । अगर आगेसे संस्कारी लोग असंस्कारी लोगोंकी सेवा करनेमें अिस दिनका अुपयोग करें, तो यह त्योहार सार्थक हो जायगा । होलीके दिन हम हरिजनोंको विशेष रूपसे अपने यहाँ बुलायें; समानभावसे अुनका स्वागत करें; अुनके सुख-दुःखको समझें, या हरिजनोंकी बस्तीमें जाकर अुन्हें कोरा अुपदेश करनेके बजाय अुनके प्रति अपनी सक्रिय सहानुभूति दिखायें । अुनके लड़कोंको अपने यहाँ खेलनेके लिये बुलायें और अुनके साथ कबड्डी वगैरा खेलें ।

होलीका त्योहार मैदानी और मरदानी खेलोंके लिये विशेष अनुकूल है । दिनमें तरह-तरहकी कसरतोंके दंगल रखे जायँ । अुसके बाद सब मिलकर भोजन करें । रातको चाँदनीमें कबड्डी खेली जाय ।

अच्छा हो यदि होली जलानेकी प्रथा अुठा दी जाय । सिर्फ शौकके लिये ज़रूरी चीज़ें जलाना हमारे समाजको न पुसायेगा ।

घास, गोबर आदि खेतीके लिअे कामकी चीजें जलानेमें खेतीके प्रति लापरवाही प्रकट होती है । फिर भी छात्रोंको यह समझा दिया जाय कि गोशालामें धुआँ करके मच्छड़ोंसे जानवरोंकी रक्षा करनी चाहिये ।

होलीके दिन कच्चे आमकी भाँति-भाँतिकी चीजें बनाकर खानेमें औचित्य है ।

अिस दिन अपने सम्पर्कमें आनेवाले मज़दूरों, नौकरों और दूसरे ग़रीब लोगोंके साथ बैठकर खाना खानेकी प्रथा बहुत ही अच्छी है । खानेमें ऐसी ही चीजें रहें, जो सबको मिल सकती हों ।

बहुत ही अच्छा हो यदि होलीके दिन मद्यपान-निषेधका काम भी खास तौरसे किया जाय । अिस दिन हरिजनोंमें पैदा हुअे अनेक साधु-सन्तोंके चरित्रोंका कीर्तन विशेष रूपसे किया जाना चाहिये । जैसे, गुहक, नन्दनार, चोखामेळा, कनकदास, बळ आदि ।

धर्म-रक्षक शिवाजी

[फागुन बदी ३]

एक बार सत्याग्रहाश्रममें शिवाजी महाराजकी जयन्ती मनायी गयी थी। उस अवसर पर पूज्य गांधीजीने कहा था — “शिवाजी महाराजके बारेमें इतिहासकार क्या कहते हैं, उस तरफ ध्यान देनेकी अपेक्षा मैं इस बातको अधिक महत्त्व दूँगा कि सन्तोंने उनके सम्बन्धमें क्या कहा है। अगर सन्त पुरुषोंने उन्हें अच्छा प्रमाण-पत्र दिया हो, तो मेरे लिये वह काफी है।”

शिवाजी महाराजके विषयमें सन्त तुकाराम और समर्थ रामदासने जो आदर-वचन कहे हैं, वे सचमुच बहुत कीमती हैं; क्योंकि वे दोनों शिवाजीके समकालीन थे। महाराष्ट्रके महाकवि मोरोपन्तने शिवाजीकी तुलना जनकराजाके साथ की है। उसे हम अतिशयोक्ति समझकर छोड़ दें। शिवाजी महाराज जितने राज्य-संस्थापक थे, उतने ही धर्म-रक्षक भी थे। उनके ब्राह्मणोंको विशेष दान देनेकी कोअी घटना कहीं नहीं मिलती। उन्होंने कहीं कोअी गोशाला भी नहीं बनवायी थी। फिर भी महाराष्ट्रकी जनताने उन्हें ‘गो-ब्राह्मण-प्रतिपालक छत्रपति’की उपाधि प्रदान की थी।

ओस्वी सन् ७००में, जब मुसलमान हिन्दुस्तानमें आने लगे थे, इस देशकी हालत कुछ अच्छी नहीं थी। लोगोंमें आपसी फूट, जातिकी उच्च-नीचताका अभिमान, वहम, आलस्य और प्रमादका साम्राज्य सर्वत्र फैला हुआ था। श्री शंकराचार्यने हिन्दू-समाजको संगठित करनेका जो प्रयत्न शुरू किया था, उसे ओस्वी सन् १५०० तक अनेक सन्तोंने आगे बढ़ाया। वेदान्तके सूर्य और भक्तिकी चाँदनीके प्रभावसे हिन्दूधर्मका सनातनत्व फिर एक बार चमक उठा। फिर भी राजनीतिक तथा सामाजिक स्थिति पूरी

तरह सुधरी नहीं थी। अिसल्लिअे बहुतसे लोग धर्मान्तर करने लगे। अिसमें .जुल्म और ज़बरदस्तीका अंश कितना ही क्यों न रहा हो, तो भी यह निश्चित बात है कि सिर्फ़ अुसी कारणसे अितने ज़्यादा लोग धर्मान्तरित न किये जाते। कअी कारीगर जातियाँ विना किसी कारणके अस्पृश्य समझी जानेसे अूव गयी थीं। अुन्हें सामाजिक अत्याचारोंके अलावा सरकारी .जुल्म-ज़बरदस्तियाँ भी बहुत बरदाश्त करनी पड़ती थीं। अितिहासका सबूत है कि अिस तकलीफ़से परेशान होकर कअी जातियाँ पूरी-की-पूरी दूसरे धर्मोंमें चली गयीं। और अिसी रास्ते वे अपने अस्पृश्यताके कलंकसे मुक्त हो सकीं।

मुसलमानोंका जो हमला पजावसे शुरू हुआ, वह पूर्वमें बंगाल और अुत्कल तक पहुँचा, और दक्षिणमें पांड्य, केरल और चोल लोगोंके राज्यों तक फैल गया। अीस्वी सन् १३०० तक यह आक्रमण लगभग पूरा हो गया। अुस वक़्त दक्षिणमें अनागोंदी और हम्पीकी तरफ़ होयसळ वंशने हिन्दू-संगठनका अेक बड़ा ज़बरदस्त और सफल प्रयोग करके विजयनगरके साम्राज्यकी स्थापना की। यह साम्राज्य सिर्फ़ दो सौ बरस तक चला, लेकिन बग़दादके बादशाह और चीनके सम्राट्की अपेक्षा भी विजयनगरके 'तीन मुकुट धारण करनेवाले' महाराजाधिराजका वैभव बड़ा समझा जाता था। विजयनगरने अेक बार फिर पुरानी हिन्दू सस्कृतिका अुद्धार करनेका पूरा-पूरा प्रयत्न करके देखा। अुसने वेद-विद्याको फिरसे चालू किया; व्रत, अुत्सव आदिका विस्तार किया। अिअके परिणामस्वरूप श्रुति-स्मृति-पुराण तथा तंत्र द्वारा विस्तृत बना हुआ हिन्दूधर्म राजमान्य हुआ।

लेकिन अुसके अिस प्रयत्नमें आवश्यक आधुनिकता और मानवताको स्थान न मिलनेसे राकसतागड़ीकी लड़ाी (अिसे तालीकोटका युद्ध भी कहते हैं) में विजयनगरके साम्राज्यका

यकायक नाश हुआ और हिन्दूधर्म तथा हिन्दूसमाज फिर अेक बार अनाथ बने ।

ऐसी स्थितिको पहुँचे हुअे हिन्दू समाजमें फिरसे जी अुठनेकी जो छटपटाहट मौजूद थी, और जिसे साधु-सन्तोंने पुनः सींचा था, वह छटपटाहट शिवाजी महाराजमें प्रकट हुअी, और अुन्होंने फिरसे ' हिन्दवी स्वराज ' की प्रस्थापना करनेका निश्चय किया ।

विशेष रूपसे ध्यानमें रखने लायक बात यह है कि शिवाजीके मनमें अिस्लामके प्रति, अुसके आँलियों या धर्मग्रंथोंके प्रति तनिक भी तिरस्कार न था । हिन्दुओं द्वारा मुसलमानोंकी मस्जिदों, रोज़ों या मक़बरोंके तोड़े जानेकी अेक भी मिसाल नहीं पायी जाती । हिन्दू लोगोंके मनमें केवल अपने धर्मके प्रति नहीं, बल्कि सभी धर्मोंके प्रति श्रद्धा और आदर होते हैं । धर्म वही है, जो मनुष्यको अूपर अुठाये । हिन्दू लोग अितना तो अच्छी तरह समझने लगे थे कि अगर धर्मका नाश होने दिया गया, तो सारी मानवता ही नष्ट हो जायगी । अगर अुनमें कोअी खामी थी, तो वह यही थी कि जिस तरह धौंकनी चलाकर अग्निको प्रज्वलित रखा जाता है, अुस तरह जीवनके शुद्धीकरण और संस्करण द्वारा धर्मका भी संस्करण करनेकी आवश्यकता होती है, अिसके बारेमें वे पर्याप्त रूपसे जाग्रत नहीं थे ।

शिवाजीके समयमें समाज पर सन्तमतका प्रभाव बहुत पढ़ चुका था, और तुकाराम तथा रामदास जैसे प्रभावशाली धर्मसुधारक धर्म-सेवा कर रहे थे । तुकाराम जैसे कअी साधुओंने पंढरपुरकी वारी* संस्था चलाकर भक्ति-संप्रदायका संगठन किया, और रामदासने जगह-जगह अपने मठों और हनुमानके मन्दिरोंके साथ-साथ अखाड़ोंकी स्थापना करके वर्णाश्रमधर्मका संगठन किया ।

* वारी=प्रत्येक अेकादशीके दिन पांडुरंगके दर्शन करनेके लिये पदल पंढरपुर जाना ।

असके साथ ही जो क्लिष्टे प्राचीन कालमें देशकी रक्षा करते आ रहे थे, अन्हें जीत कर शिवाजीने अपने राज्यका संगठन किया । धर्मान्तरित सरदारोंको फिरमें हिन्दूधर्ममें लेकर, सेनामें हिन्दुओंके साथ मुसलमानोंको भी भरती करके, राज्य-तंत्रमें सभी जातियोंके लोगोंको स्थान देकर, किसीको जागीर या अिनाम न देनेका नियम करके, राज्यको मज़बूत बना कर, अच्छे लोगोंकी सिफ़ारिशसे आये हुअे निष्ठावान लोगोंकी ही सेनामें तथा राज्य-तंत्रमें शामिल करके और अैसे ही दूसरे अुपायोंसे शिवाजीने अपने राज्य-तंत्रका संगठित, सुदृढ़ और कार्यक्षम बनाया, और धीरे-धीरे अपनी जलसेना भी तैयार करके व्यापार बढ़ानेका प्रयत्न किया ।

शिवार्जाका अितिहास देखनेसे साफ़ ही मालूम हांता है कि वे अपने ज़मानेसे बहुत आगे बढ़े हुअे थे । प्रत्येक काम नियत समय पर होना ही चाहिये, निश्चित की हुअी योजनाको क्रमसे पूरा करना ही चाहिये, होनेवाला खर्च, हिसाब और अनुपातसे बाहर जाना ही न चाहिये, हुक्मकी तामीलमें थोड़ी भी ग़फ़लत हरगिज़ न होनी चाहिये, वगैरा तमाम बातोंमें शिवाजीकी दृढ़ता लगभग अंग्रेज़ों-जैसी ही थी । शिवाजी अच्छी तरह जानते थे कि राज्य चलानेके लिये अखंड द्रव्यबल और मनुष्यबलकी आवश्यकता रहती है; असलिये अपनी पूरी ताक़त लगाकर अन्होंने अिन दोनोंका बहुत बड़ा संग्रह किया था । शिवाजीके पुत्र संभाजीने अपने पिताकी अिस चौमुखी कमाअीको बहुत कुछ बरबाद कर दिया था; फिर भी राजारामके समयमें महाराष्ट्र औरंगज़ेबके खिलाफ़, जो खुद वहाँ लड़ने पहुँचा था, अठारह बरस तक लड़ता रहा । यही नहीं, बल्कि अन्तमें अुसने अुस सम्राट्की बलि ली, और अपना समवाय-तन्त्र (फेडरेशन) प्रस्थापित किया । यह अेक ही बात शिवाजीकी योग्यताका पर्याप्त प्रमाण है ।

शिवाजीके अेक सरदारने, अुस जमानेके रिवाजके मुताबिक लड़ाओकी लूटमें कल्याणके सूबेदारकी खूबसूरत बहूको पकड़ा, और अुसे शिवाजीको समर्पित किया । मगर नौजवान शिवाजीने अपने मनमें किसी तरहके पापको स्थान नहीं दिया । अुन्होंने अुसे बहन माना और भाओकी तरफसे भेंटके तौर पर दो गाँव अिनाममें देकर बड़े सम्मानके साथ अुसे अुसके घर भेज दिया । अुस युवतीका रूप-लावण्य देखकर शिवाजीने अितना ही कहा — “अगर मेरी माँ अितनी खूबसूरत होती, तो मैं भी खूबसूरत होता !”

शिवाजीकी माताने अपने पुत्रको रामायण-महाभारतके आदर्शोंकी दीक्षा दी थी, और यह भी सिखाया था कि धर्मके लिये जीना चाहिये तथा धर्मके लिये मरना भी चाहिये । शक्तिके अुपासक शिवाजीने देशकी धर्म-शक्तिको चमका दिया और हिन्दुस्तानके सामने अेक अूँचा, अुज्ज्वल आदर्श पेश किया । अुनका जीवनमंत्र था — ‘अन्यायके खिलाफ लड़ना और किसी हालतमें हिम्मत न हारना !’

२५-५-’३६

शिवाजी - जयन्ती

फागुन बदी ३

१ दिन

गुजरात और महाराष्ट्रका संबंध अटूट है । जिस तरह महाराष्ट्रमें गुजराती लोग बसे हुए हैं, अुसी तरह गुजरातमें भी महाराष्ट्री लोग स्थायी रूपसे बस गये हैं । महाराष्ट्र अुत्सवप्रिय है । अुसने गणेश-चतुर्थी-जैसे कुछ त्योहारोंको बड़ा सामाजिक और राष्ट्रीय रूप दे दिया है । वे सब त्योहार गुजरातमें नहीं चल सकते । लेकिन यह वांच्छनीय है कि ख़ास महाराष्ट्रीयोंके लिये अेक त्योहार रखकर गुजराती और महाराष्ट्री लोग अुसे मिलकर मनायें ।

शिवाजी-जयन्ती मनानेमें अेक विशेष अर्थ है । अंग्रेज़ अतिहासकारोंने शिवाजीको गुजरातके दुश्मनके रूपमें चित्रित किया है । अिस असरको धो डालनेके लिये और महाराष्ट्रके रामदास-जैसे साधु-सन्तोंका स्मरण करनेके लिये फागुन बदी ३ तिश्चित की जाय । ज्ञानेश्वर, अेकनाथ, तुकाराम, नामदेव, जनाबाअी, मुक्ताबाअी आदि महाराष्ट्रके सन्तोंका तर्पण अिसी दिन किया जा सकेगा । अिस त्योहारके मनानेमें महाराष्ट्रीयोंसे सलाह और मदद भले ही ली जाय, लेकिन अच्छा यह होगा कि अिसका सूत्रपात गुजराती लोग ही करें । रामदास और ज्ञानेश्वरका परिचय गुजरातीमें दिया जा सकता है । दूसरे साधु-सन्तोंके विषयमें भी अिस दिन थोड़ी बहुत जानकारी दी जाय, और अुनकी कविताओंका गुजरातीमें अनुवाद हो जाय, तो परिचायक साहित्यमें अुतनी वृद्धि होगी ।

अिस दिन सब तरहके मरदाने खेल खेले जायँ । खेलोंमें भालेका खेल अवश्य रक्खा जाय ।

प्रेमवीर ब्रह्मचारी

(२५ दिसम्बर)

प्रेममूर्ति, भगवद्भक्त, ब्रह्मचारी अीसाने अीश्वरकी अेक अद्भुत विभूति व्यक्त की है । बुद्ध भगवान्की तरह अीसाका जीवन भी कष्ट-गंभीर और अुदात्त-कोमल है । अेक बड़अीका अपढ़ लड़का अपने समयके साधुपुरुषों और धर्माचार्योंसे प्रश्न पूछ-पूछ कर स्वतंत्र रूपसे धार्मिकताका आदी बनता गया, और केवल श्रद्धा तथा अीश्वरकृपासे अीश्वरपरायण भक्त बना । यह तो सभी कहते थे कि अीश्वर सर्वशक्तिमान है; लेकिन अीश्वर क्षमावान ही नहीं, बल्कि सर्वसह भी है, अिसे पहचाननेवाले सत्पुरुषोंमें भी

आसाका अपना अनूठा स्थान है। ब्रह्मचर्यके माहात्म्यको पहचानकर
 उस रसायनको सिद्ध करनेवाले तपस्वी तो बहुत हो गये हैं; लेकिन
 जिनके लिये ब्रह्मचर्य सहज सिद्ध था, जैसे सत्पुरुषोंमें भी आसा
 विशेष रूपसे अलग दिखायी देता है, क्योंकि उसमें अिस आश्वरी
 प्रसादका अहंकार न था। वह कहता था — 'ब्रह्मचर्य तो अुन्हीं
 लोगोंके लिये सहज सिद्ध है, जिन्हें वह परमेश्वरसे मिला है; औरोंके
 लिये तो वह लोहेके चने चबाने-जैसा ही मुश्किल है।' यदि किसी
 ब्रह्मचारीने स्त्री-जातिके अुद्धारके लिये अपना हृदय निचोया हो, तो
 वह ब्रह्मचारी आसा था। अितनी अुत्तमताको उसका जमाना
 हज़म न कर सका। जिस अपराधके लिये सुकरातको मौतकी सज़ा
 मिली, अुसी अपराधके लिये प्रभुपुत्र आसाको सूलीपर चढ़ना पड़ा।
 अनेक अवतारी पुरुषोंने अपने-अपने शिष्यों और भक्तोंको भक्ति-
 धर्मकी दीक्षा दी है। आसाने अपने श्रावकों और अनुयायियोंको
 जो अुपदेश दिये, अुनमेंसे दो-चार संग्रहीत हुअे हैं। अुनका असर,
 सैकड़ों बरसोंसे करोड़ों लोगोंपर होता रहा। इसे अेक तरहका
 दुर्भाग्य ही समझना चाहिये कि जैसे कारुण्यवीरके नामसे अेक स्वतंत्र
 धर्मकी स्थापना हुअी। बरबस यह अनुभव होता है कि आसाके
 अनुयायियोंने अेक अलग धर्मकी स्थापना करके अुसके अुपदेशकी
 व्यापकताको मर्यादित किया है। जो हो। सभी धर्मके लोगोंको चाहिये कि
 वे आजके आसाकी कहे जानेवाले लोगोंकी तरफ़ न देखकर आसाके
 जीवन, अुपदेश और बलिदानकी ओर देखें, और अुस अुपदेशके
 अनुसार चलनेवाले सन्तोंके जीवनका निरीक्षण करें।

यही दृष्टि दूसरे धर्मोंके बारेमें भी रखनी चाहिये।

बड़ा दिन

२५ दिसम्बर

१ दिन

हिन्दू देवीके दरबारमें हरअेक धर्म, पंथ और मतको स्थान है । हिन्दूधर्मका किसी भी धर्मके साथ विरोध नहीं । 'यस्मान्नो-द्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः' यह वृत्ति हिन्दूधर्मकी नस-नसमें मौजूद है ।

त्यागी, ब्रह्मचारी, भगवद्भक्त, निष्ठावीर अीसामसीहकी जयन्ती भी हम ज़रूर मनायें । अपने ढंगसे मनायें । हिन्दूधर्ममें सद्गुरुकी अुपासनाका जो मार्ग है, 'यस्य देवे पराभक्तिः यथा देवे तथा गुरौ'की जो वृत्ति है, अुसीका अेक स्वरूप अीसाअी धर्म है । अिस दिन अीसाका गिरिप्रवचन पढ़ा जाय । अपने पड़ोसमें कोअी दीन, दुःखी या बीमार हों, तो अुनकी सेवा की जाय । अिसके पास कम हो, अुसे कुछ-न-कुछ दिया जाय । विद्यार्थियोंको अीसाके बलिदानकी कहानी पढ़कर सुनायी जाय । अीसाअी मित्रोंको अपने घर बुलाया जाय, और हम भी अुनके घर जायँ ।

मुहर्रम

शिया और सुन्नी पंथियोंमें क्या मतभेद है, अिस्लामी धर्मपुरुषोंमें हसन और हुसैनका क्या स्थान है, अिस बारेमें हिन्दू लोग भले ही अुदासीन हों, लेकिन अेशियाके पश्चिमी प्रदेशोंमें, अरबस्तानकी पुण्यभूमिमें, धर्मके लिये कितना बड़ा बलिदान किया गया, और पैगंबरकी आज्ञा और अुपदेशोंके प्रति वफ़ादार रहनेकी खातिर धर्मनिष्ठ मुसलमानोंने कैसे-कैसे त्याग किये, कितनी मुसीबतें अुठायीं, और सारे युद्धमें कितनी बहादुरीके साथ कषात्रधर्मके सब

अंगोंका पालन किया, आदि सब बातें हमारे लिये बहुत महत्त्वकी हैं । मुहर्रमका त्योहार मुसलमान भाजियोंके लिये श्राद्धका त्योहार है । अस्लामके बड़े-से-बड़े शहीदोंकी याद दिलानेकी शक्ति अस त्योहारमें है । हमारे मुसलमान भाभी मुहर्रमके दिनोंमें अेक पुरानी कहानीसे धर्मनिष्ठा प्राप्त करते हैं; और अुस हद तक भारतवर्षकी धर्म-निष्ठामें वृद्धि करते हैं । हिन्दुस्तान धर्मभूमि है । यहाँकी हर-अेक जाति जिस हद तक धर्मनिष्ठाकी आदत डालेगी, अुस हद तक अस धर्मभूमिकी शक्ति अवश्य बढ़ेगी ।

३-९-'२२

मुहर्रम

१ दिन

यह धर्मवीरोंका त्योहार है । भले हम ताज़ियेमें शरीक न हो सकें, फिर भी जो लोग धर्मके नामपर प्राणार्पण करनेको तैयार हो जाते हैं, अुनके जीवन और मरणसे हमें ज़रूर प्रेरणा मिल सकती है । अिमाम हुसैनकी कहानी, ख़िलाफ़तका प्राचीन अितिहास, और करबलाकी भीषण घटना, आदिके बारेमें हम विद्यार्थियोंको समझायें । विद्यार्थी शिया और सुन्नीके भेदको भी जानें ।

अिस दिन हम अपने मुसलमान मित्रोंको विशेष रूपसे मिलनेके लिये बुलायें । अगर अुस दिन अुनके यहाँ पशु-वध न हुआ हो, तो हम खास तौर पर अुनसे मिलने जायँ ।

समझता है कि वह तेरा भक्त है; लेकिन वह तो अपने पुत्रका भक्त है ।” सपनेमें आकर ओश्वरने अब्राहीमसे .कुरबानी करनेको कहा । .कुरबानीका कायदा यह है कि जो चीज़ हमें अत्यंत प्रिय हो, जिसे हम सबसे ज़्यादा क़ीमती समझते हों, उसीकी .कुरबानी की जानी चाहिये । दूसरे दिन अब्राहीमने गाय या बकरेकी .कुरबानी की । लेकिन रात उसने फिर वही सपना देखा—‘ .कुरबानी कर !’ उसने पहलेसे कुछ बड़ी .कुरबानी की; मगर वह मंज़ूर नहीं हुयी । फिर सपना दिखायी पड़ा । उसने नम्र होकर ओश्वरसे प्रार्थना की और पूछा—“ हे मालिक, तू किसकी .कुरबानी चाहता है ?” ओश्वरने कहा—“ तेरे प्यारे बेटेकी !”

भक्तश्रेष्ठ अब्राहीमके हृदयपर तनिक भी आघात न हुआ । उसने ओश्वरको अपना सर्वस्व समर्पित किया था । दूसरे दिन लड़केको लेकर भक्तराज कुरबानगाहकी ओर निकल पड़ा । शैतानने माँ और बेटेको बहकानेकी कोशिशकी, लेकिन उस प्रेमल कुटुम्बमें ओश्वरभक्ति अतनी दृढ़ थी कि तीनोंमेंसे अेक भी व्यक्ति मोहवश न हुआ । पिताने पुत्रकी गर्दनपर छुरी रखी ही थी कि अितनेमें परमेश्वरने उसे रोका और अिस्माअिलके वदलेमें अेक पशुकी .कुरबानी ही स्वीकार की । अब्राहीम, अिस्माअिल और अिस्माअिलकी माता, तीनोंकी परीक्षणा पूरी हुयी और शैतानकी फ़ज़ीहत हुयी ।

अिस अिस्माअिलके वंशमें ही अिस्लामी धर्मके नबी महम्मद पैग़म्बरका जन्म हुआ था ।

अैसी अिस अद्भुत घटनाकी यादमें अिस्लामी भाअी बक़् ओदके दिन .कुरबानी करते हैं । कौटुम्बिक मोहको त्यागकर शुद्ध ओश्वरभक्ति करने और कर्तव्यके आगे मोहको नष्ट करनेका धार्मिक तत्त्व ही अिस त्योहारमें अभिप्रेत है । यह तत्त्व जितना अिस्लामको प्रिय है, अुतना ही दूसरे धर्मोंको भी प्रिय है । स्वार्थ, मोह, लोभ आदि सबका नाश करनेके लिये अपनी और अपनी प्रिय वस्तुकी

.कुरबानी करना ही सच्ची धार्मिकता है। यही महान् यज्ञ है। अिसके स्मृति-चिह्नके रूपमें प्रत्येक धर्ममें बलिदानकी प्रथा पुराने समयसे चली आयी है। लेकिन जैसे-जैसे हममें जीव-दया बढ़ती गयी, वैसे-वैसे हम अिस बलिदानमेंसे अेक-अेक वाहरी चीज़को कम करते गये। हमने नरमेध छोड़ा, अश्वमेध छोड़ा, मांसका भोग लगाना छोड़ा, और अन्तमें भैसे या बकरेकी हत्या करनेके बदले अुर्दके आटेका पशु बनाकर अुसकी बलि चढ़ाने लगे। आखिर कुम्हड़ा काटकर या नारियल फोड़कर ही हम सन्तोंप मानने लगे। लेकिन बलिदानकी कल्पनाको हमने जाग्रत रखा है। मांसाहारी लोग पशुकी बाल चढ़ायें, तो अुसमें आश्चर्यजनक या अनुपयुक्त कुछ भी नहीं। हमने पशु-हत्याको पाप समझकर मांसाहारका त्याग कर दिया, अिसलिअे पशुका बलिदान भी छोड़ दिया।

हिन्दुस्तानमें दया-धर्म है। वह जैनोंमें है, और दूसरे हिन्दुओंमें भी है; और जिस तरह हिन्दुओंमें है, अुसी तरह मुसलमानोंमें भी है। यदि अिस दया-धर्म पर हम विश्वास रखें, तो अुसका असर सर्वव्यापी हुअे बिना न रहेगा। यह सोचना गलत है कि मुसलमान लोग हमेशा हिन्दुओंके दिलोंको ठेस पहुँचानेके लिअे ही गोहत्या किया करते हैं। अगर हम अिस विचारको त्याग दें, तो हमारे बिना कहे, बिना किसी तरहको शर्त लगाये या क़ानून पास किये ही मुसलमान लोग-यथासमय गायकी हत्या करना छोड़ देंगे। मुस्लिम समाजमें खानदानियत है। पड़ोसी-धर्मका पालन करनेके लिअे अुन्होंने आजतक कअी बार अपनी जान खतरेमें झोंक दी है, और कअी मरतला सर्वस्वका त्याग करके वे बरबाद हुअे हैं। मुसलमान लोग हमारी ही तरह खेती-बाड़ीपर गुज़र-बसर करते हैं; हमारी तरह वे भी अपने ढोरोंसे प्यार करते हैं। गोरोंकी तरह अुन्होंने गोमांसको अपने नित्यके भोजनकी चीज़ नहीं बनाया है। गोरवषाके बारेमें मुसलमान लोग हमारे शत्रु नहीं, मित्र

बन सकते हैं। अगर हम अिस्लामपर विश्वास करें, तो सिर्फ हिन्दुस्तानमें नहीं, बल्कि अिस्लामी दुनियामें भी अुनकी मददसे हम गोरक्षा कर सकेंगे।

बक्र-अीदका त्योहार सिर्फ अिब्राहीम और अुनके स्त्री-पुत्रका स्मरण करनेका त्योहार नहीं है। आजतक धर्मके नामपर जिन्होंने अपना सर्वस्व समर्पित किया है, अुन सभी धर्म-वीरोंका स्मरण आजके अिस पवित्र अवसरपर हम करें। अगर बक्र-अीदके दिन हिन्दू भी अिस भक्तराजका स्मरण करें, तो अुनकी धार्मिकतामें वृद्धि हुअे बिना न रहेगी, और बक्र-अीदका त्योहार हिन्दुस्तानकी राष्ट्रीय अेकताको नष्ट करनेके बजाय अुसे बढ़ायेगा। जिस तरह ज़िलहिज्ज मासकी दसवीं तारीख अिब्राहीमकी याद लेकर आती है, अुसी तरह वह अिस बातकी भी साक्षी रहेगी कि खिलाफत और स्वराज्यके लिअे हिन्दू और मुसलमान अेक हो गये थे। हम यह आशा करें कि अिब्राहीम जैसे पवित्र पुरुषके स्मृति-दिनका हम हिन्दू-मुसलमानोंके झगड़ेसे अपवित्र न बनायेंगे। अितनी सावधानी धार्मिक हिन्दू-मुसलमान ज़रूर बरतें। अेक-दूसरेके हृदयकी सच्चाईको पहचान लेनेके बाद झगड़ोंका मूल कारण ही न रहेगा।

१-८-'२२

बक्र-अीद

१ दिन

अिब्राहीमके प्राचीन धर्मका यह त्योहार है। बलिदानकी महिमाको समझानेके लिअे मुसलमानोंके नबी साहबने अिसका महत्त्व बढ़ाया है। पशुओंको क़त्ल करनेके शौक़के तौरपर यह त्योहार नहीं चलाया गया है। अिस त्योहारका प्रयोजन यह है कि जो वस्तु हमें अत्यंत प्रिय हो, वह अीश्वरको समर्पित करनेकी तैयारी की जाय। छात्रोंको अिस दिनकी कहानी सुनायी जाय।

स्वर्गीय लोकमान्य तिलक

(पहली अगस्त)

अस्त्री सन् १८५७के असफल प्रयत्नके बाद अंग्रेजोंकी सत्ता इस देशमें पूरी तरह जम गयी, क्योंकि आपसी फूटके कारण देशका शारीरिक बल छिन्न-भिन्न हो चुका था । शरीर-बलके इस युद्धमें अनुशासन और ऐक्यताके अभावमें देश हार गया; लेकिन भारतीय राष्ट्र और भारतीय संस्कृति अंग्रेजोंके चंगुलमें न फँसी है, न फँसनेवाली है । हिन्दुस्तानियोंको और अंग्रेजी सल्तनतको इस बातका अखण्ड स्मरण और पूरा विश्वास दिलानेवाली जो चन्द्र हस्तियाँ इस देशमें पैदा हुईं, उनमेंसे एक विक्रमवीर इस लोकको छोड़कर चल बसा है । सन् सत्तावनमें, जब स्वतंत्रताका महाप्रयत्न हुआ, बालगंगाधर अरु वर्षके बालक थे । जिस शिक्षाके बलपर अंग्रेज यहाँ विजय प्राप्त कर सके, उसी शिक्षाको हासिल करके अंग्रेजोंके साथ लड़नेका विचार रखनेवाले व्यक्तियोंमें तिलक अग्रसर सिद्ध हुअे । सार्वजनिक जीवनमें उनके साथी और गुरु श्री विष्णुशास्त्री चिपळूणकर अंग्रेजी साहित्यको 'शेरनीका दूध' कहते थे । उस 'दूध'का पान करके तिलकने जन-हितके लिए राज्यकर्ताओंके साथ लड़नेका निश्चय किया ।

शुरूसे स्वदेश-सेवाके सपने देखनेवाले बालगंगाधरके जीवनमें इस व्योरेका कौआ ख़ास महत्त्व नहीं कि उन्होंने बीस सालकी उम्रमें बी० ए०का अम्तहान पास किया, और फिर एल्-एल्० बी०की परीक्षा दी, वगैरा-वगैरा । सन् सत्तावनके अनुभवसे यह तां निश्चित हो चुका था कि प्रजा-शरीर कमज़ोर हो चुका है । उसे बलशाली बनानेका, जन-जाग्रतिका, ऐक्यमात्र उपाय राष्ट्रीय शिक्षा है, इसका निर्णय तिलकने बचपनमें ही चिपळूणकर, नामजोशी,

आगरकर आदि मित्रोंके साथ कर लिया था। विष्णुशास्त्री स्वभिमानकी मूर्ति थे। स्वधर्म, स्वदेश, और स्वभाषाके बारेमें उनके मनमें आदर और अभिमान था। अिसीलिअे स्वभिमानवश सरकारी नौकरीका मार्ग छोड़कर अुन्होंने जन-शिक्षाके कार्यमें अपना जीवन समर्पित कर दिया। देशमें तेजस्वी शिक्षाका प्रसार हो, लोगोंको निर्दोष राहित्य पढ़नेको मिले, देशहितके प्रश्नोंकी चर्चा हो, यही नहीं, बल्कि लोगोंकी अभिरुचि धर्मको हानि पहुँचानेवाली न बन जाय, अिस अुद्देश्यमें श्री विष्णुशास्त्री चिपळूणकरने 'न्यू अिग्लिश स्कूल' नामका अेक स्कूल, 'नवीन किताबखाना' नामकी पुस्तकोंकी अेक दुकान, 'निबन्धमाला' नामकी अेक तेजस्वी मासिक पत्रिका, और पौराणिक तथा हिन्दू-जीवनसे सम्बन्ध रखनेवाली तसवीरें छापनेके लअे 'चित्रशाला' नामके अेक कलागृहकी स्थापना की। आगरकर अुनके समान ही देशाभिमानी थे, लेकिन अुनका झुकाव अंग्रेजी साहित्यकी ओर विशेष होनेसे अुनमें समाज-सुधारकी वृत्ति अधिक तीव्र थी। अिन लोगोंने लोक-शिक्षाका कार्य शुरू किया। तिलक 'न्यू अिग्लिश स्कूल'में गणित पढ़ाते थे; बादमें अिस मित्र-मंडलने अेक कॉलेजकी स्थापना की। पहले अुसका नाम 'महाराष्ट्र कॉलेज' रखनेका अिरादा था; लेकिन फिर अुसे 'फर्ग्युसन कॉलेज'का नाम दिया गया। अिसके साथ ही तिलक अेक लॉ क्लास भी चलाते थे। देशभक्तोंका यह युवक-मंडल सभी प्रश्नोंकी चर्चा किया करता था। लेकिन तिलककी अपनी वृत्ति यह थी कि राष्ट्रीय शिक्षाका काम हाथमें लेनेके बाद जहाँतक हो सके, दूसरे कामोंमें नहीं पड़ना चाहिये। विद्यार्थी-जीवनमें अुनकी अेकाग्र अध्ययनशीलता और अध्यापनके प्रति अुनकी रुचि व कलाको देखते हुअे यह वृत्ति अुनके लिये स्वाभाविक थी। यही कारण था कि डेक्कन अेज्युकेशन सोसाअिटीको 'जेस्युअिट' संस्थाके ढंगपर चलाने, और अुसमें काम करनेवाले व्यक्तियों द्वारा अपना सर्वस्व संस्थाको समर्पित करनेके आदर्शके बारेमें वे आग्रही थे।

आगरकरजी अिस विचारसे सहमत न हो सके । मतभेद बढ़ता गया, और तिलकने फर्ग्युसन कॉलेज छोड़ दिया । जन्मसिद्ध अध्यापकके जीवनमें परिवर्तन हुआ, और अेक पत्रकारकी हैसियतसे जन-शिक्षाका व्यापक कार्य हाथमें लेकर वे लोकमान्य बने ।

तिलकने मराठीमें 'केसरी' नामका पत्र निकालना शुरू किया, और वे अंग्रेज़ीमें 'मराठा' भी चलाने लगे । जब 'केसरी' के साथ मतभेद अुत्पन्न हुआ, तो आगरकरने 'सुधारक' पत्र शुरू किया । अिन दो पत्रोंने समाज-सुधारके वारेमें और हिन्दू-समाज-व्यवस्थामें सरकारी हस्तक्षेपकी मर्यादाके बारेमें कअी वर्षों तक चर्चा करके महाराष्ट्रको भली या बुरी, किन्तु बड़ी-से-बड़ी शिक्षा प्रदान की । 'केसरी'में फूट पड़नेसे पहले ही अिस युवक-मंडलपर अेक भारी आकृत आ पड़ी ।

जब शिवाजी महाराजके अेक वंशज, कोल्हापुरके महाराजको, पागल ठहराकर मद्रास भेजा गया, तो अिन देशाभिमानी नवयुवकोका पुण्यप्रकोप भड़क अुठा । अुन्होंने अिस घटनाकी गहराअीमें अुतरकर 'केसरी'में लेख लिखे, जिसके परिणाम स्वरूप 'केसरी'पर मुक़दमा चलाया गया । अिस मुक़दमेके दरमियान विष्णुशास्त्री बत्तीस सालकी छोटी अुम्रमें चल बसे, और आगरकर तथा तिलकको अेकसौ अेक दिनकी सरकारकी मेहमानगीरी स्वीकार करनी पड़ी । जनमत तैयार करके सरकारतक अुसकी आवाज़ पहुँचानेके अिरादेसे महामति रानड़े जैसे व्यक्तियोंने पूनामें 'सार्वजनिक सभा'की स्थापना की थी । 'सार्वजनिक सभा' काँग्रेसकी जननी समझी जाती है । अिस सभामें भी अिस प्रश्नपर मतभेद पैदा हुआ कि सरकारके साथ क्रिय हद-तक सहयोग किया जाय, और जिन्हें तिलकके विचार पसन्द न थे, अुन्होंने 'डेक्कन सभा'की नींव डाली । अिस तरह पूनावालोंमें परस्पर तीव्र मतभेद रहने लगा, और अुसके कारण पूनाका राजनीतिक वायुमंडल गरम रहने लगा । अुज भी राजनीतिक चर्चामें, और

अंग्रेजोंकी नीतिके प्रति सजग रहनेमें सारे देशमें पूना शहर सबसे आगे गिना जाता है ।

जेलसे छूटकर आनेके बाद तिलकने अपना सारा ध्यान 'केसरी'-पर केन्द्रित किया । मराठी भाषाको गढ़कर अुमे समृद्ध बनाने, वर्तमान समयके सभी विचारों और राजनीतिक सिद्धान्तोंको मराठी भाषा द्वारा जनसमुदायको समझाने, जनताके भावोंकी सभी छटाओंको अुसमें व्यक्त करने और भाषामें राष्ट्रीय जापतिके प्राण अुत्पन्न करनेके विविध अुद्देश्यको सामने रखकर अुन्होंने प्रति सप्ताह लिखना शुरू किया । अगर कोअी कहे कि 'केसरी'ने राजनीतिक महाराष्ट्रका निर्माण किया, तो वह अयथार्थ न होगा । लोकमान्यके 'केसरी'की भाषा आडंबर-रहित, सीधी किन्तु प्रौढ़ होती थी । अुसमें प्रकाशित होनेवाला साहित्य विषयपर पूर्ण अधिकार बतानेवाला, दलीलोसे युक्त और जोशीला होता था । जब 'केसरी' किसी प्रतिपक्षीके खिलाफ़ मैदानमें अुतरता, तो अुसकी भाषाका आवेश कमालतक पहुँच जाता । जोशके साथ कटुता या ज़हर न रहता हो, सो बात नहीं; लेकिन अुसमें भी गंभीरताका पालन बहुत हदतक किया जाता था । प्रतिपक्षीको हरानेके लिये 'केसरी' जिस ज़हरका प्रयोग करता था, वह बहुतसे लोगोंकी सौम्य अभिरुचिको असहनीय-सा लगता था, और अिसलिये बहुतोंने अिस आशयकी आलोचना की थी कि तिलककी भाषामें विनय नहीं होती, आदर नहीं होता । अिस आक्षेपका जवाब तिलक अिस तरह दिया करते — " लड़वैया आदमी अिससे भिन्न कुछ कर ही नहीं सकता । अगर मुझे निवृत्तिमें ही समय बिताना होता, तो मैं भी सब तरहकी अुदारता अवश्य दिखलाता; लेकिन जिसे काम करना है, अुसे तो मौक़ा पड़ने पर प्रखर होना ही चाहिये । " देशी वृत्तपत्रोंमें 'केसरी'के समान व्यवस्थित, प्रतिष्ठित और लोकप्रिय वृत्तपत्र हिन्दुस्तानमें शायद ही कोअी हो । महाराष्ट्रका सार्वजनिक

जीवन, हिन्दुस्तानकी जाग्रति, अशियाकी भवितव्यता, यूरोपकी राजनीति, और दुनियाकी प्रगतिके बारेमें 'केसरी' में हमेशा विद्वत्ता और जानकारीसे भरे हुए प्रौढ़ लेख छपा करते थे। 'केसरी' अत्यंत नियमित पत्र है। उसका सब विधान और प्रबन्ध स्वयं तिलकने ही किया था। कहा जाता है कि दुनियामें जहाँ-जहाँ मराठी भाषा बोली या पढ़ी जाती है, वहाँ-वहाँ 'केसरी' पहुँच जाता है।

लेकिन एक 'केसरी' ही तिलक महाराजका कार्यक्षेत्र न था। उन्हें एक तरफ़ सरकारके खिलाफ़ और दूसरी तरफ़ समाज-सुधारकोंके खिलाफ़ लड़ना पड़ता था। वास्तवमें तिलक पुराणप्रिय (दक्रियानूसी) नहीं थे; कभी सामाजिक सुधार उन्हें बहुत जरूरी मालूम होते थे। फिर भी उन्होंने बहुतसे सुधारोंका विरोध किया, जिससे गलतफ़हमियाँ पैदा हुईं। लोग उन्हें कुधारक (सुधारोंके दुश्मन) मानने लगे। तिलककी धारणा यह थी कि "समाज-सुधारोंका काम तो हमेशाका काम है; इसलिये वह आहिस्ता-आहिस्ता होना चाहिये; खासकर, जब विदेशी राज्यके नीचे दबकर जनता आत्मविश्वास खो बैठी हो, और जब विधर्मों पादरियों द्वारा रात-दिन हमारी संस्कृतिपर प्रहार हो रहे हों, तब समाजको स्वाभिमानशून्य और हतोत्साह बनाना बड़ी गलती है। फिर, अगर हम समाज-सुधारोंके पीछे पड़ गये, तो शिक्षित और अशिक्षितके बीच एक खाभी-सी पैदा होगी; उनमें फूट पड़ेगी और राजनीतिक मामलोंमें हम अधिक कमज़ोर बन जायेंगे। इसलिये समाजपर हमला करके नहीं, बल्कि धीरे-धीरे समाजको अपने वशमें करके ही यथासंभव सुधार किये जायें। जब सरकारकी शक्तिसे चौधियाँकर हम उसके सामने नरम बन जाते हैं, तो फिर श्रद्धा और आदरके साथ समाजके सामने भी हम नम्र क्यों न बनें?" अपने ऐसे विचारोंके कारण, जहाँतक बन पाता, वे 'केसरी' में समाज-सुधारके सवाल उठाते ही न थे।

अतनेमें 'सम्मति वयका बिल'—age of consent bill— पेश हुआ। यह नहीं कि तिलकको अस बिलका तत्त्व मान्य न हो; फिर भी अन्होंने असका घोर विरोध किया। उनका कहना था कि “अंग्रेज़ लोग पराये हैं, वे जान-बूझकर हमारी सामाजिक बातोंमें दखल नहीं देते, अस तरह उनकी अदासीनताके कारण ही क्यों न हो, धार्मिक और सामाजिक विषयोंमें हमें जो स्वराज्य मिला है, उसे हम अपने ही हाथों क्यों खोयें? अगर हम खुद ही सरकारको अपने घरके अन्दर प्रवेश करने देंगे, तो हमारा स्वाभिमान और स्वातंत्र्य कम हो जायगा और हम अधिक दुर्बल व पराधीन बन जायेंगे।” तिलक सभी पुराने रिवाजोंका पालन नहीं करते थे। पंक्ति-भेदके बारेमें आज जिस स्वतंत्रताका अुपयोग किया जाता है, वे भी असका वैसा ही अुपयोग करते थे। उनका जीवन अत्यन्त सादा और निष्पाप था, और फिर भी असमें धार्मिकताका आडंबर बिलकुल न था। समाज और धर्मके अधिकारको स्वीकार करनेके विचारसे अन्होंने विलायतसे लौटनेपर प्रायश्चित्त भी किया था; हालाँकि विलायतमें अन्होंने खाने-पीनेमें संपूर्ण शुद्धिका पालन किया था। अन्होंने राजनीतिक जलसोंमें मुसलमानों और आसियोंके साथ बैठकर भोजन किया था। अन्होंने यह घोषित कर दिया था कि शास्त्रोंमें कहीं यह आज्ञा नहीं मिलती कि अंत्यजोंको अस्पृश्य समझा जाय। उनके कभी घनिष्ठ मित्र सामाजिक सुधारोंमें अगुआ थे।

सन् १८९६ में बम्बईमें ताअून (प्लेग)का प्रकोप हुआ, और पूनामें भी असने प्रवेश किया। यह अेक अनपेक्षित और बिलकुल नयी आपत्ति थी। सब लोग अससे घबड़ा अुठे। सरकारको भी यह न सूझा कि प्लेगकी रोकके लिअे क्या अिलाज किये जायें; असलिअे 'सेग्रीगेशन' और 'क्वारेण्टाइन' (अलहदा रखना) जैसे कठोर अुपाय बरते गये, और उनका

ठीक-ठीक अमल करवानेके लिये भावना और सभ्यतासे रहित गोरे सिपाहियोंकी नियुक्ति की गयी । प्लेगकी तकलीफकी बनिस्वत अनिसोहरोंकी तलाशीका आतंक लोगोंके लिये अधिक असह्य हो उठा, और सर्वत्र हाहाकार मच गया । जिसे जिधर रास्ता मिला वह अधर भाग निकला । लेकिन तिलकने जैसे वक्रत पूना नहीं छोड़ा । वे शहरमें रहकर एक ओर लोगोंकी मदद करने लगे, और दूसरी ओर अपायके बदले अपाय करनेवाली विवेकशून्य सरकारी सखतीके कारण उत्पन्न होनेवाले जन-क्षोभको 'केसरी' द्वारा व्यक्त करने लगे । तिलकने तो क्षोभ व्यक्तभर किया था, मगर सरकारको लगा कि अन्होंने उसे पैदा किया है । अस लोक-क्षोभकी परिणति प्लेग-अफसर-रैण्ड साहबकी हत्यामें हुयी । सरकारने अपनी प्लेग-नीतिमें परिवर्तन तो जरूर किया, लेकिन अग्र स्वरूप धारण करके लोगोंको दबानेमें भी कोअी कसर न रखी । पूनाके सरदार नातुबन्धुओंको सरकारने नजरबन्द किया, और 'केसरी' पर राजद्रोहका मुकदमा दायर किया । कुछ मित्रोंने तिलकको माफ़ी माँगनेकी सलाह दी, लेकिन अन्होंने कहा — “ जो काम मैंने सच्ची नीयतसे किया है, उसके लिये मैं माफ़ी क्यों माँगूँ ? जिस तरह मल्लाहका काम करनेवाला किसी दिन समुद्रमें डूब भी सकता है, अुसी तरह देशसेवा करनेवालेके लिये जेल-यात्राकी नौबत भी आ सकती है । ये तो हमारे व्यवसायके खतरे हैं । माफ़ी माँगकर मैं देशकी कुछ भी सेवा न कर सकूँगा । दूसरे, यदि अुसके कारण मेरा सत्त्व नष्ट हो गया, तो फिर मुझमें रह क्या जायगा ? ” सरकारने अन्हें डेढ़ सालकी सज़ा दी; यही नहीं, बल्कि असल क्रानूनमें भी तब्दीली करके राजद्रोहवाली धाराको अधिक कड़ा बना दिया । कहा जाता है कि जब तिलक जेल गये, तो पहले ही दिन अन्हें अितना सख्त काम दिया गया कि चक्की पीसते-पीसते वे बेहोश हो गये । लेकिन होशमें आते ही वे फिर काममें जुट गये ।

अुन्होंने छुट्टी नहीं माँगी । छुट्टी माँगना अुन्हें बहुत अपमानजनक मालूम होता था । जब अेक सालके बाद वे जेलसे छूटे, तो अुनके शरीरका वज़न बहुत ही घट गया था; किन्तु जनतामें अुनका वज़न अुतना ही बढ़ गया था । वापस आनेपर अुन्होंने फिर 'केसरी' को हाथमें लिया, और 'पुनश्च हरि : ॐ' कहकर लिखने लगे ।

तिलकके कारावासके दिनोंमें पश्चिमके संस्कृत-पंडित मैक्समुल्लरके हाथमें अुनकी लिखी 'ओरायन्' अथवा 'मृगशिरस्' नामकी किताब पड़ी । 'ओरायन्' में ज्योतिषशास्त्रकी दृष्टिसे वैदिक काल-निर्णयकी चर्चा थी । अिस किताबको देखकर मैक्समुल्लर दंग रह गये, मुग्ध हुअे, और अुन्हें लगा कि अिस तरहकी अगाध विद्वत्ता रखनेवाले विद्वान्के पास ऋग्वेदका अपना अनुवाद सम्मतिके लिये भेजना चाहिये । लेकिन अुन्हें पता चला कि ग्रन्थकर्ता तो जेलमें है । अिसलिये अुन्होंने सरकारकी मारफ़त पहले यह प्रबन्ध करवाया कि तिलकको जेलमें किताबें दी जायँ, पढ़नेके लिये समय दिया जाय और बत्ती दी जाय । फिर अुनकी मध्यस्थताके कारण सरकारको नियत अवधिसे छह महीने पहले तिलकको छोड़ देना पड़ा । जेलमें वेदोंका निरीक्षण करते हुअे अुन्हें सूझा कि आर्योंका मूल निवासस्थान अुत्तर ध्रुवकी ओर होना चाहिये । अुनका यह खयाल हुआ कि वेदोंमें अिस आशयका अुन्लेख मिलता है कि आर्य लोग सुमेरुके आसपास रहते थे । जेलसे छूटनेके बाद, जब ताअी महाराजके मुक़दमे-जैसा सिर खानेवाला मुक़दमा चल रहा था, अुसी अरसेमें 'आर्कटिक होम अिन दि वेदाज़' यानी 'वेदकालमें आर्योंका सुमेरुकी ओरका निवासस्थान' नामका विद्वत्ता और शोध-खोजसे भरा हुआ ग्रंथ अुन्होंने प्रकाशित किया । अिस ग्रंथके कारण अुनकी कीर्ति यूरोपके विद्वानोंकी मंडलीमें फैल गयी । 'आर्कटिक होम' ग्रंथ लिखते समय अुन्होंने

पारसियोंके धर्मग्रंथोंका अध्ययन किया । फिर अीरान, मेसोपोटेमिया, खाल्डिया, सीरिया, असीरिया आदि देशोंके प्राचीन इतिहास और उनकी संस्कृतिकी ओर उनका ध्यान गया । और, उन्होंने अपने कभी विद्वन्मान्य निबन्धोंमें यह दिखा दिया कि वैदिक संस्कृतिके साथ अिनका कितना साम्य है । कभी लोग उनकी विद्वत्ता देखकर उनसे अनुरोध करते — “ आप अिन राजनीतिक झमेलोंको छोड़ दीजिये, और अपनी विद्वत्तासे दुनियाकी जो बड़ी-से-बड़ी सेवा आप कर सकते हैं, कीजिये ! ” अिसके उत्तरमें वे कहते — “ मुझे अिस तरह स्वच्छन्द (मनमानी) नहीं करना है । देशके लिये लड़ना ही मेरा कर्तव्य है । विद्वत्ताका काम करनेवाले पंडित तो हिन्दुस्तानमें कभी पैदा होंगे; आर्यबुद्धि बंध्या नहीं हुअी है । ” उनके अेक मित्रने उनसे पूछा — “ स्वराज्य मिलनेपर आप किस विभागके मंत्री बनेंगे ? ” उन्होंने कहा — “ मुझे राजनीतिमें कोअी दिलचस्पी नहीं । स्वराज्य मिलनेपर मैं तो गणितका अध्यापक बन जाऊँगा, और निश्चिन्तताके साथ विद्यानंदका सुख लूटता रहूँगा । ”

जबतक अपने देश-बन्धुओंको भरपेट खानेको नहीं मिलता, तबतक विद्यानन्द-जैसा सात्विक आनन्द भी उन्हें हराम मालूम होता था । वे हमेशा कहते — “ स्वराज्यका आन्दोलन तो रोटीका आन्दोलन है । ” अिसलिये जब सरकारने खेतीके लगानके कानूनमें परिवर्तन करके अनादिकालसे चलते आये ज़मीनके वंशपरंपरागत स्वामित्वका अधिकार भूमिके बालकोंसे छीन लिया, सात समुद्र पारसे आयी हुअी सरकारको हिन्दुस्तानकी भूमिका स्वामी करार दे दिया, और हिन्दुस्तानी किसानको सिर्फ अपना भाड़ेका नौकर बना दिया, तो तिलकने सरकारको भूमिकर न देनेका आन्दोलन चलानेका विचार किया था, लेकिन उस वक़्त जनता अुतनी तैयार नहीं हुअी थी ।

अिसी अरसेमें बम्बडी और पूनामें हिन्दू-मुसलमानोंमें किसी कारणसे झगडा हुआ, और बहुत मार-पीट हुडी । पूनाके हिन्दू बरसोंसे मुहर्रममें शरीक होते थे । अब अुन्होंने शरीक होना बन्द कर दिया । तिलकने स्वीकार किया था कि अिस दंगेमें दोनोंकी गलती थी; मगर अुन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि ज्यादा क्रसूर मुसलमानोंका ही था । अिसलिअे कुछ मुसलमानोंके दिलमें यह वहम पैदा हुआ कि तिलक मुस्लिम जमातके खिलाफ हैं । लेकिन चूँकि वह गलत था, अिसलिअे कुछ समयके बाद निकल भी गया । खिलाफत डेप्युटेशनवाले सैयद हुसैन साहबने ज़ाहिरा तौरपर यह बात स्वीकार की है कि 'हमारी यह धारणा गलत थी कि तिलक मुसलमानोंके खिलाफ हैं' । क्योंकि लखनअूकी कांग्रेसमें हिन्दुओं और मुसलमानोंके बीच कोअी विरोध और संशय न रखनेके लिअे जो अधिकार-विभाजन किया गया था, अुसमें मुसलमान जो कुछ माँगते थे वह सब अुन्हें दे देनेकी सलाह स्वयं तिलकने दूसरे नेताओंको दी थी । अुस समयका अुनका अेक मशहूर वाक्य यह है — "पहले देशका विचार होना चाहिये । मैं हिन्दू हूँ या मुसलमान, यह भेद देशके हितका विचार करते समय मनमें नहीं आना चाहिये ।" यह देखकर कि पूनाके हिन्दू-मुसलमानोंमें जो मनमुटाव पैदा हुआ, वह धर्मकी संकुचित कल्पना रखनेके कारण हुआ था, और अिस खयालसे कि हिन्दुओंको भी मुहर्रमके बदले अुत्सव मनानेका कोअी साधन मिल जाय, अुन्होंने गणेश-अुत्सव शुरू किया । गणेश-अुत्सवमें स्वयंसेवकों और दूसरे युवकोंके दल भजन गाते हैं; विद्वान् नेता धार्मिक, सामाजिक और कभी-कभी राजनीतिक विषयकी चर्चा करते हैं । अिस तरह लोगोंको समया-नुकूल शिक्षा मिलती है ।

जिस तरह गणेश-अुत्सवसे धार्मिक जाग्रति हुडी, अुसी तरह गणेश-अुत्सवसे पहले ही देशाभिमान और स्वाभिमानको

जाप्रत करनेके लिये तिलकने जो शिवाजी-अुत्सव शुरू किया था, उससे भी बहुत कुछ जन-जाप्रति हुयी। अिन दोनों आन्दोलनोंके कारण महाराष्ट्रमें स्वदेशीका प्रचार बहुत हुआ, और शिक्षित तथा अशिक्षितके बीचका भेद कम होता गया। शिवाजी-अुत्सवके कारण ही पुराने अितिहासकी जाँच-पड़ताल करनेकी वृत्ति बढ़ी, और कुछ चुने हुअे विद्वानोंका 'भारत-अितिहास-संशोधक-सण्डल' बना।

सन् १९०४में युनिवर्सिटी अेक्ट पास हुआ, और सरकारने शिक्षा-विभागको — अुच्च शिक्षाको भी — अपने अंकुशके नीचे और भी दबा दिया। सन् १९०५में बंग-भंग हुआ। बंगालियोंने अर्जियों, सभाओं आदिके रूपमें जो कुछ किया जा सकता था, सो सब किया; और अन्तमें स्वदेशी तथा बहिष्कारका महागष्ट्रीय आन्दोलन शुरू किया। स्वाभाविकरूपसे बंगाली लोगोंको पहली सहानुभूति महाराष्ट्रकी तरफसे मिली। सरकार तो यही समझती है कि अत्याचार का अुपदेश भी बंगालको पूनाकी ओरसे मिला है। यह राष्ट्रीय मूलमंत्र सब जगह फैल गया कि स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा, अिन तीन अुपायोंसे हमें स्वराज्य हासिल करना है। तिलकने अिसे 'स्वराज्यकी चतुःसूत्री' कहा है।

बंगालके राष्ट्रीय नेता स्वराज्यका अर्थ 'पूर्णस्वाधीनता' और बहिष्कारका अर्थ 'अंग्रेज़ी राष्ट्रके साथ संपूर्ण असहयोग' करते थे। अिसपर बहुतसे नरम नेताओंने यह लगा कि कांग्रेसके लिये अंक बन्धन (creed) रखना चाहिये। तिलकका खयाल था कि अैसा बन्धन अेक तरह सब लोग स्वेच्छासे मानते ही आये हैं, अिसलिये सौगन्धके साथ हस्ताक्षर करके अुसे स्वीकार करनेमें अेक प्रकारकी मानहानि होगी, और देशके सभी पक्षोंको कांग्रेसमें आने देनेसे असुविधा होगी। अिसलिये अुन्होंने अुसे पसन्द न किया। सूरतमें कांग्रेसके अन्दर फूट पड़ गयी।

बंग-भंगके कारण स्वावलंबनका मार्ग अखितयार करनेवाली जनतापरसे अेक तरफ़ कांग्रेसका अंकुश दूर हुआ, और अुसी वक़्त दूसरी तरफ़ सरकारने दंडनीतिका अवलम्बन किया । अिसके फलस्वरूप बंगालमें यूरोपके आसुरी हथियारका, अर्थात् बमका जन्म हुआ । 'देशका दुर्दैव' शीर्षक अपने अेक अग्रलेखमें तिलकने अिसके लिये सरकारकी दुष्ट नीतिको ही ज़िम्मेदार करार दिया । महाराष्ट्रमें बंगालके प्रति सम्पूर्ण सहानुभूति थी, लेकिन तिलककी दूरन्देश नीतिके कारण अत्याचारकी प्रवृत्तिपर रोक लगी हुअी थी । अिसी अरसेमें स्वदेशी और बहिष्कारके आन्दोलनके साथ-साथ मय-निषेधके आन्दोलनको ज़ोर देकर अुन्होंने जनताके जीवनको विशुद्ध बनानेका प्रयत्न किया । सरकारको यह भी अच्छा न लगा । शराबकी दुकानोंके सामने खड़े होकर लोगोंको समझानेवाले समाज-सेवकोंको सरकारने दबा दिया । तिलकने बंबअीके मिल-मज़दूरोंमें भी शराब-बन्दीका आन्दोलन चलाया, जिससे बहुत ही जन-जाग्रति हुअी । लोकमान्य मिल-मज़दूरोंसे कहते — "आप लोग अज्ञान और व्यसनोंमें किस लिये सड़ रहे हैं ? अगर आप अपने जीवनमें सुधार कर लेंगे, तो समझिये कि बम्बअी आपकी ही होगी, क्योंकि यहाँ आपकी तादाद तीन लाख है । आप अपने जीवनमें सुधार कीजिये, अपने बीच अेकता स्थापित कीजिये, और वर्त्तमान स्थितिको समझ लीजिये ।" यह शुद्ध सात्विक आन्दोलन भी सरकारको भारी पड़ गया । तिलकके कारण महाराष्ट्रमें अत्याचार या आतंकवादके आगमनमें बाधा पड़ी थी; लेकिन सरकारने अिसे भी अुलटा ही महसूस किया । देशके और सरकारके दुर्भाग्यसे तिलकके 'देशका दुर्दैव' नामक लेखमें सरकारको राजद्रोह दिखाअी दिया । "जिस देशसे प्रेम करनेका आप दावा करते हैं, अुस देशसे आपको छह सालके लिये बाहर रखनेमें ही देशका भला है," यह कहकर हाअीकोटने तिलकको देशनिकालेकी

सज़ा दी । “ व्यक्तियों और राष्ट्रोंका भाग्य इस न्याय-मन्दिरकी अपेक्षा अधिक उच्च व्यक्तियों और शक्तियोंके हाथमें रहता है; और शायद जगन्नियन्ताकी यह अच्छा है कि जिस सिद्धान्तके लिये मैं लड़ रहा हूँ, उसका उत्कर्ष मेरे मुक्त रहनेकी अपेक्षा मेरे कारावाससे ही हो । ” अिन शब्दोंके साथ उस महात्माने उसे दी गयी सज़ा स्वीकार की । लोकमान्यकी इस तपश्चर्यासे स्वराज्यका मंत्र प्रत्येक भारतवासीके हृदयमें प्रस्फुरित होने लगा । छह सालकी इस तपश्चर्याका दूसरा फल ‘ गीता-रहस्य ’-जैसे साहित्य-रत्नके रूपमें प्रकट हुआ ।

तिलकको सज़ा देकर सरकार जो परिणाम पैदा करना चाहती थी, उससे अलटा ही परिणाम हुआ । तिलककी प्रेरणा और अंकुशके दूर होते ही महाराष्ट्रके युवक निरंकुश बन गये, और जो अत्याचार तिलकके बाहर रहनेसे रुका हुआ था, और तिलकको सज़ा करके जिसे सरकार रोकना चाहती थी, वही अत्याचार महाराष्ट्रमें फूट निकला । नाशिकमें षड्यंत्र हुआ । कलेक्टर जैक्सनकी हत्या हुई, और अनर्थपरंपराका प्रवाह बहने लगा ।

क़रीब-क़रीब पूरे छह साल बाद अुम्रके लिहाज़से बूढ़े, क्षीणकाय, किन्तु अुत्साहमें नवयुवक लोकमान्य कर्मयोगका सन्देश लेकर वापस आये । यह सन्देश हिन्दुस्तानकी लगभग सभी भाषाओंमें फैल गया । कर्मयोगके आचार्यने ‘ स्वराज्य-संघ ’की स्थापना की, और देशमें स्वराज्यका आन्दोलन शुरू हुआ । राष्ट्र-मदसे अन्धे बने यूरोपियन राष्ट्रोंमें युद्ध शुरू हुआ, और साम्राज्य-सरकारको डर लगा कि अैन मौक़ेपर हिन्दुस्तान वफ़ादार रहेगा या नहीं । उस वक़्त तिलकने यह घांषणा करके कि ‘ इस समय ब्रिटिश-साम्राज्यके साथ रहनेमें हिन्दुस्तानका हित है ’, ब्रिटिश-साम्राज्यकी बहुत भारी सेवा की । अितनेपर भी शक़की सरकारको तिलकके भाषणमें राजद्रोह ही दिखायी दिया । अेक बार

फिर सरकारने तिलकपर नांटिस तामील किया, लेकिन अिस वार हाथीकोर्टको तिलकके निर्दोष होनेमें विश्वास हुआ, और वे बरी कर दिये गये ।

अिसके बादका अितिहास विलकुल ताज्ञा है । फ्रौजके लिअे रंगरूट भरती करनेके अुनके प्रयत्न, पंजाब और दिल्लीकी तरफ न जानेकी अुनपर लगायी गयी पाबन्दी, माण्टेग्यूसे मुलाक़ात, विलायत जानेकी मुमानियत — लेकिन बादमें मिली अिजाज़त — विलायतमें किया हुआ काम, आदि बातें तो अभी पिछले साल जितनी ताज्ञा हैं । तिलककी सारी ज़िन्दगी लड़नेमें ही बीती । जैसा कि अेरु पत्रकारने कहा है — ‘मृत्युने ही पहली वार अुन्हें शान्ति प्रदान की’ । अुनका निजी जीवन सादा और शुद्ध था । अुनकी राजनीतिक प्रवृत्ति जोशीली और लड़ाकू थी । लड़ाओके मैदानमें अुतरनेके बाद वे किसीसे दयाकी याचना न करते थे, न स्वयं किसीपर दया करते थे । फिर भी अुनके मनमें द्वेष नहीं टिकता था । अुन्होंने आगरकरजीका कसकर विरोध किया; लेकिन अुनके अन्त समयमें अुनकी सेवा करनेके लिअे वे स्वयं अुपस्थित रहे । वे प्रहार तो अपने विद्यागुरु भाण्डारकरजीपर भी करते थे, लेकिन साथ ही अुनकी क्रूर करके अुनके प्रति शिष्यभावका पालन भी करते थे । गोखलेजीके साथ अुनकी कभी न बनी, लेकिन सन् १९०४-५में गोखलेजीने विलायतमें हिन्दुस्तानकी जो सेवाकी, अुसकी क्रूर करनेके लिअे पूना शहरकी तरफसे अुनका सार्वजनिक अभिनन्दन करनेमें स्वयं तिलक ही अग्रसर थे । आज यह देखनेका अवसर नहीं कि तिलकके राजनीतिक मत क्या थे । भारतीय जगत् अुनके मतोंसे भलीभाँति परिचित है । अगर कोअी अुन्हें न जानता हो, तो वह तिलकका दोष नहीं । अपने मतका प्रचार करनेकी तिलककी शक्ति और कला राचमुच अलौकिक थी । दुनियाको अुनकी विद्वत्ताका साक्षात्कार हुआ है । लेकिन भारतीय जनता के मोक्षके लिए अुन्होंने अपनी

सारी विद्वत्ता जन्मभूमिके चरणोंमें समर्पित कर दी थी । 'स्वराज्य' अुनके जीवनका आधार-स्तंभ था । वे बुद्धिसे ब्राह्मण और वृत्तिसे कषत्रिय थे । वे भारतीय जाग्रतिके जनक, आधुनिक महाराष्ट्रके पंचप्राण, राष्ट्रीय पक्षके अध्वर्यु, स्वराज्य-मंत्रके ऋषि, नौकरशाहीके शत्रु और हिन्द-देवीके अनन्य अुपासक थे । जब हम हिन्दुस्तानी लोग अुनके जीवनसे स्वदेश-सेवाकी दीक्षा लेकर स्वराज्यके अधिकारी बनेंगे, तभी अुनकी पराक्रमी आत्माको शान्ति मिलेगी, और तभी अुनका जीवन सफल होगा । स्वप्रयत्नसे मनुष्य जितना जीवन-साफल्य प्राप्त कर सकता है, अुतना अुन्होंने पूर्णरूपसे प्राप्त कर लिया था ।

८-८-'२०

तिलक-पुण्यतिथि

पहली अगस्त

१ दिन

अिस दिन विद्यार्थियोंको तिलककी जीवनी सुनायी जाय । अुन्हें यह भी समझाया जाय कि जनताको नौकरशाहीके स्वरूपका ज्ञान करानेमें अपना सारा जीवन लगाकर अुन्होंने राष्ट्रीय आचार्यका स्थान प्राप्त कर लिया था । 'स्वराज्य लोगोंका जन्मसिद्ध हक है, और अुने प्राप्त करनेके लिये प्रत्येकको अीश्वर-निष्ठापूर्वक निष्काम कर्म करना चाहिये', अिस तिलक-गीता-रहस्य पर विशेष जोर दिया जाय । 'गीता-रहस्य' की अच्छी-अच्छी कण्डिकायें (पैराग्राफ) पढ़ी जायँ ।

आजके दिन कभी विद्यार्थी लोकमान्यके स्मरणके साथ यह प्रतिज्ञा ले सकते हैं कि जबतक स्वराज्य नहीं मिलता, तबतक वे सरकारी नौकरी नहीं करेंगे ।

त्यागी देशबन्धु

(१६ जून)

कालिदासका भेक वचन है कि, “देवोंको अपना अमृत पिलाकर कषीण बना हुआ कृष्णपक्षका चन्द्रमा शुक्लपक्षके चन्द्रकी अपेक्षा अधिक सुन्दर दिखायी देता है।” देशबन्धु चित्तरंजनदास इस सुन्दरतातक पहुँचे थे। विद्यार्थीजीवन पूरा करके जब अन्होंने अपना व्यवसाय शुरू किया, तब अुनपर अुनके पिताजीके समयका बहुत ज्यादा ऋर्जा था। अथक परिश्रम करके अुन्होंने वह सारा ऋर्ज चुका दिया। इस ऋर्जके कारण अुन्हें बहुत तकलीफें अुठानी पड़ी थीं। सार्वजनिक कामोंमें वे शरीक न हो सकते थे। ऋणमुक्त होनेके बाद शुक्लपक्षके चन्द्रकी तरह अुनकी समृद्धि बढ़ी। हमेशा दान करते रहनेपर भी अुनकी आमदनी तो बढ़ती ही गयी। जिस दिन अुन्होंने अपना आलीशान मकान बनवाकर पूरा किया, अुस दिन अुन्हें कितना आनन्द हुआ होगा ?

परन्तु देशबन्धुकी देशभक्ति ऐसी नहीं थी, जो केवल दान करके ही तृप्त हो जाय। अुनपर त्याग-धर्मका रंग चढ़ चुका था। अुन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी, स्वयं गरीब बने, और गरीबोंकी सेवा करनेकी दीक्षा ली। अदालतने अुनका घर कुर्क करनेका फैसला किया। देशबन्धु पैसा कमानेकी बात सोचते, तो भेक कषणके अन्दर वे अपनी सारी मिल्कियत बचा सकते थे। लेकिन अुनपर त्याग-धर्मकी धुन सवार थी। घर बनाते समय अुन्हें जो आनन्द हुआ था, अुससे भी अधिक आनन्द अुस घरको हाथसे जाने देते समय अुन्हें हुआ होगा।

यदि ऐसे पुण्य पुरुषोंके त्यागसे भारतीय समाजकी आत्म-शुद्धि न हुअी, तो क्या उससे कोअी आशा रखी जा सकती है ?

प्राचीन कालसे शिबि और हरिश्चन्द्र जैसे त्यागशूरोंने जो परम्परा चलायी, वह आज भी हिन्दुस्तानमें मौजूद है । लेकिन उसके साथ ही यदि हमने दानपर परिपुष्ट होनेकी, और निरे स्वार्थी या पामर मनुष्यको ही शोभा देनेवाले मोहके लिअे मलिन जीवन बितानेकी परम्परा भी जारी रखी, तो हमपर अीश्वरकी दया न रह जायगी, और हम उसके महान् कोपको भी जाग्रत करेंगे ।

देशबन्धुका देहान्त होते ही महात्माजीने अुनके स्मारकके लिअे लाखों रुपये अिकट्टा करके देशबन्धुका वह भव्य प्रासाद छुड़ा लिया, और अुसमें अुन्हींके नामसे स्त्रियोंके लिअे अेक बड़ा अस्पताल खोल दिया ।

स्वराज्यका आन्दोलन चलानेके तरीक्रेके बारेमें गांधीजीके साथ मतभेद हो जानेपर देशबन्धुने पंडित मोतीलाल नेहरूकी मददसे स्वराज्य पक्षके नामसे अपना अेक अलग दल क्रायम किया था । लेकिन दोनोंके अन्तःकरण बहुत विशाल थे । अिस-लिअे मतभेद दूर होते ही अुन्होंने बड़े प्रेमके साथ गांधीजीसे मेल कर लिया । अिसमें कोअी शक नहीं कि गांधीजीने तो शुरूसे ही अुनके साथ बड़े प्रेम और आदरका बरताव रखा था ।

अखीर-अखीरमें देशबन्धु और गांधीजीके बीच कुछ भी मतभेद नहीं रहा था । अुन्होंने गांधीजीके सारे कार्यक्रमको अपने कार्यक्रमके तौरपर स्वीकार कर लिया था ।

देशबन्धु-पुण्यतिथि

१६ जून

१ समय

देशबन्धु यानी बंगालकी खानदानियत और बंगालका हृदय !
अुनका जीवन अैसा था, मानो अुन्होंने विश्वजित् यज्ञ ही किया
हो ! देशभक्तोंकी सेवा और भक्ति करना अुनके जीवनका प्रधान
सुर था । देशबन्धुकी जीवनीसे विद्यार्थियोंको यह सीख दी जाय ।
ग्राम-संगठन और स्त्रियोंके अुद्धारके विषयमें अिस दिन विवेचन
किया जाय । अुनके रचे हुअे कुछ भजन गाये जायँ, और अुनका
' सागर संगीत ' काव्य पढ़ा जाय ।

स्वराज्य-महाव्रत

[अप्रैल ६से १३]

व्रत हो या त्योहार, अुसके पीछे कोअी-न-कोअी महान्
सामाजिक या आध्यात्मिक तत्त्व होता ही है । चैत्रकी प्रतिपदाके
दिन दक्षिण हिन्दुस्तानमें बड़ा अुत्सव मनाया जाता है, क्योंकि
अुस दिन श्रीरामचन्द्रजीने बालिको हराकर दक्षिण भारतको स्वाधीनता
और निर्भयता प्रदान की थी । अुसी दिन प्रजा-अुद्धारकर्ता शालिवाहनने
विदेशी हूण और शक लोगोंके आतंकसे प्रजाको मुक्त किया था ।
और वह भी किस तरह ? मिट्टीके पुतलोंमें संजीवनी डालकर और
अुन्हें शूर सिपाही बनाकर !

आजका हमारा स्वराज्य-सप्ताह अिसी तरहके अेक महाव्रतका
दिन है । स्वराज्यकी प्रस्थापना होनेके बाद यह अुत्सवका दिन
बनेगा । अिसके पीछे कअी तारक तत्त्व हैं । अिस सप्ताहमें मिट्टीके
पुतलों-जैसी जनतामें सत्याग्रहकी वह संजीवनी डाली गयी, जिससे
पेटके बल रेंगनेवाला राष्ट्र अुठ खड़ा हुआ । अिसी सप्ताहकी

प्रेरणाके बलपर बरसोंसे आपसमें लड़कर अेक-दूसरेकी जानके गाहक बने हुअे हिन्दू-मुसलमान अेक हुअे, और अिसी अेकताके कारण अैसा प्रतीत होने लगा, मानो अितने दिनों तक असंभव-सा मालूम होनेवाला स्वराज्य अचानक प्रकट हो गया हो । निराशामें ही पले और बड़े हुअे लोगोंको तो थही लग रहा है कि अितनी जल्दी स्वराज्यके आगमनकी संभावना हो ही कैसे सकती है ? लेकिन स्वराज्यका आगमन अितना अधिक प्रत्यक्ष है कि अुसे माननेकी तैयारी हो या न हो, अुसे माने बिना छुटकारा नहीं ।

जो लोग अबतक 'असंभव, असंभव' कहते थे, वे आज कहने लगे हैं कि 'यह सारा अिन्द्रजाल क्या है' ? लेकिन अिसमें अिन्द्रजालकी क्या बात ? फ़ी घंटा चालीस मीलकी रफ़्तारसे दौड़नेवाली रेलगाड़ीको अगर हवाके दबावसे अेकदम रोका जा सकता है, तो असहयोगके द्वारा अेक अुन्मत्त सल्तनतको ठिकाने लानेमें अिन्द्रजाल क्या है ?

अपने पैरों चलकर आनेवाले अिस स्वराज्यका स्वागत हम कैसे करें ? हमें अिस बातकी जाँच करनी चाहिये कि हमारा हृदय-मंदिर स्वराज्य-देवीके बैठने योग्य शुद्ध और पवित्र है या नहीं ? अिसीलिअे अिस सप्ताहको हम 'आत्मशुद्धिका सप्ताह' कहते हैं ।

अिस सप्ताहमें हम सब तरहके व्यसनोका त्याग करनेका निश्चय करें । स्वराज्य-फण्डमें यथाशक्ति द्रव्य दें । यह कोअी दान नहीं । यह स्वराज्यके लिअे स्वेच्छासे दिया जानेवाला टैक्स है । स्वराज्यका अर्थ है, जुल्म और ज़बर्दस्तीका अभाव । अतः प्रत्येक व्यक्ति अपनी श्रद्धाके अनुसार अधिक-से-अधिक कर दे । सत्ताका अुपयोग किये बिना राष्ट्रीय महासभा (काँग्रेस) हिन्दुस्तान पर राज करती है । रामराज्यमें अिससे अधिक और क्या होगा ?

आज हम अपने हृदयस्थ परमेश्वरकी प्रार्थना करें — “ हे हृदयस्थ देव ! हे जनतारूपी जनार्दन ! तुम हमें स्वराज्यके सच्चे अुपासक बनाओ । स्वराज्य-विषयक अपनी श्रद्धाके विचलित होनेसे पहले ही इस शरीरसे हमारे प्राण निकल जायँ ! हमने आजतक बहुत दुःख अुठाया है; अतः हममें किसीको भी दुःख देनेकी बुद्धि अुत्पन्न न हो ! हम आजतक पराधीनतामें सड़ते आये हैं, इसलिये किसीकी स्वाधीनताका अपहरण करनेकी वृत्ति या शक्ति हममें न आये ! हम साम्राज्यके अमर्याद मदके शिकार बने हैं; अतः हमारे हृदयमें अैहिक साम्राज्य प्रस्थापित करनेकी लालसा कभी अुत्पन्न न हो ! साम्राज्य तो अेक तुम्हारा ही सर्वत्र प्रस्थापित हो जाय ! और, अैसी तपश्चर्यासे पुनीत बना हुआ यह राष्ट्रीय सप्ताह कभी कलुषित न हो । सत्य, अहिंसा और संयमके अुत्सवके रूपमें यह सप्ताह दुनियामें अनन्त कालतक स्थायी बने ! ”

१२-४-२१

राष्ट्रीय सप्ताह

६ अप्रैलसे १३ अप्रैल

८ दिन

राष्ट्रीय अेकताके इस पर्व के दिन सभी हृदयोंको सूतके धागेसे अेकत्र बाँधना ही इस सप्ताहका अेकमात्र कार्यक्रम हो सकता है । इस वक्रत विद्यार्थियोंको अच्छी तरह समझा दिया जाय कि हरअेक भारतवासीके सिरपर समान संकट मँडरा रहा है । इस सप्ताहमें जितना हो सके अुतना सूत काता जाय ।

अमृतसरसे लेकर आजतकका कांग्रेसका अितिहास पढ़ा जाय या अुसका विवेचन किया जाय ।

छोटे त्योहार

(अनमेंसे प्रत्येक त्योहारको वर्गमें अेक-अेक घण्टा दिया जा सकता है।)

दादाभायी नौरोजी

३० जून

राष्ट्रीय महासभाके अितिहासमें दादाभायीका नाम हिन्दके दादाके नाते अमर बन चुका है। 'हिन्दुस्तानका खास रोग अुसकी बढ़ती हुअी दरिद्रता है, अुसका कारण अंग्रेजोंका राज है, और अुसका अिलाज स्वराज्य है,' यह सब सप्रमाण साबित करके दादाभायीने देशको जाग्रत किया। कांग्रेसके अध्यक्ष-पदसे यह कहकर कि 'अक्सर जी चाहता है कि विप्लव मचा दिया जाय,' अुन्होंने अिस बातका सूचन किया कि देशकी दुर्दशाको दूर करनेका अुपाय कितनी जल्दी किया जाना चाहिये। अिस तरह मानों अुन्होंने स्वदेशी और असहयोगकी नींव डाली। अिसीलिअे 'दादा जयन्ती' मनानी चाहिये। दादाभायीका सारा जीवन सादा, निर्मल और असाधारण अुद्यमी जीवन था। छात्रोंको अिस बारेमें भी बहुत-कुछ कहा जा सकता है।

गोखलेजीको श्रद्धांजलि *

(१९ फरवरी)

आजका दिन श्राद्धका दिन है। श्राद्धके मानी हैं, श्रद्धा द्वारा भूतकालको जीवित रखनेका अेक अद्भुत अुपाय। गोखलेजीको अिस लोकसे गये आज सात साल हो चुके हैं, फिर भी अभी

* सन् १९२२ की गोखले-पुण्यतिथिके अुपलक्ष्यमें बम्बयीके भगिनी-समाजमें अर्पित श्रद्धांजलि।

हम अतिसे प्रेरणा लेते हैं, स्फूर्ति लेते हैं, अखंड सेवाकी दीक्षा लेते हैं, और अिस तरह अुन्हें हम अपनेमें जीवित रखते हैं । सन् १९१५ के फरवरी महीनेकी १९वीं तारीखतक वे अपने चैतन्यसे जीते थे; आज वे हम सबके चैतन्यसे जी सकते हैं । हममें जितना चैतन्य होगा, अुतने ही वे जियेंगे । गोखलेजीके जीवनने हममें जो जीवन डाला, वह हममें जीवित रहा, तो गोखलेजी और भी जियेंगे । वह जीवन हममें बढ़ेगा, तो गोखलेजी चढ़ेंगे; और जब वह जीवन हममेंसे समूल नष्ट हो जायगा, तभी गोखलेजी मर जायेंगे । आज हम यहाँ अिकट्टे होकर गोखलेजीका श्राद्ध कर रहे हैं । अिसके द्वारा हम कह रहे हैं कि भारत-सेवक गोखलेजी चिरंजीवी हों ।

किसी भी मनुष्यका जीवन देखिये, अुसमें परिवर्तन होते ही रहते हैं । जीवन ही परिवर्तन है । जीवन ही प्रगति है । प्रतिवर्ष, प्रतिदिन और प्रतिकक्षण मनुष्यका अनुभव बढ़ता जाता है, मनुष्यकी दृष्टि विशाल होती है, और मनुष्यका जीवन विकसित होता जाता है । विद्यार्थी गोखलेकी अपेक्षा अध्यापक गोखले आगे बढ़े; अर्थशास्त्री गोखलेकी अपेक्षा माननीय गोखले अधिक श्रेष्ठ सिद्ध हुअे; माननीय गोखलेकी अपेक्षा राष्ट्र-नायक गोखले अधिक श्रेष्ठ ठहरे । अिस तरह गोखलेजीकी श्रेष्ठता दिन-प्रति-दिन बढ़ती ही गयी । साधारण लोग समझते हैं कि मनुष्य मृत्युतक ही बढ़ता है, लेकिन यह गलत है । जीवित गोखलेजीकी अपेक्षा राष्ट्रके हृदयमें बसनेवाले आजके गोखलेजी कभी गुना श्रेष्ठ हैं । जीवित गोखले रोञ्च सोते थे, काम करके थक जाते थे, अूब जाते थे, कभी खीझ भी अुठते थे । लेकिन आजके गोखले — हृदयस्थ गोखले — आदर्श हैं, आजकी अुनकी देशसेवा अमर्याद और अखंड है, वह दिन-दिन अूपर चढ़ती जायगी और विशुद्ध होती जायगी ।

यह शक्ति किसकी है? यह शक्ति श्राद्धकी है। श्राद्धका मतलब स्मृति नहीं, श्राद्धका अर्थ अतिहासका अध्ययन नहीं, बल्कि श्राद्ध अमृतसंजीवनी है। स्मृति दुःखरूप होती है, और दुःखकी तरह वह अल्पजीवी भी होती है। जिस तरह दुःखका भी अन्त होता है, उस तरह स्मृति भी मिटती जाती है। जिस तरह दुःख हमें दुर्बल बनाता है, उसी तरह स्मृति भी हमें करुणा-पेलव कर डालती है। अतिहासका भी यही हाल है। अतिहास न चलता है, न बढ़ता है। अतिहासकी स्थिरता मारक होती है। अतिहासमें जीवन नहीं होता। अतिहास अेक पुतला है, अेक तसवीर है। छोटी-सी बालिका जब प्रसन्नतापूर्वक हँसती है, तो उसमें कितना अपूर्व चैतन्य, माधुर्य और पावित्र्य होता है! लेकिन उसी हास्यकी तसवीर खींचो, या मूर्त्ति बनाओ और देखो, तो उसकी स्थिरता ही सारे सौन्दर्यको नष्ट कर डालती है। अतिहासका भी यही हाल है! अतिहास सत्यके वर्णनको स्थिर करने जाता है, और उसी प्रयासमें स्वयं असत्यरूप बन जाता है। अतिहास सत्यका प्रेत है। अतिहास व्यक्ति या राष्ट्रके स्वरूपको स्थिर करके अेक तरहसे उसे निर्जीव बना देता है।

श्राद्ध अिससे अलग ही चोच्च है। श्राद्ध मृत व्यक्तिको अमर बनाता है। रामायण और महाभारत अतिहास नहीं, बल्कि श्राद्ध हैं। अिसीलिअे ये राष्ट्रीय ग्रंथ युगोंसे अिस राष्ट्रमें प्राण डालते आये हैं। अतिहासमें यह शक्ति कहाँ? हम वार्षिक श्राद्ध द्वारा पूज्य व्यक्तिको दिन-प्रति-दिन अधिक राष्ट्रीय बनाते हैं। सन् १८६६से १९१५ तक जीनेवाले गोखलेजी कैसे थे, अिसका यथार्थ चित्रण अतिहास भले ही करके रखे, हमें उसकी परवाह नहीं। जो गोखलेजी आज हमारे हृदयमें हैं, अुन्हींके दर्शन हम करें, अुन्हींका स्मरण करें, अुन्हींसे देश-सेवाकी दीवषा ले लें। उस

समयके गोखलेजी हमसे कहते थे — ‘ज्यादा पैसे देकर भी स्वदेशी कपड़े ही पहनो ।’ वे ही गोखलेजी आज हृदयमें प्रवेश करके हमसे कह रहे हैं — ‘पैसेका खयाल ही मत करो, खादी ही पहनो ।’ हृदयस्थ गोखलेजी कहते हैं — ‘मैं अर्थशास्त्रका अध्यापक था, लेकिन आज मैं तुमसे कहता हूँ कि धर्मशास्त्रके आगे अर्थशास्त्र शून्य है । जो धर्मशास्त्रके अधीन रहता है, वही सच्चा अर्थशास्त्र है । खादी पहननेवाले हिन्दुस्तानका कभी आर्थिक अकल्याण होनेवाला नहीं है; क्योंकि खादीमें धर्म है ।’

सरयू नदीके किनारे रहनेवाले रामचन्द्रजीने क्या किया, उनका जीवन कैसा था, आदि बातें हमको मालूम नहीं हो सकतीं, न हमें उनका आवश्यकता ही है । लेकिन वाल्मीकिके प्रतिभा-स्रोतसे जन्मे हुअे और आर्यावर्तके हृदयपर राज्य करनेवाले राजा रामचन्द्रको ही हम जानना चाहते हैं; क्योंकि ऐतिहासिक रामकी अपेक्षा वाल्मीकिके राष्ट्रीय रामने ही भारतवर्षका अधिक कल्याण किया है । शकुंतलाकी भावगम्य छबिको चित्रित करते समय जैसे-जैसे शकुन्तलाका ध्यान बढ़ता जाता था, वैसे-वैसे विरही दुष्यन्त ‘यद्यत्साधु न चित्रे स्यात् क्रियते तत् तदन्वया’ कहकर हेरफेर करता ही जाता था, और फिर भी वह तसवीर तो शकुंतलाकी ही रहती थी । यही बात हम राष्ट्रीय पुरुषोंके श्राद्धमें करते हैं; हम उनका राष्ट्रीय संस्करण तैयार करते हैं ।

ऐसा करनेमें जितना लाभ है, उतना खतरा भी है । पवित्र पुरुषोंकी स्मृति अेक तरहकी विरासत है । उसे हम बढ़ा भी सकते हैं, और बिगाड़ भी सकते हैं । क्रीमती विरासतके साथ हमपर भारी ज़िम्मेदारी भी आ पड़ती है; और इस ज़िम्मेदारीका भान ही हमारे लिअे प्रेरक और तारक होना चाहिये ।

आजके श्राद्धके दिन मुझे गोखलेजीके विषयमें कुछ कहना चाहिये, लेकिन सच कहूँ, तो मैंने ऐतिहासिक दृष्टिसे या

अध्ययनकी दृष्टिसे गोखलेजीके जीवनको न देखा है, न पढ़ा है। गोखलेजीको मैंने बहुत बार देखा भी नहीं। किसी फ़रिश्तेके दर्शनकी तरह मैं अन्हें दो-चार बार ही देख पाया हूँ। उस समयकी स्मृतिको मैंने श्राद्धकी भूमिमें संग्रहीत करके रखा है — नहीं, संग्रहीत नहीं किया, बल्कि बो दिया है। इस बीजको समय-समय पर सिंचन मिला है, जिससे वह अंकुरित होकर अनेक प्रकारसे फला-फूला है।

गोखलेजीका पहला दर्शन-अव्यक्त दर्शन-मुझे फ़ार्ग्युसन कॉलेज, (पूना)की मारफ़त हुआ। जब मैं उस कॉलेजमें गया, तब गोखलेजी वहाँ नहीं थे, लेकिन वहाँका वायुमण्डल गोखलेमय था। सब जगह गोखलेजीकी छाप दिखायी देती थी।

फ़ार्ग्युसन कॉलेज यानी वाद-विवादका कुरुक्षेत्र! पूनामें जितने पक्ष हैं, उतने ही नहीं, बल्कि उससे भी अधिक पक्ष फ़ार्ग्युसन कॉलेजके विद्यार्थी-निवास (होस्टेल)में दिखायी देते हैं। जब मैं पहले-पहल फ़ार्ग्युसन कॉलेजमें गया, तो मेरी हालत वैसी ही थी, जैसी पहली बार शहरमें आनेवाले देहाती विद्यार्थीकी हुआ करती है। छात्रावासमें प्रत्येक पक्षके हिमायती मेरे पास आते, और मुझे अपने मतोंको निश्चित करनेमें 'मदद' करते। पूनामें कोअी भी व्यक्ति पक्षरहित नहीं रह सकता। वहाँका वायुमंडल अैसे आदमीको बरदाश्त ही नहीं कर सकता। फ़ार्ग्युसन कॉलेजके छात्रावासमें मैंने गोखलेजीकी निन्दा और स्तुति दोनों अितनी अधिक मात्रामें सुनी कि किसी निर्णय पर पहुँचना मेरे लिअे असंभव हो गया। मेरे मनमें अितना निश्चय तो अवश्य हुआ कि गोखलेजी चाहे जैसे हों, फिर भी वे अेक जानने लायक व्यक्ति तो ज़रूर हैं। अुनकी निन्दा और स्तुतिने परस्पर-विघातक कार्य किया, अिसलिअे मैं अुनसे अछूता रह गया। मनमें अितनी भावना अवश्य रह गयी थी कि गोखलेजी बड़े देश-सेवक तो हैं, फिर भी अुन्होंने अुन गोरे

सिपाहियोंसे जो माफ़ी माँगी, वह तो उनके लिये कलंकरूप ही है। सबूत न मिलनेसे क्या हुआ? जबतक अपने मनको पूरा यक़ीन है, तबतक हम किसलिये माफ़ी माँगें? मेरा यह मत बहुत बरसोंतक रहा। आज वह वैसा नहीं है; सार्वजनिक जीवनके स्मृतिशास्त्रको अब मैं अधिक अच्छी तरह समझने लगा हूँ।

कांप्रेसकी तरफ़से विलायतमें प्रकाशित होनेवाला 'अिण्डिया' नामका पत्र मैं कॉलेजमें बहुत ध्यानसे पढ़ा करता था। इसलिये गोखलेजी विलायतमें जो भाषण देते, मद्यनिषेधकी जो योजनायें बनाते, और अपने देशके लिये कनाडा जैसा जो 'सेल्फ गवर्नमेण्ट' स्वशासन माँगते, उन सभी बातोंसे मैं परिचित रहता था, और उससे गोखलेजीके प्रति मेरे मनमें धीरे-धीरे श्रद्धा उत्पन्न होती थी। आखिर एक दिन ऐसा आया, जब मैंने सुना कि आज गोखलेजी कॉलेजमें आनेवाले हैं। यह तो अब याद नहीं कि वह कौनसा अवसर था।

गोखलेजीकी प्रसन्न-गंभीर मूर्ति मंचपर खड़ी हुई थी। उनकी भाषा या उनकी आवाज़में शास्त्रोक्त वक्ता की चमत्कृति या चमक नहीं थी, लेकिन उनकी भाषामें संस्कारिता तथा देश-कल्याण और देश-सेवाकी लगन ओतप्रोत थी। उनके स्वरमें अंतःकरणकी अतकटताका गुंजन था। यह स्पष्ट रूपसे दिखायी दे रहा था कि यह हमेशा अुदात्त वायुमंडलमें विहार करनेवाली कोअी विभूति है। और फ़र्ग्युसन कॉलेज तो अुन्हींके हाथों परवरिश पाया हुआ गोकुल था। इसलिये अुनके अुपदेशमें अधिकार और वात्सल्य समान रूपसे भरे हुअे थे। उस दिनका व्याख्यान तो मैं अब भूल गया हूँ, पर व्याख्यानका असर अभी क्रायम है। एक ही बात अभी अच्छी तरह याद है। अुन्होंने कहा था — “आपको मालूम है कि आय-कर लेनेवाले सरकारी कर्मचारी हर साल आपके दरवाज़े आते हैं, और आप लोगोंसे सरकारी कर वसूल करके चले जाते हैं। आज देशके नामपर ऐसा ही एक 'टैक्स-गैदर' (कर अुगाहने-

वाला) मैं आपके दरवाजे आकर खड़ा हूँ। मुझे पाँच फ़ीसदीके हिसाबसे कर चाहिये। लेकिन वह पैसोंका नहीं, नवयुवकोंके श्रद्धावान् जीवनका। मैं चाहता हूँ कि इस महाविद्यालयमें पढ़नेवाले युवक विद्यार्थियोंमेंसे पाँच फ़ीसदी विद्यार्थी देशसेवाके लिये अपना जीवन समर्पित करें। ऐसा होने पर ही मुझे सन्तोष होगा ! ”

कितनी महत्त्वपूर्ण माँग, और फिर भी कितनी कम ! धुस दिन मेरे हृदयमें नया प्रकाश आया, विचारोंको अेक नयी दिशा मिली, और मैं कुछ अंशोंमें द्विज बना।

अिसी अरसेमें गोखलेजी बनारसमें कांग्रेसके अध्यक्ष बने। बनारसकी भोलीभाली जनताने ‘पूनाका राजा’ कहकर उनका स्वागत किया। उस समयका उनका भाषण कुछ अिसा संपूर्ण था कि कभी बार पढ़नेपर भी मुझे सन्तोष न हुआ। अिसके बाद बंग-भंगके खिलाफ़ आन्दोलन बढ़ा। स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वराज्यका चतुर्विध आन्दोलन ज़ोरके साथ जाग अुठा। मैं उसमें बह गया। विपिनचन्द्र पाल और अरविन्द घोषने मेरे हृदय पर क़ब्ज़ा कर लिया, और गोखलेजीकी छाप मिटती गयी। मैं यह भी भूल गया कि मुझमें देश-सेवाकी ज्योति गोखलेजीने ही प्रज्ज्वलित की थी। अिसके बाद सूरतमें गृहयुद्ध हुआ। उस समयके दोनों पक्षोंके अखबार पढ़कर मुझे निराशा हुअी। उन अखबारोंमें अितनी अधिक कषुद्रता दिखाअी देती थी कि अुसे दुर्गन्धकी अुपमा दी जा सकती है। अुसके बाद राजनीति कुछ अजीब ढंगसे बहने लगी। सरकार पागल हो गयी, और हमारे दोनों पक्ष अीर्घ्या, असूया और हिंसासे सराबोर हो गये। अिसका भी मुझपर बहुत असर हुआ। राष्ट्रीय पक्षके तत्त्व मुझे पसन्द थे, अराजक लोगोंका युक्तिवाद मुझे यथार्थ प्रतीत होता था, फिर भी नरमदलके नेताओंके बारेमें जो निन्दाप्रचुर बीभत्स लेख और चित्र अखबारोंमें निकलते थे, उनसे मुझे सखत नफ़रत मालूम होती।

थी। असूयावृत्ति समाजमें अितनी अधिक बढ़ गयी कि गोखलेजीको 'हिन्दूपंच' पत्रके खिलाफ मानहानिकी नालिश दायर करनी पड़ी। मुझे यह बात बिलकुल अच्छी न लगी कि महान् गोखलेजी 'हिन्दूपंच'—जैसे क्युद्र पत्रके खिलाफ मानहानिका मुक्रदमा चलाकर उससे माफ़ी मँगावायें। आज यह बात तो मेरी समझमें आती है कि गोखलेजीने ब्रिटिश सोल्जरोसे जो माफ़ी माँगी थी, उससे उनकी महत्तामें वृद्धि हुभी थी, लेकिन मैं मानता हूँ कि 'हिन्दूपंच'से कषमा-याचना करानेमें गोखलेजीने कुछ भी हासिल नहीं किया। लेकिन अिसमें गोखलेजीकी अपेक्षा मैं अपने-जैसे लोगोंका ही दोष अधिक देखता हूँ। गोखलेजीकी अभद्र निन्दा सुनकर तिलमिला अुठनेवाले मेरे-जैसे बहुतसे लोग होंगे। लेकिन हम चुपचाप बैठे रहे। अगर हमने अुस समय प्रकटरूपसे अिस तरहकी निन्दाका निषेध किया होता, तो गोखलेजीको अपने समाजके विषयमें अितना अधिक निराश न होना पड़ता।

अिसी अरसेमें बम्बअीमें प्रभुज्ञातिकी महिलाओंने अेक कला-प्रदर्शनीका आयोजन किया था, और गोखलेजी द्वारा अुसका अुद्घाटन होनेवाला था। कलाके विषयमें भी अुन्होंने सोच रखा था। मैं अुनका वह भाषण सुनने गया, और वहाँ मैंने गोखलेजीको पहले-पहल मराठीमें बोलते सुना। अुसी समय मनमें विचार आया कि अगर यह राष्ट्र-पुरुष लेजिस्लेटिव कौंसिलकी अपेक्षा समाजमें, और अंग्रेज़ीके बदले मराठीमें काम करे, तो अिसकी देश-सेवा भी बढ़े और कीर्त्ति भी बढ़े। लेकिन फिर मुझे अैसा लगा कि लेजिस्लेटिव कौंसिलमें ठोस काम करनेवाले लोग कम थे। शायद अिसीलिअे गोखलेजीको कौंसिलमें अधिक समय देना पड़ा होगा।

अन्त्यजोद्वारके बारेमें अुनका अेक भाषण अिसी अरसेमें मैंने बम्बअीके टाअुनहॉलमें सुना। अुसके बाद देशमें आतंकवादी

प्रवृत्तियाँ बढ़ीं । लोकमान्य माँडले जेलमें 'गीता-रहस्य' लिखते थे, और देशमें ग्लानि फैल गयी थी । मैं गुजरात गया, और वहाँ थोड़े दिनोंतक अध्यापनमें व्यस्त रहा । गोखलेजी कहाँ हैं, क्या करते हैं, अिसके बारेमें मैं कुछ भी जानता न था । रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानन्द, भगिनी निवेदिता आदिके ग्रंथोंमें ही मेरी दिलचस्पी बढ़ गयी थी । सन् १९११ या '१२में भगिनी निवेदिताका स्वर्गवास हुआ, उस समय गोखलेजीकी अेक श्रद्धांजलि प्रकट हुअी । वह छोटी ही थी, पर अितनी सुन्दर थी कि मेरी श्रद्धा पुनः जाग अुठी । मुझे न्यायमूर्ति रानडेपर दिये गये अुनके भाषणों और लेखोंका स्मरण हो आया, और गोखलेजीके प्रति मेरे हृदयमें जो आदर था, वह फिर जाग्रत हुआ । मैं गोखलेजीका अधिक अध्ययन करने लगा । विद्यार्थी और राजनीति, हिन्दू-मुस्लिम अेकताके प्रश्न, दुनियाके समस्त राष्ट्रोंकी कांग्रेसमें दिया हुआ अुनका भाषण, आदि पढ़कर मुझे पूरा विश्वास हो गया कि गोखलेजी पाँच-दस सालका विचार करनेवाले 'पॉलिटीशियन' (राजनीतिज्ञ) नहीं, दीर्घदृष्टिसे राष्ट्र-हितका विचार करनेवाले अेक राष्ट्रोद्धारक हैं । खासकर हिन्दू-मुसलमानोंकी अेकताके विषयमें अुन्होंने जो नीति अखितयारकी थी, अुसे देखकर ही अुनके ध्येय और अुनकी दीर्घदृष्टिका मुझे पूरा यक्रीन हो गया । वे यह देख सके थे कि हिन्दू-मुसलमानोंकी अेकता ही भारतीय राजनीतिकी बुनियाद है । अिस अेक कार्यके लिअे भी हिन्दुस्तानको गोखलेजीके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिये ।

वे देशकी राजनीतिको जड़-मूलसे शुद्ध और आध्यात्मिक बनानेके आग्रही थे । देशकी स्थितिको देखते हुअे गोखलेजीने यह महसूस किया कि जबतक रात-दिन देशकी सेवाका ही विचार करनेवाले लोगोंका वर्ग देशमें पैदा न होगा, तबतक देशकी राजनीति अिसी तरह भटकती रहेगी । अपने अनुभवसे वे यह बात अच्छी

तरह देख सके थे कि दुनियादार बनने और फुरसतके वक्रत देशसेवा करनेकी वृत्तिसे देश-सेवा नहीं हो सकती ; दूसरी अेक चीज़ जो हिन्दुस्तानियोंके स्वभावमें — भारतीय संस्कृतिमें — अनादि कालसे चली आयी है, उसे अुन्होंने विशेष आग्रहके साथ देश-सेवाके काममें भी दाखिल किया, और देशके सामने विशेष रूपसे रखा । वह चोज़ थी, 'गरीबीका महत्त्व' ! देश-सेवाके लिअे पैसेकी ज़रूरत है, पैसेके बग़ैर किया हुआ काम अटक जाता है, सदुपयोग करनेपर अेक हदतक संपत्ति आशीर्वादरूप बन सकती है, सो सब सच है । फिर भी देश-सेवक स्वयं जिस हदतक निर्धन रहेगा, अुस हदतक अुसकी देश-सेवा अधिक ठोस होनेकी संभावना रहती है । गोखलेजी अिस बातको अच्छी तरह जानते थे । बाबा-बैरागी बनकर यात्रा करते हुअे घूमना अपेक्षाकृत आसान है; लेकिन समाजमें घुलमिलकर, समाजको साथ लेकर देशोन्नतिके कार्य करना, देशका नेतृत्व करना और साथ ही दरिद्रताका व्रत लेकर, थोड़ेमें गुज़ारा करके, द्रव्यलोभको अेक तरफ़ रखकर निस्पृहताकी आदत डालना, बहुत मुश्किल है । जो लोग विद्वान् हाते हुअे भी नम्र, गरीब होते हुअे भी तेजस्वी, और तपस्वी होते हुअे भी दयालु हैं, वे ही समाजपर, और खास कर भारतीय समाजपर, प्रभुत्व प्राप्त कर सकते हैं । धन कमानेकी शक्ति होनेपर भी जो मनुष्य गरीबीको पसन्द करता है, लाखों रुपये हाथमें होते हुअे भी जो पैसेसे मिलनेवाली सद्बुलियतोंका अुपयोग करनेके लालचमें नहीं फँसता, वही मनुष्य समाजकी सच्ची सेवा कर सकता है, और स्वयं स्वतन्त्र रह सकता है । गरीबीका आदर्श सामने न रहनेपर देश-सेवकके, पैसेका सेवक, पैसेवालेका आश्रित, और देश-हितका द्रोही बन जानेका डर हमेशा रहता है ।

गरीबीके आदर्शके साथ अखंड अुद्योगका व्रत न रहे, तो वह गरीबी जड़ताका रूप धारण कर लेती है । तमोगुणी गरीबी

किसी कामकी नहीं । मनुष्य सन्तोष रखकर अपने निजी मतलबके लिये या अश-व-अशरतके लिये चाहे मेहनत न करे, लेकिन उसे मेहनत तो करनी ही चाहिये । सकाम हो या निष्काम, कर्म तो किया ही जाना चाहिये । अगर हम कर्म न करें, तो हमें जीनेका कुछ भी अधिकार न रहे । परिश्रम करनेका अवसर न मिलना तो अश्वरका सबसे बड़ा शाप समझा जाना चाहिये । यह सोचना ठीक नहीं कि अद्योग सिर्फ पेट भरनेके लिये है । मैं मानता हूँ कि अद्योग तो जीवनका आनन्द है; कायिक, वाचिक और मानसिक शक्तियोंको विकसित करनेका साधन है; और पवित्रता तथा मांषकी साधना है । देशभक्तको फुरसतका वद्वत बितानेका एक अुपाय, या नाम कमानेका एक तरीका समझकर कोअी व्यक्ति या संस्था अखंड रूपसे देशकी सेवा कर ही नहीं सकती । दिखावेके लिये किया हुआ काम भड़कीला चाहे हो, लेकिन वह ज्यादा देरतक टिक नहीं सकता ।

देश-सेवा करनेका मुख्य अुपाय यही है कि हम अपना जीवन निष्पाप बनावें । समाजमें जो दुःख हम देखते हैं, उनमें आधेसे भी अधिक दुःख तो स्वयं हमारे ही पैदा किये हुअे होते हैं । यदि प्रत्येक व्यक्ति अपना जीवन सुधारनेका प्रयत्न करे, तो समाज-सेवकका बहुत-कुछ काम हलका हो जाय । दूसरी दृष्टिसे देखें तो जबतक हम स्वयं निष्पाप नहीं बनते, हमें समाज-सेवाका अधिकार या सामर्थ्य प्राप्त ही नहीं हो सकता । अिस बातका अनुभव करके ही गोखलेजीने भारत-सेवक-समाज (सर्वण्ट्स ऑव् अिण्डिया सोसाअिटी)की योजना और कार्यप्रणालीमें सादगी, गरीबी, आज्ञाकारिता आदि व्रतोंको विशेष रूपसे स्थान दिया है ।

गोखलेजीके दक्षिण अफ्रीका जानेका हाल तो सबको मालूम ही है । उस समय जनरल स्मग् और गांधीजीके बीचकी बातचीतके सम्बन्धमें जब गलतफहमी पैदा हुअी, तो विलायतके पत्रोंको हमारे

गोखलेजी ही अधिक विश्वासपात्र आप्त मालूम हुअे । यह देखकर मेरा हृदय अभिमानसे फूल अुठा, और मुझे पूरा विश्वास हो गया कि यह गोखलेजीके निर्मल चरित्रका ही प्रभाव है । दक्षिण अफ्रीकाका काम बढ़ा । महात्माजीने वहाँ युद्धकी घोषणा की और हिन्दुस्तानमें देशभक्त गोखलेजीने उस यज्ञके लिये ब्राह्मणोचित भिक्षा माँगना शुरू किया । वह अपूर्व अवसर मेरी स्मृतिमें आज भी ताज़ा है ।

वह यज्ञ पूरा हुआ । गांधीजी हिन्दुस्तान वापस आये, और कवीन्द्रसे मिलने शान्तिनिकेतन गये । वहाँ गांधीजीका स्वागत हो ही रहा था कि अितनेमें गोखलेजीके परलोक सिधारनेका तार मिला । शान्तिनिकेतनके अेक आम्रवृक्षके नीचे हम कुछ लोग गांधीजीके आसपास बैठे थे । उस समय गांधीजीकी आँखोंमें आँसू तो नहीं थे, किन्तु आँसुओंसे भी मृदु और गंभीर श्रद्धाका सागर छलक रहा था । उन्होंने हमें गोखलेजीके जीवनकी धार्मिकता समझायी । राजनीतिके लिये भी हमें अपनी खानदानियतका त्याग नहीं करना चाहिये, गोखलेजीके अिस आग्रहका रहस्य उन्होंने हमें समझाया, और उसी क्षण गोखलेजीकी श्रद्धा-निर्मित मूर्तिकी मेरे हृदयमें प्रतिष्ठापना हुअी । मैं गोखलेजीका अनुयायी नहीं हूँ, उनका शिष्य भी नहीं हूँ, लेकिन उनके शिष्यका शिष्य हूँ; गोखलेजीका पूजक हूँ और उनको समझनेकी कोशिश करता हूँ । गोखलेजीके सच्चे अनुयायियोंकी देश-सेवा, धर्मनिष्ठा और निडरता देखकर मनमें गोखलेजीकी मूर्ति अधिकाधिक स्पष्ट और दृढ़ होती जा रही है । आज उस मूर्तिका ही श्रद्धा कर रहा हूँ और उस मूर्तिसे आशीर्वाद माँग रहा हूँ ।

यह जानकर कि भगिनी-समाज अिस मूर्तिका अेक मन्दिर है, मैं यहाँ अपनी श्रद्धांजलि लेकर आया हूँ । गोखलेजीकी देश-भक्ति उनकी देश-सेवासे बढ़ी थी । पचास सालसे भी कमकी आयुमें उनकी देश-भक्तिको पूर्ण अवसर कहाँसे मिलता ? भिक्षा

और राजनीतिके दो क्षेत्रोंमें ही उन्होंने कुछ देश-सेवा की थी। लेकिन जो भी की, वह अपूर्व और अज्ज्वल थी। फिर भी उन्हें उससे सन्तोष न था। वे हमेशा कहा करते थे कि कामके पहाड़ पड़े हैं, जिन्हें उठानेके लिये हजारों देश-सेवकोंकी ज़रूरत है। स्त्री-शिक्षाके महत्त्वपूर्ण विभागकी गोखलेजीकी देश-भक्ति भगिनी-समाज द्वारा कार्यमें परिणत हो रही है; इसीलिये मैं इस मन्दिरमें श्राद्ध करने आया हूँ। आपने मुझे आजका यह अवसर दिया, अिसे मैं आप सबका प्रसाद ही समझता हूँ।

१९-२-'२२

गोपाल कृष्ण गोखले

देश-सेवक, अध्यापक, अर्थशास्त्री और राज-दरवारमें जनताके प्रतिनिधि आदिके नात की हुयी गोखलेजीकी सेवायें भुलायी नहीं जा सकतीं। हिन्दुस्तानकी आर्थिक स्थितिके विषयमें उनकी मीमांसा आज भी ताज़ी है। लाज़िमी और मुफ़्त प्राथमिक शिक्षाको देशमें दाख़िल कराने और नमक-कर कम करवानेके उनके प्रयत्नोंसे गरीबोंके साथ उनका मेल स्पष्ट हो जाता है। भारत-सेवक-समाजकी स्थापना करके उन्होंने राजनीतिक आन्दोलनको दीवषाका रूप दे दिया। वे स्वयं गरीबीमें पले और बढ़े थे; फिर भी देशके कामके लिये वे प्रसन्नतापूर्वक गरीबीसे ही चिपटे रहे। ये सब बातें आज भी विद्यार्थी वर्गके मनपर अंकित की जानी चाहियें। यह भी ज़रूरी है कि गांधीजीके साथ उनके सम्बन्धकी जानकारी विद्यार्थियोंको रहे। न्यायमूर्ति रानडेका गोखलेजीपर बहुत असर था, इसलिये रानडेजीकी जीवनीकी भी इस दिन परिचय कराया जाय।

दाँडी-कूचके कारण नमक-करपर जो असर हुआ है, उसकी चर्चा भी की जा सकती है।

चोखामेळा

मंगलवेढे गाँवके चारों ओर एक चहार-दीवारी बनानी थी । बादशाह गरीबोंको बेगारमें पकड़ लाया और उनसे गाँवकी रक्षाके लिअे दीवार बनवायी गयी । जिन्हें गाँवमें रहनेकी अिजाज़त नहीं थी, जिन्हें गाँवके रास्तोंपर चोरोंकी तरह डर-डरकर चलना पड़ता था, और जिन्हें गाँवके बाहरके क़तवारखानेके पास रहना पड़ता था, उन हरिजनोंको भी गाँवकी दीवार बनानेमें बेगार करनी पड़ी । जिस तरह ओसा मसीहको वह क्रूस, जिसपर उसे चढ़ना था, अपने ही हाथों अुठाना पड़ा था, अुसी तरह अपनेको गाँवसे बहिष्कृत करनेवाली दीवारें भी हरिजनोंको अपने ही हाथों बनानी पड़ीं ।

राज़ोंकी कोअी ग़फ़लत हुआ होगी, अधिकारियोंने जल्दबाज़ी की होगी, गारा पतला बना होगा, किसी भी कारणसे हो, लेकिन वह दीवार गिर गयी और हरिजनोंकी अेक टोली अुसके नीचे दब गयी । चन्द लोगोंने अफ़सोस ज़ाहिर किया, कुछ लोग दुःखी भी हुअे, लेकिन अुन्होंने अुन मरनेवालोंको अुस मिट्टीके ढेरके नीचे ही पड़ा रहने दिया । अुन श्रमजीवी गरीबोंकी नींदमें वे क्यों बाधा डालें ? अुस मिट्टीके नीचे अुनके मुर्दे सड़ गये, अुनकी मिट्टी बन गयी, और सिर्फ़ हड्डियाँ ही रह गयीं । अपनी ही मिट्टीके साथ मिलकर रहनेवाली अुन हड्डियोंको कितनी शान्ति मिली होगी !

लेकिन अुनकी अिस शान्तिमें बाधा डालनेवाली अेक घटना घटी । कुछ अच्छे 'अभंग' (दोहे) पढ़कर अेक सन्तको स्फूर्ति हुआ । वह खोज करता हुआ मंगलवेढे आया और कहने लगा— "चोखेबाकी हड्डियाँ कहाँ पड़ी हैं ? मैं अुनको गति देना चाहता हूँ ।" अुसने वह प्राचीन ढेर खोदना शुरू किया । अेकके बाद अेक हड्डियाँ मिलने लगीं । वह सन्त पुरुष हाथमें अेक-अेक हड्डी

लेकर उसे अपने कानों तक ले जाता, और जिन हड्डियोंसे 'विद्रल ! विद्रल !!' नामकी ध्वनि सुनायी देती, उन्हें अलग रखता जाता। ऐसा करते-करते उसने चोखामेळाकी सब हड्डियाँ खोज लीं, और उनपर अंक समाधि बनायी।

आज उन हड्डियोंकी भी मिट्टी बन गयी होगी। लेकिन अखण्ड रूपसे 'विद्रल, विद्रल'का गान करनेवाले चोखोबाके अभंग आज भी महाराष्ट्रकी अनास्थाके ढेरके नीचे छिपे हुअे मिलेंगे। किसी-किसीने उन्हें जमा करके किताबोंकी जिल्दोंमें गाढ़ दिया है; लेकिन इससे तो चोखोबाका श्राद्ध न होगा।

चोखोबाकी वाणी शुद्ध मराठी, कर्णरससे भरी हुअी, अपनी जातिपर होनेवाले अत्याचारोंसे पीड़ित, किन्तु अश्वरूपके सम्बन्धमें आत्मविश्वासके साथ बोलनेवाली है। वर्ण और जाति, शास्त्र और पुराण, आदि सब अपूरके स्वाँग हैं, उनमें नहीं फँसना चाहिये। आन्तरिक मर्मको पहचानना चाहिये—अपने और पराये—जी हैं, हम सब अत्याचारी सवर्ण हिन्दू बेचारे हरिजनोंके लिये पराये ही हैं!—सब लंगोंको ऐसा अपुदेश देनेवाली चोखोबाकी वाणी जिससे हमारे कण्ठों और हृदयोंमें अखण्ड निवास करती रहे, वैसा कोभी कार्य हमें करना चाहिये। कहते हैं कि अीसाने मनुष्य-जातिके लिये प्रायश्चित्त किया था; किया होगा। लेकिन इसमें शक नहीं कि चोखोबाकी नम्र सेवाने महाराष्ट्रके हरिजनोंके लिये चक्रवृद्धि व्याजके हिसाबसे प्रायश्चित्त किया है। चोखामेळाकी पुण्यतिथिके दिन सब हरिजनोंको बुलाकर उनसे भजन कराया जाय; हम सब बैठकर भजन सुनें, और हरिजन हमें जो प्रसाद दें, उसका सेवन करके हम उन्हें इस बातका विश्वास दिलायें कि अब वे हमारे लिये पराये नहीं, बल्कि अपने ही हैं।

जनाबाअी

जनाबाअीके माता-पिताने अुसे अेक भगवदभक्तके घर दासीकी तरह रख दिया । जनाबाअी जीवनभर अुस घरमें रही । अुसने घरके छोटे-मोटे काम करके अपना गुज़ारा किया, और अीश्वर-भक्ति करके अपने जन्मको सार्थक बनाया ।

जनाबाअीका ब्याह नहीं हुआ था । जिनके घर वह रहती थी, वे सब अीश्वरपरायण तथा धर्मभीरु लोग थे । जिस तरह मीराबाअीने भगवान् से विवाह कर लिया था, अुसी तरह जनाबाअीने भी किया था । मीराबाअी राजवंशकी थीं, असलिये अुन्हें बहुत सताया गया, और अपने बलिदानके बाद वे पूजी जाने लगीं । बेचारी जनाबाअीको कौन पूछता या पूजता ?

यों देखा जाय, तो जनाबाअी महाराष्ट्रकी मीराबाअी है । अुसने नम्रताके साथ नामदेवके कुटुम्बियोंकी सेवा की, और विवाहके अभावमें जो प्रेम-जीवन अतृप्त था, अुसको हृदयसे विठोबाके साथ रममाण होकर समृद्ध बनाया । विठोबा स्वयं आकर अुसके बाल सँवारते थे, दलने-पीसनेके काममें अुसकी मदद करते थे, और जाड़ेके दिनोंमें अुसकी गुदड़ी ओढ़कर सो जाते थे ।

मीराबाअीके काव्यमें जो प्रेमोत्कट भक्ति है, बिलकुल वही भक्ति भोली-भाली भाषामें जनाबाअीके अंभंगोंमें दिखाअी देती है । यदि भक्तिकाव्यमें स्त्री-सहज भाषा देखनी हो, तो वह जनाबाअीके अंभंगोंमें देखी जा सकती है । जनाबाअीने शरीर धारणके लिये अन्ततक शरीरश्रम किये । सचमुच, जनी जनताकी प्रतिनिधि थी, और अुसने जनता-जनार्दनको अपना जीवन समर्पित करके कृतार्थता प्राप्त की थी ।

लड़कियोंके स्कूलमें जनाबाअीका दिन मनाकर अुस दिन अुनके अंभंग गाते हुअे दलने-पीसनेका कार्यक्रम रखा जाय ।

नरसिंह मेहता

गुजरातके अिस आदिकविकी जयन्ती अुत्कट भक्तके रूपमें मनाअी जानी चाहिये । यदि रास-दर्शन, 'मामेरुं', हुण्डी, हारमाला आदि चमत्कारोंसे कोअी आध्यात्मिक सार निकालने बैठे, तो वह अगंभव न होगा । लोक-हृदयको ये कहानियाँ जैसी हैं, वैसी ही, दृश्य अर्थमें, रोचक मालूम पड़ी हैं । लेकिन मेहताजीकी जयन्ती मनाते समय हम लोग अिस झंझटमें न पड़ें, तो अच्छा हो । अुनकी दृढ़ भक्ति, सादा जीवन, हरिजन-प्रेम और गरीबीमें सन्नोष — ये खास-खास बातें अुनकी जयन्तीके दिन विद्यार्थियोंके दिलोंपर अंकित करायी जायँ ।

अिस दिन नरसिंह मेहताकी अुत्तमोत्तम 'प्रभातियाँ' गानेका रिवाज रखा जाय । दूसरा भी अेकाध आख्यान विवेचनके साथ गाया जाय । अिस दिन सवर्ण हिन्दुओंको चाहिये कि वे हरिजन-निवासमें जाकर हरिजनोंके साथ भजन-भोजन वगैराका कार्यक्रम रक्खें ।

मीरा

हिन्दुस्तानके सन्त कवियोंमें अध्यात्म-स्वातंत्र्यवादी मीराका स्थान कुछ निराला ही है । सामान्य विवाह-सम्बन्ध, धर्म, अर्थ और कामके लिये ही है । लेकिन सच्चा विवाह तो अन्तरात्माके साथ ही हो सकता है । मीराने हिन्दुस्तानको यह चीज दी है । यदि बुद्धका राज्य-त्याग कीर्तन करने योग्य है, तो मीराका अमीरी छोड़ना भी अुतना ही कीर्त्य है । विद्यार्थियोंके मन पर मीराकी भक्ति, निर्भयता, और संसार-विमुखता अंकित करनेके लिये अुमके वैसे भजनोंका चुनाव करके वे अिस दिन गाये जायँ । 'विपदो नैव विपदः' श्लोकमें मीराकी मनावृत्ति प्रकट होती है ।

अमर शहीदोंमें भी मीराका नाम अमर है ।

सूचना

अिरी तरह दूसरे सन्त-कवियों, सेवावीरों और राष्ट्र-पुरुषोंकी जयन्तियाँ मनायी जा सकती हैं। लेकिन यह ध्यान रखना चाहिये कि सारा साल त्योहारमय न बन जाय। हमने सारे समयका विचार करके यह नीति निश्चित की है। एक पंचम से ज्यादा दिन त्योहारोंमें खर्च न हो। अगर नये त्योहार बढ़ते हैं, तो पुराने कम होने चाहिये। लेकिन अधिकतर त्योहार स्थायी होने चाहिये; वरना परम्परा नामकी कोओ वस्तु बन ही न पायेगी, और संस्कृति कषीण होगी।

जीवित इतिहास

हिन्दुस्तानका इतिहास हिन्दुस्तानियों द्वारा नहीं लिखा गया है। रामायण और महाभारत आजके अर्थमें इतिहास नहीं कहे जा सकते। आधुनिक दृष्टिसे तो वे इतिहास हैं भी नहीं। रामायण, महाभारत और पुराणोंमें भी कुछ इतिहास तो है, लेकिन वह सब धर्मका निश्चय करनेके लिये दृष्टान्तरूप है। महावंश और दीपवंश इतिहास माने जा सकते हैं, पर वे लंकाके हैं; और उनमें इतिहासकी चर्चा बहुत कम हुआ है। काश्मीरकी राजतंगिणीके विषयमें भी यही कहना पड़ता है। तो फिर हमारा इतिहास क्यों नहीं है? जीवनके किसी भी अंगको लीजिये, हम लोगोंने उसमें असाधारण प्रवीणता प्राप्त की है; फिर भी हमारे यहाँ इतिहास क्यों नहीं?

इतिहासका अर्थ है, मनुष्य-जातिके सम्मुख उपस्थित हुआ प्रश्नोंका अल्लेखन। इनमेंसे कुछ प्रश्नोंका निराकरण हुआ है, और कुछ अभीतक अनिर्णीत हैं। जिन प्रश्नोंका निश्चय हो सका है, वे अब प्रश्न नहीं रहे; उनका निराकरण हो चुका; अब वे समाजमें

— सामाजिक जीवनमें — संस्कार-रूपसे प्रविष्ट हो गये हैं । जिस प्रकार पचे हुअे अन्नका रक्त बन जाता है, उसी प्रकार अिन प्रश्नोंने राष्ट्रीय मान्यता या सामाजिक संस्कारका रूप प्राप्त कर लिया है । खाना हज़म हो जानेपर मनुष्य अिस बातका निचर नहीं करता कि कल उसने क्या खाया था । ठीक अिसी तरह जिन प्रश्नोंका अुत्तर मिल चुका है, अुनके विषयमें भी वह अुदासीन रहता है ।

अब रहा सवाल अनिर्णीत प्रश्नोंका । हम लोग परमार्थी (Serious) हैं । हम अनिर्णीत प्रश्नोंको कागज़पर लिखकर छोड़ देना नहीं चाहते । अनिर्णीत प्रश्नोंमें मतभेद होते हैं । जितने मतभेद होते हैं, अुतने ही सम्प्रदाय हम खड़े कर देते हैं । वेदोंके अुच्चारणमें मतभेद हुआ, तो हमने भिन्न-भिन्न शाखायें खड़ी कर दीं ! ज्योतिषमें मतभेद हुआ, तो वहाँ भी हमने स्मार्त और भागवत अेकादशियाँ अलग-अलग मानीं । दर्शनशास्त्रमें तत्त्वभेद मालूम हुआ, तो हमने द्वैतवादी तथा अद्वैतवादी संप्रदायोंका निर्माण किया । आहार या व्यवसायमें भेद हुआ, तो हमने भिन्न-भिन्न जातियाँ बना लीं । जहाँ सामाजिक रीति-रिवाजोंमें मतभेद हुआ, वहाँ हमने झट अुपजातियाँ खड़ी कर दीं । अगर गलतीसे कोअी आदमी किसी रिवाजको तोड़ दे या बड़े-से-बड़ा पाप करे, तो अुसके लिअे भी प्रायश्चित्त है; सिर्फ अुसके लिये नयी जाति खड़ी नहीं की जाती । महान् अैतिहासिक और राष्ट्रीय महत्त्वकी घटनाओंके अितिहासको हम लोग त्योहारों द्वारा जाग्रत रखते हैं । अिसी तरह हरअेक सामाजिक आन्दोलनके अितिहासको, अुस आन्दोलनके केन्द्रको, तीर्थका रूप देकर हम लोगोंने जीवित रखा है । अिस तरह अितिहास लिखनेकी अपेक्षा अितिहासको जीवित रखना, अर्थात् जीवनमें अुसे चरितार्थ कर दिखाना, हमारे समाजकी खूबी है । चिथड़ोंके बने कागज़पर अितिहास लिखकर अुसे सुरक्षित

रखना अच्छा है, या जीवनमें ही अतिहासका संग्रह करके रखना अच्छा है ? क्या यह कहना मुश्किल है कि अिन दोनोंमेंसे कौनसा मार्ग अधिक सुधरा हुआ है ? जबतक हमारी परम्परा टूटी नहीं थी, तबतक हमारा अतिहास हमारे जीवनमें जीवित था ! आज भी यदि लोगोंके रीति-रिवाजों, अनुकी धारणाओं, जातीय संगठनों और त्योहारोंकी खोज की जाय, तो बहुत-सा अतिहास मिल सकता है । हाँ, यह ठीक है कि वह अधिकांशमें राजकीय या राजनीतिक नहीं, बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय होगा । क्या अतिहासके संशोधक अस दिशामें परिश्रम न करेंगे ?

आवश्यक वाचन

अस पुस्तकमें त्योहारोंपर जां छोटी-छोटी टिप्पणियाँ दी गयी हैं, वे कोअी त्योहारोंका निबन्धन (Code) तैयार करनेके लिअे नहीं, बल्कि त्योहारोंकी तहमें रहे परम्परागत रहस्य और अनुमें जांड़े जा सकनेवाले तत्त्वोंकी तरफ़ नयी पीढ़ीका ध्यान खींचनेके लिअे हैं । असके सिलसिलेमें पढ़ने लायक़ बहुत-सा साहित्य है भी, और नहीं भी । सिर्फ़ त्योहारोंका महत्त्व समझानेवाली किताबें हिन्दीमें बहुत कम होंगी । मराठीमें लिखी गयी 'आर्योंके त्योहारोंका अतिहास' नामकी अेक ही किताब अस क्षेत्रको व्याप्त करती है । असके लेखकने नयी जानकारी जांड़कर असका अेक नया संस्करण भी प्रकाशित किया है । त्योहारोंकी स्वतन्त्ररूपसे छान-बीन करके, और हिन्दीमें अस विषयपर जो अेक-दो किताबें लिखी गयी हैं, उनका अुपयोग करके, असका नया संस्करण तैयार करनेकी आवश्यकता है । 'Hindu Fasts and Feasts'—जैसी किताबें भी कुछ नयी दृष्टि दे सकती हैं ।

लोक-जीवन और समाज-विज्ञानका अध्ययन करनेवाले कुछ गोरे लोग अलग-अलग त्यौहारोंपर कुछ तो समभावपूर्वक और कुछ मनोविनोदके लिये लिखते हैं, उसमेंसे भी तुलना करने लायक कुछ अंश मिल जाते हैं । बंगाली लेखकोंने भी अंग्रेजी और बँगलामें बहुत-सी जानकारी अिकट्टा की है । जामनगरके श्री मणिशंकर शास्त्रीकी गुजराती किताब बिलकुल पुराने ढंगकी है, लेकिन शोध-खोज करनेवाला उसमेंसे भी कुछ-न-कुछ जानकारी अवश्य प्राप्त कर सकता है । इसी ढंगकी 'आर्योत्सवप्रकाश' नामकी एक मराठी किताब है । लोकमान्य तिलककी 'ओरायन' (मृगशीर्ष) नामकी किताबपरसे सूझी हुअी और होलीके त्यौहारपर लिखी गअी 'शिमगा' नामकी एक मराठी किताब है । उसके वारेमें यह कहा जाता है कि संशोधनकी दृष्टिसे वह मूल्यवान् है । सूरतमें भाभी क्राफ़ीने त्यौहारोंपर एक व्याख्यान दिया था, वह भी पढ़ जाने लायक है । हमारे त्यौहारोंके साथ हमारे देशकी आब-हवाका, ऋतु-चक्रका, व्यापारियों और प्रवासियोंकी आवश्यकताओंका और किसानों आदिके जीवनका सम्बन्ध है । विदेशी लोगोंमें हिन्दू-जीवनका बहुत गहरा अध्ययन भगिनी निवेदिताने किया है । उनके कुछ लेख भी मूल्यवान् सूचनायें दे सकेंगे ।

हमारा प्राचीन राष्ट्रीय जीवन प्रधानतया रामायण, महाभारत और भागवतमें प्रतिबिम्बित हुआ है । देवीके अुपासकोंकी विशेषता देवी-भागवतसे प्राप्त हो सकती है । अिन महाग्रंथोंका परिचय सभीको होना चाहिये । श्री किशोरलालभाभीकी अवतार-मालाकी 'राम और कृष्ण', 'बुद्ध और महावीर' तथा 'सहजानन्द' नामकी किताबें बालकोंके कामकी हैं । 'सीताहरण' भी बालकोंके लिये अच्छी किताब है । 'कृष्णचरित्र'के लिये श्री विन्तामणराव वैद्यकी 'कृष्ण-चरित्र' तथा बंकिम बाबूकी 'कृष्ण-चरित्र' नामक दोनों पुस्तकें विशेष अुपयोगी हैं ।

अिसी सम्बन्धमें जैन-साहित्य विशेषरूपसे देखने लायक है । 'त्रिषष्टिशालाकापुरुष' में तीर्थंकरोंकी जानकारी तो मिलेगी ही । जैसे-जैसे जैन-आगमोंके सुलभ सारानुवाद आजके पाठकोंके सामने गुजरातीमें आते जायेंगे, वैसे-वैसे जैन-जीवन-पद्धति अधिकाधिक समझमें आती जायगी । जब यह बात समझमें आ जायगी कि जैन सिर्फ़ एक सम्प्रदाय नहीं, बल्कि एक ऐसी जीवनदृष्टि है, जो विश्वव्यापी होनेकी योग्यता रखती है, तो उसका असर न्यूनाधिक मात्रामें सभी त्योहारोंपर पड़ेगा ही ।

हमारे यहाँ थोड़ा-बहुत बौद्धसाहित्य तैयार हुआ है । 'बुद्ध-लीला,' 'धम्मपद,' 'सुत्तनिपात,' 'बौद्ध संघका परिचय,' 'समाधि-मार्ग,' 'बुद्ध, धर्म और पंथ,' 'बुद्ध-चरित'—आदि पुस्तकोंसे बौद्ध-धर्म और उसके 'अवेर'के महान् सन्देशका वायुमण्डल आसानीसे ध्यानमें आ जायगा । श्री धर्मानन्दजीने शान्तिदेवाचार्यके 'बोधिचर्या-वतार'मेंसे अच्छे-अच्छे श्लोक चुनकर हमें दिये हैं । वे पारायण करने योग्य हैं । दुनियाकी शिक्पित जनताको बौद्धधर्म और ब्राह्म-धर्म अधिक-से-अधिक मात्रामें आकर्षित करते हैं, क्योंकि उनमें धारणाओं और वादोंका साम्राज्य कम-से-कम है । उनमें सदाचारकी साधना ही मुख्य है ।

सदाचारकी साधनापर अुग्रताके साथ जोर देनेवाला एक बड़ा धर्म अिस्लाम है । फिर भी उसमें खास तौरपर यह दृष्टि रखी गयी है कि मनुष्य-स्वभावपर अधिक नियंत्रण न रखा जाय । अिस्लाममें त्योहार ज्यादा नहीं हैं । दो अीदें अिब्राहीमके धर्मसे ली गयी हैं । मुह्ररम अैतिहासिक त्योहार माना जायगा । मुहम्मद पैगम्बर साहबकी वफ़ात (मृत्यु)का दिन कहीं-कहीं मनाया जाता है । यह एक अलग सवाल है कि अिस्लामी संस्कृतिमें विलासिताके लिअे कितना अवकाश है । अिस्लामी धर्म तो संयम-धर्मी (Puritan) ही है । कुरान शरीफ़, मुहम्मद साहबकी

जीवनी और हदीसके पढ़नेसे उस संस्कृतिका खयाल आ सकेगा । अमीरअलीकी 'Spirit of Islam', और आर्नोल्डकी 'Preaching of Islam', ये दो किताबें शिषकोंको पढ़ लेनी चाहियें । 'कसस-अल्-अंबिया'का अनुवाद कोअी कर दे, तो बड़ी सहूलियत हो जाय । उससे हमें अिस्लाममें प्रतिष्ठा पाये हुअे पैगम्बरोंके जीवन-चरित्र मिलेंगे । 'मुस्लिम महात्माओ' नामकी किताब गुजरातमें बहुत मशहूर है ।

ओसाओी धर्मके लिअे 'नया अहदनामा' और 'सेण्ट जॉनका भागवत', डीन फेरारकी 'ओसाकी जीवनी', केम्पीसकी 'अिमिटेसन ऑव् क्राअिस्ट' और बनियनकी 'पिल्ग्रिम्स प्र'ग्रेस' नामकी किताबें अवश्य पढ़ लेनी चाहियें । सेण्टपॉल, अिग्रेसियस लॉयला, मार्टिन ल्यूथर आदिके बारेमें हिन्दीमें लिखनेकी आवश्यकता है । टॉल्स्टायने बावन परिच्छेदोंमें बच्चोंके लिअे ओसाकी जीवनी लिखी है, वह भी अच्छा चीज है । रोमनकैथोलिक दृष्टिसे लिखी पापीनीकृत ओसाकी जीवनी खास पढ़ने योग्य है ।

शिषकोंको ब्राह्मसमाज, आर्यसमाज, प्रार्थनासमाज, रामकृष्ण-मिशन-जैसे व्यापक और आधुनिक धर्म-संस्करणके प्रयोगोंके बारेमें अच्छी जानकारी होनी चाहिये । क्योंकि हमें अिसीसे भविष्यकी दिशा मिलती रही है । थियोसॉफ्रीने भी अनेक धर्मोंके अध्ययनके लिअे उपयुक्त साहित्य प्रकाशित किया है । आचार्य श्री आनन्द-शंकर ध्रुवने गुजरातीमें जो किताबें लिखी हैं, वे प्रत्येक शिषकको पढ़नी चाहियें; खासकर अुनकी 'धर्म-शिषण' नामकी पुस्तकमें सब धर्मोंके बारेमें थोड़ी-थोड़ी जानकारी दी गयी है ।

सिक्ख धर्मके कार्य बहुत क्रीमती हैं । उसके बारेमें हमें अधिक जानना चाहिये । श्री मगनभाओी देसाओीकी 'सुखमनी' तथा 'जपजी' नामक गुजराती किताबोंकी भूमिकाओंसे अिसमें काफ्री मदद मिलेगी ।

हिन्दुस्तानके प्रमुख सन्त कवियोंका अध्ययन प्रत्येक संस्थामें हमेशा होता रहना चाहिये। त्योहारोंकी योजना बनानेका काम अेक तरहसे हिन्दुस्तानकी विविधरंगी संपूर्ण संस्कृतिका प्रतिबिम्ब पैदा करनेका काम है; और सो भी साहित्यके द्वारा नहीं, बल्कि जीवनके अुत्सवों द्वारा। यह महान् काम प्रस्तुत कार्यक्षेत्रसे बाहरका है, और अस कामके अेकदम हो जानेकी अपेक्षा असका धीरे-धीरे बढ़ना ही अच्छा है।

व्यापक दृष्टिसे अध्ययन करनेके लिये आवश्यक वाचनकी यह सूची यथेच्छ बढ़ायी जा सकती है। फ्रेज़रकी 'Golden Bough' नामकी किताब नास्तिक दृष्टिसे लिखी गयी है, फिर भी वह अत्यन्त पठनीय है। मूल ग्रंथके १०-१२ हिस्से पढ़नेकी ज़रूरत नहीं। स्वयं ग्रंथकारने सारांशका अेक हिस्सा तैयार किया है, वह पढ़ लेना काफी है।

हमारे हिन्दुस्तानी प्रकाशन

ईशु खिस्त	०-१४-०	०-२-०
एक धर्मयुद्ध	०-८-०	०-२-०
गांधीजी	०-६-०	०-२-०
गोसेवा	१-८-०	०-५-०
निर्भयता	०-२-०	०-१-०
मरुकुंज	१-४-०	०-५-०
रचनात्मक कार्यक्रम	०-६-०	०-१-०
हमारी बा	२-०-०	०-५-०
हिन्दुस्तानी बाल-पाठावली (नागरी)	०-६-०	०-१-०
हिन्दुस्तानी कहानी संग्रह	०-४-०	०-१-०
„ पाठावली पहली किताब (नागरी)	०-६-०	०-१-६
„ „ „ „ (उर्दू)	०-११-०	०-१-६
हिन्दुस्तानी बाल-कहानियाँ	०-६-०	०-१-६
सयानी कन्यासे		

नवजीवन कार्यालय

पोस्ट बॉक्स १०५

अहमदाबाद

